

अनाख्या

(बारह आख्यायिकाओं का संग्रह)

राय कृष्णदास



पुस्तक-संख्या—२०

प्रकाशक—
भारती-भण्डार
रामघाट, बनारस सिटी

१९८६

प्रथम संस्करण
मूल्य १।)

मुद्रक—
श्रीरामकिशोर गुप्त
साहित्य प्रेस,
चिरगाँव (म्हाँसी)

नोट

अनाख्या की पहिली दो कहानियाँ १९१७ में,

बाद की सात कहानियाँ १९२० में

लिखी गई थीं। इसकी ग्यारहवीं कहानी १९२१ की,

और “वसन्त का स्वप्न” १९२३ की रचना है।

इनमें से “रहस्य” ‘प्रतिभा’ में, “न्याय-पक्ष”, “माहा-

त्म्य” और “दिनों का फेर” कानपुर की ‘प्रभा’ में, “भय

का भूत” और “नर-राक्षस” ‘त्यागभूमि’ में, एवं

“गहूला” और “कल्पना” ‘मधुकरी’ नामक संग्रह में

प्रकाशित हो चुकी हैं। शेष, अब हिन्दी-संसार के सामने

उपस्थित होती हैं—‘देर आयद दुरुस्त आयद’ के बल

पर ही इस देरी के लिये लेखक क्षमा चाहता है।

प्रिय
नानू
को

सूची

रहस्य	१
न्याय-पक्ष	६
माहात्म्य	३४
ब्रह्म-लेखक	५४
दिनों का फेर	६४
अय का भूत	६९
नर-राक्षस	७४
गहूला	९४
इनाम	१०८
कल्पना	१२२
समदुःखिनी	१३१
वसन्त का स्वप्न	१५२

श्रीः

अनाख्या



रहस्य

“बाबू जी, इस बार मैं इम्तिहान न दूँगा।”

“‘इम्तिहान न दूँगा’, क्यों ?”

“मैं अपना कोर्स नहीं तैयार कर सका हूँ।”

“प्ये ! तुम कह क्या रहे हो ? तुमने तो मुझसे साल-भर बराबर यही कहा है कि मैं खूब तैयारी कर रहा हूँ। आज यह बात कैसे ?”

“बाबू जी, वह मेरी भूल थी । मैं इस बार इम्तिहान नहीं दे सकता । बूँगा तो फेल हो जाऊँगा ।”

“तो उससे क्या होता है ?”

“जी, आज तक सदा ही पास होता आया हूँ ; इस बार यदि फेल हो जाऊँगा तो लोग हँसेंगे ।”

“हँसेंगे तो हँसने दो । इम्तिहान में तो लोग फेल-पास हुआ ही करते हैं ।”

“दुनियाँ हो; मैं नहीं हुआ चाहता”—उत्तर रुखा था ।

“आज तुम्हें ही क्या गया है जो ऐसी बातें कर रहे हो । तुम्हारे प्रीफेसरों से तो जब बातें हुई हैं तब उन्होंने यही कहा है कि तुम पास होगे, और अच्छे मार्कस् से पास होगे । आज तुम यह क्या कहते हो !”

“बाबू जी, उन्होंने न जाने क्या समझ कर कहा है । मैं कभी पास नहीं हो सकता ।”

“मैं तो तुम्हें रोज घंटों किताबों में सिर गड़ाए देखता हूँ ; फिर भी तुम ऐसी बातें कहते हो । अब तो केवल पन्द्रह दिन बाकी हैं, एक दफे हिम्मत कर ही डालो ।”

“जी नहीं, अब मेरे किये कुछ नहीं हो सकता ।”

रहस्य

- “आखिर इसका मतलब क्या है ?”
- “बाबूजी, आप सबकी बात पूछते हैं ?”
- “फिर नहीं तो क्या ?”
- “सच तो यह है कि अब मेरा मन किसी बात में नहीं लगता ।”
- “क्यों ?”
- “न-जाने क्यों ।”
- “ऐसा कब ले होगया ?”
- “आज हो ले ।”
- “आज ही ले !” कुछ बात भी तो पताओ ।”
- “कुछ कर नहीं सकता । मन ही तो है । अब तो संसार छोड़ने ही में मजबूर जान पड़तो है ।”
- “अरे राजकीमार, वृकुल पागल तो नहीं होगया ?”
- “जी, मैं यह कैसे कहूँ ।”
- “तुम न कहो, मैं तो कहता हूँ ।”
- “आप बड़े हैं, जो चाहे कहें ।”
- “अच्छा संसार छोड़ कर क्या करोगे ?”
- “लोग जो करते हैं ।”
- “आखिर कुछ सुनूँ भी तो ।”
- “साधू हो जाऊँगा ।”

“दे ? दे ? भरे ! बहू क्या करेगी ?”

“जो उसके भाग्य में लिखा होगा ।”

“बेटा, तुम्हें क्या होगया है ! तुम्हारी भकल कहाँ हवा खाने चली गई ?”

“बाबूजी, भकल हवा खाने नहीं चली गई, आज हवा खाकर अपने ठीक-ठिकाने लौट आई ।”

“अच्छा, जो मैं तुम्हें साधू न होने दूँ तो ?”

“तो, मैं चोरी से कहीं भाग जाऊँगा । नहीं, नहीं, जान दे दूँगा ।”

“अच्छा, तुम्हारे जी में जो आवे सो करो, पर मैंने पढ़ाने-लिखाने में जो खर्च किया है, उसे मुझे चुका दो”—लाला शिवशम्भुलाल ने गम्भीर मूर्ति बन कर कहा ।

“क्या मैंने आपसे कहा था कि यह सारा कष्ट उठाइये ?”

“क्यों रे ! तुझे इतना क्रोध है और फिर भी साधू बनने का दावा करता है । इसी बिरते पर साधू होगा !”—उन्होंने आवेश से दाँत पीसते हुए कहा ।

“यह लीजिये अपना जनेऊ-सनेऊ । चोटी मैं पहिले ही कटा चुका हूँ । अब मैं साधू होने चला । देवें तो कौन रोक्ता है ?”—रामगोपाल बाहर की ओर झपटा ।

रहस्य

परित्यक्त जनेऊ ने पैरों में उलझ कर उसे रोकना चाहा किन्तु उसके सबूट पाँवों ने एक ही झटके में उसे तोड़ डाला ।

“और बहू के गहने तो देता जा, जो विलायत जाने के लिये उससे छीन लाया है”—उसकी माँ ने अकस्मात् आकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा ।

रामगोपाल को काटो तो खून नहीं ।

इसी समय दूसरे कमरे से हँसी की एक मन्द झङ्कार सुनाई पड़ी ।

न्याय-पक्ष

आकाश में दो-चार छोटे-छोटे घनखण्ड दीख पड़ते थे। वे चल रहे थे, पर इतनी अलस गति से कि सन्ध्या की शोभा देखने के लिए ठहर गये हों। समय के साथ वे अपना रंग बदल रहे थे; अब क्रमशः लोहित से लोह-वर्ण होने की तैयारी थी। चैतन मनुष्यों से तो जड़ बादल ही अच्छे जो समय के संग अपना रंग तो बदल लेते हैं।

सामने के क्षितिज की वृक्षावली के गहरे नीले रंग पर बस्ती का खाकी धुआँ फैल रहा था। और वह कुहरे से ढकी पर्वत-भेणी-सी जान पड़ती थी।

मैं अपने बँगले के बरामदे में अपने एक पड़ोसी मित्र और अपनी सहधर्मिणी के साथ बैठा हुआ था। दिसम्बर की सन्ध्या के पाँच बज चुके थे। सर्द हवा चल रही थी।

मैं रोज क्लब नहीं जाता था। घर पर ही टेनिस खेल लिया करता और बाग में टहल लेता। मेरे मित्र को बाग से विशेष प्रीति थी। उन्होंने मेरी बाटिका जी

लगा कर सँवार दी थी। उन्हें हम लोग आदर्श जन एवं अपना कुटुम्बी समझते और मुझे तो उनका साथ छोड़, क्लव जाना न भाता। पर क्या करता, रूप बनाये रहना पड़ता था।

हम लोग अभी टहल कर आये थे। बाते शुरू होने ही को थीं कि मुझे एक पञ्जाबी सज्जन आते देख पड़े। अपने प्रान्त के आदमी को देख कर मैं अत्यन्त प्रसन्न हुआ। श्रीमती से बोला—“लो, यह कौन आये !” उन्होंने भी प्रसन्न होकर उत्तर दिया—“मैं तो नहीं जानती। आप जानते हैं ?”

आगन्तुक ने पास पहुँच कर पूछा—“साहनी साहब, मुझे पिछाना भी, अन्दर आ सकता हूँ ?”

“शौक से, पूछना क्या है।”

बरामदे में केवल तीन ही कुर्सियाँ थीं। मैं बेचरा को और कुर्सी लाने की आवाज देकर खड़ा होगया। वे शिष्टाचार करने लगे। मैंने बात टालने और कौतूहल-शांति के लिए कहा—“चङ्गे हो जी, माफ़ करना, आपकी सूरत तो मैंने बहुत बार देखी है पर पिछाना नहीं।”—चाकरी के चरखे में मैं दुनियाँ की बहुतेरी बाखें भूल गया था।

“आपकी कृपा से चङ्गा हूँ”—उन्होंने पंजाबी में उत्तर दिया—“आपका मुझे न पहचानना कोई ताज्जुब नहीं। इधर कई वर्षों से अब्बल तो उधर आपका आना नहीं हुआ, दूसरे जब आप आये भी तब मैं संयोग से वहाँ था नहीं। मैं आपका पुराना हम-साया दुनीचन्द हूँ।”

मैं, अपने दोनों हाथों में उनका इहिना हाथ दबाकर पंजाबी में बोला—“अक्खा: पण्डित दुनीचन्दजी! इधर कैसे आ पड़े। माफ़ करना जी, पहिचाना नहीं।”—फिर श्रीमती के प्रति मैंने कहा—“इन्को पहचाना न।”

“पहिले ही। शकल से नहीं पहिचाना था परन्तु बोली सुनते ही पहिचान लिया।”

बेयरा कुर्सी रख गया था। मैं उन्हें बिठाकर बैठ गया। घर से प्रायः रोज़ चिट्ठी आती है पर पड़ोसी के मुँह से हाल सुनने की बात कुछ और ही होती है। हम लोग उनसे छोटी-छोटी बातें पूछने लगे। बातें बराबर प्रान्तीय बोली में हो रही थीं।

मेरे पड़ोसी मित्र ने कहा—“साहनी, अब तुम पण्डितजी से बातें करो, मैं चल दिया।”

“जाभोगे? अच्छा।”—हम लोगों में बिलकुल शिष्टाचार न था।

श्रीमती ने उनसे पूछा—“आप तो अभी चाय पीने वाले थे ?”

वे, “आज के बदले कल” कहकर और अपना टेनिस का थपका उठा कर उसे नचाते हुए लम्बे हुए। मैं पुकार कर बोला—“आज की तुकसानी लेते आना !” फिर पण्डितजी से पूछा—“कहिप, कारबार कैसा चलता है ?”

“सब जहाँ-का-तहाँ होगया ।”

“अरे ! यह कैसे ?”

“दुनियाँ के क्रायदे से ।”

“अब, इधर कैसे आना हुआ ?”

“रूठे भाग्य को खोजते-खोजते ।”

श्रीमती ने कहा— “कलकत्ते जाते होंगे ?”

“हाँ जी ।”

मैंने पूछा—“यहाँ कहाँ ठहरे हैं ?”

“कहीं नहीं । रेल से उतर कर धर्मशाला में असबाब रखता हुआ सीधा इधर चला आया ।”

“क्यों, यहाँ क्यों न लाये ?”

“ठहरना होता तब न । दूसरी गाड़ी से रवाना हो जाऊँगा ।”

“फिर यहाँ क्यों उतर पड़े ?”

“आप लोगों से मिलने और कर्ज लेने के लिये । मैं तो ब्राह्मण ठहरा—भीख भी माँग सकता हूँ । पर जब रोजगार करने निकला तब भीख कैसी ?”

सिर नीचा किये हुए मैंने पूछा—“आपको कितना चाहिए ?”—सड़कपिपी मेरा मुख देख रही थी ।

“जितना दे सकिए ।”

आज सहीने की १८ वीं तारीख थी, परन्तु मेरे पास कुछ आने बच रहे थे । जवानी के जोश में जोड़ना थोड़े ही सूझता है । तिस पर मुझे तो इस बात का अभिमान था कि कुछ बड़ों की कमाई तो फूँकता ही नहीं, जब रुपयों के लिए नौकरी तक स्वीकार की तब उन्हें खर्च क्यों न करे ।

मैंने श्रीमती को देखा । वह मेरा मतलब समझ गई, और बेयरा को बुलाकर उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पास कुछ रुपये हैं ?

“जी मेम साहब, इस वक्त तो मेरे पास ग्यारह रुपये हैं ।”

“अच्छा ले आओ”—मैंने कहा ।

मैं ‘मेम साहब’ कोई आदर की संज्ञा नहीं

समझता । हमारे पञ्जाब के 'वानू साहवा' वा 'बीबा साहिवा' में और इसमें जमीन-आसमान का अन्तर है । हमारे यहाँ तो किसी साधारण स्त्री का सम्बोधन उन पदों से कदापि नहीं किया जा सकता, पर यहाँ तो इंडियन-डाईवर की स्त्री भी 'शिम साहब' है । जात पढ़ने पर अंग्रेजों से मैं यह कह भी देता । किन्तु मैं जिहा इन्डियन सिविल सर्विस में हूँ उसमें दुर्भाग्य-वश देशियों की संख्या इतनी कम है, उनमें भी—कहते लज्जा आती है—साहसी और देशाभिमानि इतने थोड़े हैं कि लाचार होकर हम लोगों को स्वयं रचना पड़ता है ।

जेयरा रुपये ले आया । मैंने लजाते हुए उन्हें दुनीचन्द के हाथ में रख कर कहा—“खेद है, इससे अधिक आपकी सेवा नहीं कर सकता ।”

“इतना तो ज़रूरत से ज्यादा है । जब बद्रिस्मती से जंग करने निकला हूँ तो कलकत्ते का किराया भर बहुत था । वहाँ देख लेता । अच्छा मैं जाऊँ ? इस वक्त आपका शुक्रिया किस मुँह से अदा करूँ । जिस दिन यह कर्ज़ चुका सकूँगा उस दिन शुक्र करूँगा ।”

पण्डित जी खड़े होगये । हम दोनों ने भोजन का अनुरोध किया । किन्तु उन्होंने कहा कि टेन न मिलेगी ।

अन्त को एक गिलास दूध लेकर वे रवाना हुए ।

पं० हुनीचन्द हमारे नगर के मध्यश्रेणी के व्यापारी थे । अपने गुणों से सर्व-प्रिय हो गये थे । उनका यह युगान्तर देखकर हम लोग देश तक खेद करते रहे ।

ठंड ने कहा—यह तो संसार की लीला है ! उठो, घर में जाकर अपना काम देखो ! !

२

मुझे नौकरी करते तेरह वर्ष हो चुके थे । मेरे साथ के कितने ही गोरे सिविलियन, कलक्टर हो गये थे पर मैं अभी जन्ट ही बना था । आँसू पोंछने के लिये कैसर-ए-हिन्द स्वर्ण-पदक दे दिया गया था । उस समय मैं पटने में नियुक्त था ।

प्रातःकाल मैं अपने दफ्तर में बैठा काम कर रहा था । कुहरा अभी तक छँटा न था । बीच-बीच में सिर उठा कर मैं उसे देख लेता, उसमें मुझे अनेकों स्मृति-चित्र दीख पड़ते ।

अर्दली ने आकर मीठापुर थाने के दारोगा की इत्तला की । काम खत्म करके मैंने उन्हें बुलाया । सलाम करके, इशारा पाने पर दारोगा जाहिदअली सामने की

कुर्सी पर बैठ गये । उन्होंने गिड़गिड़ा कर पूछा—“हुजूर का मिजाज अच्छा है ?”

मैंने कहा—“हाँ, कोई खास बात है ?”

“गरीब परवर, एक वाक़ए में अजीब कैफ़ियत हो रही है” —उन्होंने बिहार के खिचाघदार लहजों में उत्तर दिया ।

मैंने कुछ आश्चर्य से प्रश्न किया—“जाहिदअली, क्या बात है ?”

“खुदावन्द, कल एक बदमाश पकड़ा गया है, वह हुजूर को सफ़ाई में लिखाने कहता है !”

“मुझे खुलासा हाल सुनाओ ।”

“हुजूर, कल रात को कोई आठ वजे एक मुलज़िम थाने पर लाया गया, उसने पुलिस के सिपाही को पीटा था । एक इक्केवाले की शरारत से यह फौजदारी हुई है । उस बदमाश ने इसी इक्केवाले की सफ़ाई दी है । हुजूर का नाम भी वह शरूश अपने चाल-चलन की सफ़ाई के बारे में लेता है ।”

“क्या यहीं का रहनेवाला है, उसका नाम ?”

दारोगा की बातें मेरे लिये पहेली से बढ़कर थीं ।

“हुजूर, उसका नाम है धूनीचन्द । हुजूर के वतन का रहनेवाला है ।”

“दुनीचन्द नहीं दुनीचन्द कहो”—मैंने जोर देकर कहा—“हाँ, उन्होंने क्या किया ?”—मैं मानों गाड़ी नींद से जाग रहा था ।

दारोगा आदि से अन्त तक सब कथा सुना गये । मैंने दाँतों से पेन्सिल काटते हुए और अपने चमकते जूतों में अपने ऊपरी धड़ का प्रतिबिम्ब देखते हुए पूछा—
“क्या उन्हें रात-भर हवालात में रक्खा था ?”

“हुज़ूर, बिना जाने छोड़ कैसे देता ।”

“जब वह मेरा नाम लेते थे तब मुझसे टेलीफोन में पूछ क्यों न लिया ?”—मैंने कड़ी आवाज़ में उन पर भाँख गड़ा कर कहा ।

“जी-ई-ई इतनी तो-ओ-ओ ग़लती हुई-ई-ई !”—उसने सिर नीचा करके हाथ में का कागज़ मरोड़ते हुए कहा ।

मैंने जी में सोचा—“बचा, जैसी ग़लती हुई मैं जानता हूँ”—और उससे पूछा—“रोज़नामचा लाये हो ?”

“जी, नहीं ।”

“अच्छा, जाकर पं० दुनीचन्द को छोड़ दो, कचहरी में मौजूद रहने को कह देना ।”

मुकदमा मेरी इजलास में था क्योंकि मैं ही शहर-हाकिम (सिटी मैजिस्ट्रेट) था । अदालत में पण्डितजी मौजूद थे । मैंने उनसे मुकदमे के बारे में कुछ न पूछा । सिर्फ एक रेज वकील से कह दिया कि आप इनके वकील बनकर मुकदमे की पैरवी कीजिये । मेरा और इक्के-वाले का नाम सफ़ाई के गवाहों में लिखा दीजियेगा । फीस का बिल मेरे पास भेजियेगा ।

यथा-समय पण्डितजी का मुकदमा पेश हुआ । उनके वकील ने एक दरखास्त दी कि अदालत का हाकिम मेरे मुवकिल की सफ़ाई का गवाह है, लिहाज़ा यह मुकदमा दूसरी अदालत में जाना चाहिये । मैंने दरखास्त मंजूर करके कलक्टर के नाम मुकदमा दूसरे हाकिम के यहाँ भेजने का रुक़कार लिखा दिया ।

इजलास ख़तम करके मैं बाहर आया, तो पण्डितजी को खड़े देखा । उनसे सब हाल सुनकर मैंने पूछा—अब आप कहाँ ठहरेंगे ?

“धर्मशाला में । आपके यहाँ आना मुनासिब न होगा ।”

“मैं भी यही समझता हूँ ।”

गाड़ी पर मैं यह सोचते-सोचते अपने बंगले

पहुँचा कि इस मामले को मैं अनायास ही सवेरे तय कर सकता था। जिस समय थानेदार मेरे पास आया था उसे यह हुक्म देना अलम् होता कि मामला न चलाओ। मेरी जगह यदि कोई गौरा जन्म होता तो वह ऐसे मामले में निश्चय ही ऐसा करता। फिर, मैंने ऐसा क्यों न किया ? अज्ञात रूप से मेरे मन में अपने गौरे अधिकारियों का डर था। मैं शासक होकर भी शासित मात्र था। दास-जाति में जन्म लेने का यही फल है !

फिर, पण्डितजी को मैंने अपने ही यहाँ लाकर क्यों न रक्खा ? जिस प्रकार स्वाधीन जातियों को सदा स्वतन्त्रता का गर्व रहता है उसी भाँति पराधीनता की भावना ने हमें भी तो अपना घास बना रक्खा है।

३

उसी शाम को मैं क्लब गया। टेनिस खेल कर चुरट पीने के कमरे में पहुँचा। हमारे क्लबटर वहाँ डटे हुए चुरट पी रहे थे। वह दूसरे जोड़ से पहले टेनिस खेल चुके थे। मेरी उनकी मैत्री, अर्थात् परिचय, था।

इधर-उधर की बातों के बाद उन्होंने पूछा—
“क्यों साहनी, तुम उस ‘बदमाश’ की सफाई क़ी गवाही
दोगे ?”

मैंने रुखाई से उत्तर दिया—“‘बदमाश’ नहीं
भलेमानस की ।”

“खैर ‘बदमाश’ नहीं, भलामानस सही । क्या
तुम उसके गवाह बनोगे ?”

“डिक्सन, तुम मुझसे यह सवाल करते हो ?”

डिक्सन ने रुकते-रुकते कहा—“क्यों ? हाँ ।”

“मैं समझा था कि तुम ‘डेमाक्रसी’ की जन्म-
भूमि में जन्मे हौ ।”

वह चुप थे । मेरे मुख पर मुस्कराहट थी ।
मैंने सोचा इस विषय पर कुछ और बातें हो जाना अच्छा
है । मैंने छेड़ कर कहा—“क्या तुम नहीं समझते कि
इस मामले में भी पुलिस दोषी है ?”

“साहनी, दोषी हो भी तो वे हमारे आदमी
हैं । अगर हमीं उनके पीछे पढ़ेंगे तो काम कैसे
चलेगा ।”

मैं गम्भीरता से बोला—“तो क्यों डिक्सन, अपने
आदमी के लिए सत्य को तिलाञ्जलि दे देनी चाहिए ?”

शायद जब अपने ऊपर भा बनती है तब हम लोगों की नीति बदल जाती है। नहीं तो एक दिन मक्खन चुराने पर अपने खानसामा को तुमने पुलिस के सपुर्द न कर दिया होता !”

“वह तो प्रबन्ध की बात थी न ? अगर उसे दण्ड न मिला होता तो आये दिन चोरियाँ होने लगतीं !”

“हाँ, उसी तरह यह भी प्रबन्ध की बात है। पुलिस के अफसर होकर हम लोग उन्हें ऐसी हरकतों से नहीं रोकते उसी का तो यह फल है कि प्रति दिन जनता के साथ, जिसके हम लोग सेवक हैं, पुलिस अन्याय करती है।”

“मगर साहनी, तुम भूलते हो, यदि पुलिस इन उपायों का उपयोग न करे तो उसकी धाक न रह जाय और शासन करना असम्भव हो जायगा।”

“विलायत में पुलिस कैसे शासन करती है ?”

“वहाँ शिक्षा जो है।”

“इसमें दोष किसका है ? हम लोग भी मनुष्य हैं। क्या ऐसी उदार गवर्नमेन्ट को यह उचित है, कि मनुष्य को पशु बनाये रहे और उनका पाशविक शासन होने दे।”

डिक्सन साहब कुछ गम्भीर हो गये थे। वह शायद भारतवासियों के मनुष्य होने पर सन्देह कर रहे थे। बात ढालने के लिए उन्होंने विगत रात्रि को सियालदा में रेल लड़ने की चर्चा छेड़ दी।

मैंने बेयरा से एक 'जिजर बियर' ^१ मँगाया और कुछ देर तक ट्रेनों की टक्कर की चर्चा करके रवाना हुआ। बाहर बरसाती में दो फौजी अफसर—कप्तान विलिस और लेफ्टिनेन्ट फ्रीवुड, खड़े बातें कर रहे थे। मुझे देखकर विलिस ने कहा—“आओ जी, साहनी, यह पुलिस का क्या मामला है ?”

मैंने थोड़े में समझा दिया।

फ्रीवुड कहने लगा—“हाँ, ये पुलिसवाले बड़े पाजी होते हैं। इन्हें तो हम लोग जानते हैं। तुम क्या जानो। रोज़ हमारे सिपाहियों से काम जो पड़ा करता है। तुम्हारे सामने तो वे मेमने बने रहते हैं।”

“मैं तुम लोगों से कहीं अच्छा जानता हूँ।”

“देखो साहनी, तुम इस मामले में दबना मत”—
मुझे एक टक देखते हुए विलिस ने कहा।

१ एक अमादक पये

“दबना कैसा जी ? अपने मातहत से दबना ! जानते नहीं, मैं पञ्जाबी हूँ ।” परन्तु बिजली की भाँति मेरे मस्तिष्क में वे सब बातें दौड़ गईं जो मैं कचहरी से लौटते हुए सोच रहा था ।

अस्तु, विलिस को उत्तर देकर मैं अपनी लेन्डो पर सवार हुआ । गाड़ी घर की ओर चली । विलिस दौड़ कर पीछे के पाँवदान पर उछल आया और मेरे कंधे पर हाथ रख कर कहने लगा—“आज हाथ-मिलौंअल तो हुई ही नहीं ।” मैंने अपना हाथ ऊँचाकर दिया । दोनों ओर से जोर होने लगा । फ्रीबुड भी पीछे-पीछे दौड़ा आ रहा था । फाटक के पास पहुँचते-पहुँचते वह कप्तान से बोला—“क्यों अब कप्तानी से साईंसी करने की सूझी है । चलो ‘ब्रिज’^१ मचे ।” उसने विलिस की टाँग खींचनी शुरू की । वह कूद कर लौटा । वह हमारे संग रोज़ जोर किया करता । हम लोगों के शारीरिक बल में झुका चतुर्दशी और पूर्णिमा का अन्तर था ।

गाड़ी में मैं विचार-सागर में गोते खा रहा था ।

१ ताश का एक खेल

घर पर खाने के समय मैंने श्रीमती को कुछ की सारी कथा सुना दी ।

बलवन्त कुँवर ने कुछ सोचकर कहा—“आखिर आप झगड़े में क्यों पड़ते हैं ?”

“क्योंकि मेरा कर्तव्य है । क्या तुम्हारा समस्त ज्ञान कथन मात्र के लिए है, जैसे इन्द्रायण की मिठास केवल सूँघने में ही मिलती है ।”

“ना जी, मेरा मतलब वह न था । मैं तो यह कहती हूँ कि अपना मार्ग कण्टकित करने में क्या लाम ।”

मैंने खिलखिला कर हँसते हुए उत्तर दिया—
“अक्खा: अक्खा: तुम चाहती हो कि मैं रिश्वत लूँ । सुनार को कौनसी फर्मायश मिलेगी ।”

श्रीमती ने हँसकर कहा—“मैं आपकी बातें बिलकुल न समझी ।”

“भाज मैं यदि ईमानदारी छोड़ कर बेईमानी पर कمر कसूँ तो मेरा भागे का तार न बिगड़े । लोग अन्याय करने के लिए ही रिश्वत लेते हैं न ? फिर मेरी ऐसी तरक्की रिश्वत के सिवा क्या ठहरेगी ?”—मैंने बाएँ हाथ से देवी का पंजा दबाते हुए पूछा ।

उत्तर मिला—“अब मुझे कुछ नहीं कहना है।”
कईलदास ने बहुत ठीक कहा है, वास्तव में,
“गृहिणी सचिवः मिथस्सखी प्रिय शिष्या” है।

४

डिप्टी सिद्धनारायणसिंह के सामने पण्डित जी का
मुकद्दमा पेश हुआ।

पुलिस की रिपोर्ट इस भाँति थी—

“बलवीर पाण्डे कानिस्टबिल.....गंज में
अपनी ल्यूटी पर हाज़िर था। शुक्ररू इक्कावान शाहराह
रोके हुए अपना इक्का खड़ा किये हुए था। बलवीर ने
बारहा उससे इक्का हटाने को कहा मगर उसने कुछ
खयाल न किया, उलटा दराने लगा। चुनौचे बलवीर
ने घोड़े की लगाम पकड़कर ‘हैकनीस्टैन्ड’ की तरफ ले जाना
चाहा, मगर मुलज़िम धूनीमल (काटकर धूनीचन्द बनाया
गया था) को जो उस वक्त शुक्ररू से कहीं का किराया तै
कर रहा था बलवीर की यह वाजिबी हरकत निहायत बुरी
मालूम हुई और वह एक बारगी झुँझला कर कानिस्टबिल

पर टूट पड़ा। लातों व घूसों से उसकी खूब गत बनाई, यहाँ तक कि वह ज़मीन पर गिर पड़ा व कई जगह चोट भा गई। अगर भास-पास के दूकानदार बीच-बिचाव न करते तो मुमकिन था कि उसे ज़रर शदीद पहुँचता...।”

बलवीर के होश-हवास मेरी उपस्थिति के कारण बिलकुल ठीक न थे। उसके मुँह से बयान और जिरह दोनों में कई सच्ची बातें निकल गईं। उसके गवाह भी झूठे होने के कारण और, मुक़दमे का रङ्ग देखकर न ठहर सके।

ऐसी अवस्था में डिप्टी साहब को उचित था कि मुलज़िम को रिहा कर देते। पर उन्होंने ऐसा न किया क्योंकि कलक्टर ने उन्हें चुपचाप बुला कर डांट दिया था, कि चाहे मुक़दमा कायम होने लायक न भी हो तो भी कायम किये बिना न रहना। मेरे भी गुप्तचर थे, अतः यह बात मुझसे छिपी न रह सकी।

इसमें उसका क्या उद्देश था भगवान ही जाने। क्योंकि यदि पण्डितजी रिहा कर दिये जाते तो वह फिर से उन्हें दण्ड दे सकता था। पर मुक़दमा कायम हो जाने पर यदि मुलज़िम सफ़ाई देकर बरी हो जाय तो कलक्टर के किये कुछ नहीं हो सकता। सम्भवतः डिक्सन ने केवल मुझे कदर्थित करने के लिये ही ऐसा किया था।

अस्तु; अब डिप्टी साहब ने मुलजिम और उसके गवाहों का बयान लेना आरम्भ किया । मेरे वहाँ रहने से वे बेचारे सकुच-सकुच कर, कम्पित हृदय से बहुत बाज़ाबतगी के साथ सारी कार्रवाई कर रहे थे । उनकी साँप-छट्टूँ दर की गत हो रही थी । उधर कलक्टर की आज्ञा, उधर मेरी मौजूदगी । डिप्टी कलक्टरों की दशा पर कभी-कभी मुझे बड़ा तरस आता है । बाहर तो ये लोग डिप्टी साहब होते हैं पर कलक्टर के सामने वे कुत्तों से भी गये-बीते हैं ।

पण्डित दुनीचन्द ने अपने बयान में कहा कि "मैं मिस्टर डी० एन० साहनी से ऋण लेकर धर्मशाला को लौट रहा था । वहाँ से असबाब लेकर स्टेशन ट्रेन पकड़ने जा रहा था । मार्ग में देखा कि जैसे ही शुकूरू का इक्का घटना-स्थल पर रुका वैसे ही बलवीर ने उससे पैसा माँगना शुरू किया । इक्कावान ने कहा—'सरकार दिन-भर में जो कमाया था उससे टट्टू के लिये दाना, घास, और लड़कों के लिये सूत्तू लेकर रख भाये हैं, अब कोई सवारी मिले तो उससे पैसे लेकर आपको दें ।' बलवीर ने कहा कि, 'भवे ! पैसे देगा या बातें बनावेगा । हटा, यहाँ से इक्का ।' इस पर उसने वहाँ से कदम-कदम घोड़ा बढ़ाया ।

तब चपरासी बोला कि 'भवे, पैसे तो दिये जा, कहीं आगा जाता है'—और दौड़ कर उसका थोड़ा थाम लिया। झुकरू ने उत्तर दिया—'मालिक, पैसे कहीं से दे, हम तो पैसा बना नहीं सकते।'—इतना सुनना था कि बलवीर आपे के बाहर हो गया और माँ, बहिन की सुनाता हुआ उस पर टूट पड़ा, तथा उसे डन्डे जमाने लगा। वह दोनों हाथों से अपना सिर बचाने लगा। बलवीर बोला—'साले, तूने गुस्ताखी की है, चल तेरा चालान करता हूँ।' मैंने यह देखकर कहा—'यह सरकारी राज्य है; तुम ऐसा नहीं कर सकते।' वह कड़क कर बोला—'चुप रह वे, बड़ा कलक्टर का नाती बना है।' फिर इसके को थाने की ओर ले चला। मैंने उसे रोक कर कहा कि तुम बिना कसूर किसी का चालान नहीं कर सकते। बस वह मुझे भी बुरी-बुरी गालियाँ देने लगा और मेरे ऊपर डन्डा भी चला दिया। इतनी बेइज्जती पर मैं अपने को और न सम्हाल सका, तथा उसके तीन चपत और दो घूँसे भी जमा दिये.....।'

सरकारी वकील ने जिरह करने में कसर न की, पर सच्ची बात में कैसे हेर-फेर पड़ सकता है।

मैंने अपनी साक्षी में कहा—

“.....मैं पण्डित हुनीचंद को लड़कपन से जानता हूँ । ये व्यापार करते थे । अपनी ईमानदारी के लिये सारे नगर में प्रसिद्ध थे । इन्होंने सच्चाई के कारण कई बार हानि उठाई है । इन्होंने कभी बदमाशी नहीं की, बल्कि बदमाशों के ये बड़े भारी शत्रु थे । कई बार लुच्चे-लफंगों के पकड़ने में पुलिस को सहायता पहुँचा चुके हैं । दीन-दुखियों के ये सदैव बन्धु रहे हैं । मुझे ऐसी घटनायें मालूम हैं । १९०३ के दिल्ली दरबार के समय हमारे नगर के डिप्टी कमिश्नर से इन्हें एक प्रशंसापत्र भी मिला था । इस वारदात के प्रायः एक घन्टा पहले वे मुझसे मिले थे और ११) कर्ज लिये थे । वे कलकत्ते, व्यापार के लिये, उसी रात को जाना चाहते थे, इसलिए मुझसे ऋण लिया था । विशेषतः आजकल इनकी जैसी स्थिति है उसमें तो इनका ऐसा करना स्वप्न में भी सम्भव नहीं है.....।”

इक्केवाले को भी मुझे गवाही देते देख कर हिम्मत हो आई थी, अतः उसका इज़हार भी ठीक उतरा । पुलिस में उसका बयान दूसरे प्रकार से दर्ज हुआ था । प्रश्न करने पर उसने कहा—“हुज़ूर हम क्या करते, जैसा वे लोग चाहते थे लिखवा लेते थे । अगर हम और कुछ कहते तो मार खाते ।”

हाकिम ने पण्डितजी को बरी कर दिया। फैसेले में उन्होंने लिखा कि “दोषी पर दण्ड विधान की १८६ धारा (सरकारी कर्मचारों को उसके कर्तव्य पालन में, बाधा पहुँचाना) और ३२३वीं धारा (मारपीट करना) लगती हैं। पर प्रमाणित एक भी नहीं होती क्योंकि खुद पुलिस के गवाहों ने कहा है कि इक्का जैसे ही रुका, बलवीर उसे हटाने लगा। ऐसी अवस्था में यह स्पष्ट प्रकट हो जाता है कि बलवीर, कुछ अपना कर्तव्य पालन नहीं कर रहा था, क्योंकि इक्का सड़क नहीं रोके था। वरन् हम यह मानने के लिए तैयार हैं कि पैसा लेने के लिए ही उसने ऐसा किया होगा। क्योंकि प्रथमतः ऐसे कई मुकदमे पहले हो चुके हैं और पुलिस इक्के वालों से पैसे लेने के लिए दण्डित हो चुकी है। दूसरे दुनीचंद के पहले चरित्र के बारे में जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति ने साक्षी दी है उससे हम मुलजिम का कथन भी सत्य समझते हैं। अब रही मारपीट, सो बलवीर ने स्वयं कहा है कि जब यह मुझसे बहुत दुज्जत करने लगे तब मैंने अपना काम करने के लिये डन्डा चला दिया। उसने एक स्थान पर यह भी कहा है कि एक बात में दस गाली दिये बिना हम लोगों का काम नहीं चलता। इससे स्पष्ट है कि उसने मुलजिम

को भी गाली दी होगी। यहाँ भी हम मुलजिम की बात सच मानते हैं, बल्कि इससे उसके कथन की फिर से पुष्टि होती है। किसी भलेमानुस को इस भाँति अपमानित करने पर उसके मन की क्या दशा हो सकती है यह भलमानस ही जानता है। यदि पण्डितजी के स्थान पर मैं होता तो शायद मैं भी इसी मार्ग का अनुसरण करता।”

बा० सिद्धनारायण बड़े अच्छे भादमी थे। पर प्रायः डिप्टी कलक्टरों की भाँति बै-हाथ-पाँव के—जगन्नाथ की प्रतिमा—हो गये थे। तिस पर इस मामले में तो बड़े साहब ने किल्ली मरोड़ रखी थी। इससे पुलिस-शासन पर उन्होंने फैसेले में कुछ न लिखा। हाँ, फैसेला सुनाने पर उन्होंने बलवीर को तनिक डाँट-भर दिया। सच पूछिये तो इस मामले में उन्हें बलवीर पर मुकदमा चलाना चाहिये था।

वहाँ से उठकर मैं सीधे अपनी भदाकत में गया। मार्ग में पण्डितजी मिले, उन्हें भी अपने संग लेता गया। उस समय मैं क्रोध से भरा हुआ था। कुछ अपने अपमान से नहीं, बलवीर और सब-इन्स्पेक्टर की बदमाशी से। अस्तु, मैंने उन दोनों को वहाँ बुलवाया और बलवीर पर मुकदमा कायम करके उसे एक महीने के लिए मुअत्तिल कर

दिया, साथ ही कलक्टर के नाम यह रूबकार भी लिखा दिया कि यह आदमी बरखास्त किये जाने योग्य है, एवं अपने फैसेले में इतना और जोड़ दिया कि मैंने कलक्टर को इसकी बरखास्तगी के बारे में लिखा है। यदि ऐसा हुआ तो ठीक, अन्यथा यह साल-भर के लिये डिप्रेड कर दिया जाय—इसका दर्जा घटा दिया जाय। साथ ही मैंने उसमें पुलिस-शासन पर भी भलीभाँति जोर उबाल निकाला।

बलवीर बहुत-कुछ रोया-गिड़गिड़ाया पर मेरा हृदय ऐसे स्वर्गों पर ध्यान न देने का भलीभाँति अभ्यस्त था।

अब ज़ाहिद हुसैन की बारी थी। पहले तो मैंने उन्हें दो-चार खरी-खोटी सुनाई। फिर कलक्टर को एक अर्ब-घरेलू चिट्ठी (D. O.) लिखी कि एक साल तक इसकी तरकी बन्द रहनी चाहिये। बस इतना ही मेरे हाथ में था। पर सच पूछिये तो ऐसे दण्डों का कोई फल नहीं। आवश्यकता है सारी पद्धति की नीचे से ऊपर तक सुधार की। अन्यथा सब व्यर्थ है।

मैंने अपने जाने चाहे बड़ी निर्भीकता से ही काम क्यों न किया हो पर वास्तव में यह सब थी मेरी निःशक्तता। सच पूछिये तो मैं इस समय उस छोटे से

तालाब की भाँति हो रहा था जो एक भारी आँधी के आने पर कुछ क्षणों के लिये तरङ्गों में समुद्र का प्रतिस्पर्धी बन जाता है।

ऐसी बहुतेरी बातें होती हैं जिनका ज़बानी कहते रहने पर भी, हमें अनुभव नहीं होता। किन्तु कभी एक ऐसा क्षण आ उपस्थित होता है जब हम उनका ऐसा अनुभव कर उठते हैं कि कुछ काल के लिये हमारा हृदय उन्हीं का रूप बन जाता है, और वे उस पर भली-भाँति नज़र हो जाती हैं। मेरे जीवन के लिये भी यह एक वैसा ही क्षण था। अगणित बार मैं कहा करता और विचारता कि मैं शासक होने पर भी शासित हूँ। पर इस घटना ने मेरे हृदय पर इस उक्ति की लीक-सी कर दी थी। कलक्टर का मेरे संग ऐसा बर्ताव, एक सिविलियन का दूसरे सहयोगी के प्रति पारस्परिक व्यवहार न था, बल्कि शासक की शासित के प्रति अवहेला थी। किन्तु क्या यह उचित न था? क्या हम ऐसे व्यवहार के योग्य नहीं?

५

अदालत बरखास्त होने पर मैंने पण्डितजी से पूछा—“कहिये अब क्या इरादा है?”

“रात की गाड़ी से कलकत्ते । मेरी विपत्ति के नाटक का यह भी एक सीन था ।”

पर मैंने जैसे-तैसे आग्रह करके उन्हें दो दिन को अपना मेहमान होने पर राज़ी किया ।

बाहर आकर मैंने पण्डितजी के वकील को फ़ीस देनी चाही पर पण्डितजी ने मुझसे कहा—“रहने दीजिये, घर से रुपये आ गये हैं । मैं दिये देता हूँ ।” मैंने वकील से कहा कि आपने पैरवी अच्छी की पर आगे से जिरह जरा और कस कर किया कीजिये ।

पण्डितजी के मुकदमे को प्रायः बीस दिन बीत चुके थे और मैं उसे भूल-सा गया था ।

एक रविवार को तीसरे पहर कोई दो बजे मैं अपने बँगले के दफ्तर में बैठा था । थोड़ा-सा काम निबटाना था । उसे करके मैं बरामदे के एक खम्भे की ओर देख रहा था । उसका जरा-सा पलस्तर टूट गया था । वहाँ की ईंटें दिखलाई पड़ती थीं और उनकी सन्दों में से, हवा से जरा जरा मसाले की गर्द उड़ती थी । टूटे हुए पलस्तर की टेढ़ी-मेढ़ी सरहद से कभी-कभी कंकड़ियाँ भी झड़ पड़तीं ।

कुछ देर बाद मन में बाहर चल बैठने की भाई । मैंने श्रीमती को भावाज दी । उत्तर मिला—“इस बूटे को खतम करके दस मिनट में भाई ।” मैंने विचारा तब तक मैं ही बाहर टहलूँ । ज्यों ही एक पैर देहली के बाहर निकाला था कि भरदली ने लाकर समाचार-पत्र दिया । वहीं ठहर कर मैंने उसे खोल डाला और सरसरी दृष्टि से उसे देखने लगा ।

दूसरे पृष्ठ पर गवर्नमेन्ट गजट से हाकिमों की नियुक्ति, परिवर्तन की घोषणा करने वाला अंश छपा था । उस पर भी मैंने चलती दृष्टि डाली, पर मैं चौंक उठा, क्योंकि उसमें मेरा तबादला भी छपा था । मुझे इसका स्वप्न में भी ध्यान न था । मुझे खबर ही न मिले और बात सारे संसार में उजागर हो जाय !

पर वास्तव में आश्चर्य की कोई बात न थी । उस घटना का यह फल होना स्वाभाविक था ।

मैं कुछ उत्तेजित होकर उछलता हुआ श्रीमती के पास पहुँचा और भखवार का वह अंश उनके सामने करके कुछ मुसकराते हुए उन लाइनों पर उँगली रख कर बोला—“देखो जब ये लोग अन्याय करने से बाजं नहीं आते तब मैं न्याय पक्ष क्यों छोड़ूँ ?”

न्याय-पक्ष

अब मुझे क्रोध चढ़ आया था । सिविलियनों के लिये तबादला कोई कम अप्रतिष्ठा नहीं । तिस पर भी इस तरह बिना सूचना दिये हुए । यह ऐसी-वैसी मान-हानि न थी ।

वीर-प्रसविनी पञ्जाब-रमणी का मुँह अभिमान से दमक रहा था ।

माहात्म्य

“लो, निगोड़ा भाज फिर ले-देकर चलता बना ।”

“इतनी लाल-पीली क्यों होती हौ ? कुछ मालूम भी तो हो कि क्या-क्या ले गये ?”

“तुम उस बखेड़िये के फेर में पड़ कर अपनी मिट्टी तो खराब करते ही हौ, गिरस्ती भी क्यों सत्यानास कराते हौ ?”

“फिर वही; लोटा-थाली के पीछे हाथ-हाथ ! बतलाती क्यों नहीं कि क्या ले गये ?”

“वाह-जी-वाह, लोटा-थाली तुम्हारे जान कोई चीज ही न ठहरी । गिरस्ती करनी पड़े तो मालूम हों । पैसा लगता है सो लगता ही है, काम के बखत हाथ भी तो भटक जाता है ।”

“बतलाओ भी तो क्या ले गये हैं । तुम्हारा नुक्सान-उक्सान कुछ नहीं हुआ है । मैं सुन लूँ कि क्या गया है, तो मैं भी एक बात सुनाऊँ ।”

“अरे, वह कमबख्त दो बटले और दो साड़ियाँ उठा कर चलता हुआ । क्या कूँ मिलता तो उसकी डाढ़ी में भाग लगा देती । बड़ा कहीं का.....”

“शिव, शिव, शिव, ऐसे महात्मा को यह तुम क्या कहती हो ! एक दिन इसका बड़ा बुरा फल पाओगी । देखो, बाबा जी जो पचास-साठ का माल ले गये तो मुझे दो सौ की जमा भी तो दे गये । उसे बेचकर अभी कल शाम को ही तो रुपया लाया हूँ । बाबा जी को जब कुछ देना होता है तब यों ही कुछ ले-देके चलते होकर हम लोगों को परखते हैं । अरे, ये महात्मा हैं । जी लगा कर इनकी सेवा करोगी तो एक दिन न जाने क्या दे जायँगे ।”

यद्यपि दो सौ का नाम सुनकर ईश्वरीप्रसाद की गृहलक्ष्मी के मुँह पर मुसकान की एक मन्द रेखा दौड़ गई थी, तो भी इस पिछले वाक्य को सुनके वह आपे के बाहर होकर कह उठी—“मुझे न सेवा करना है न मेवा खाना । तुम्हीं सेवा करो और उसका फल चक्खो । मुझे तो लाओ रुपया दो तब काम चले ।”

“क्या सब ले लोगी ? तुम्हारा तो पचास के भीतर-ही-भीतर लुक्सान हुआ है ।”

“इससे क्या होता है, भई । सारी गिरस्ती की हाथ-हाथ नो मुक्ती को करनी पड़ती है न ! लाओ, मेरे पास रहेगा तो तुम्हारे ही काम आवेगा । तुम तो उसे दो-ही चार दिन में फूँक बहाओगे ।”

ईश्वरीप्रसाद ने अवाक् रहकर रुपये की थैली कुपित देवता के सामने ला रक्खी और धीरे से चलते बने ।

श्रीमती ने उसे गिनने पर जब पन्द्रह की कमी पाई तो न-जाने किन किन व्याहृतियों के संग पति का नाम स्मरण किया ।

२

“भरे ओ, ईश्वरीपरसदवा साले, देख डेढ़ सेर से अगर एक रत्ती भी मोहनभोग कम हुआ तो इसी सोंटे से मारते-मारते तेरे सिर का मोहनभोग बनाकर मैं चाट जाऊँगा ।”—जटिल बाबा जी ने बड़ी-बड़ी मूँछ और लम्बी डाढ़ी वाले मुँह से गाँजे का धुँआ फेंकते हुए लाल-लाल आँखें निकालकर सामने हाथ जोड़े हुए ईश्वरीप्रसाद से कहा ।

ईश्वरीप्रसाद ने अधीनता से उत्तर दिया—“नहीं, महाराज, कमी क्यों होने लगी । कमी हो तो जो चाहे सो ‘डंड’ दीजियेगा । भला आपके हाथ से डंड मिले भी तो ।”

“साले ! बहुत डंड डंड करता है । जिस दिन डंड दे दूँगा उस दिन बिना गाली दिये मेरा न्नाम भी न लेगा और मेरे पीछे पुलिस दौड़ाता फिरेगा ।”

“महाराज, यह मैं कैसे मानूँ ?”

“ससुरे ! तू न माने लेकिन मैं तो तुझे सच्ची सच्ची बात हर घड़ी सुनाये देता हूँ कि पीछे से तू यह न कहे कि बाबाजी ने धोखा दिया । अच्छा जा, जल्दी हलुआ ले आ, और सेर भर अच्छी रबड़ी । दस लंगड़े आम और बीस चिलम गाँजे का सामान—सब जल्दी ले आ । आज मैं रात भर गाँजा पीऊँगा और तुझे अपनी पोल सुनाऊँगा । देख, साले याद रखना, सब माल बढ़िया हो । घी, मिस्त्री, गुलाब, इलायची से तरातर हो । आम भी खूब करारे हों । अगर कहीं से कोई बात कम हुई तो यह डंडा है, मेरा हाथ है और तेरा सिर है । हाँ-न-” बाबाजी ने अपना यम-दण्ड तनिक-सा उसके सिर से छुआ दिया ।

ईश्वरीप्रसाद काँप उठा । फिर भी उसने हाथ जोड़कर कहा—“महाराज, सब अभी ठीक होता है ।”

“तो साले, जाता क्यों नहीं, जा जल्दी ।”

बेचारे ईश्वरी की बड़ी दुर्गति थी । इधर बाबाजी जान लिये लेते थे, उधर गृह-चण्डिका के सामने जाते

प्राण सूखते थे, पास एक पैसा भी नहीं। लेकिन बाबाजी के काल-दण्ड के आगे गृहिणी की कड़वी, पर खरी, बाते कोई चीज न थीं। अतः जी कड़ा करके वह घर के ऊपरी खण्ड में चला। मन में सोचता गया कि हाथ रे सोना, तेरे पीछे यह सब दुर्गति सहनी पड़ती है। जो कहीं बाबाजी एक बार, वह गन्धक का तेल दे देते तो बस जन्म सुधर जाता।

उसके ऊपर पहुँचने पर जो कुछ हुआ उसका वर्णन करना व्यर्थ है। शुरु ही में उसकी बानगी दिखाई जा चुकी है। भेद केवल इतना है कि यह उससे एक चाशनी बढ़कर था। परन्तु अंततः ईश्वरीप्रसाद सफल मनोरथ होकर नीचे आया।

उसके नीचे आने पर उसकी पाँच बरस की लड़की के करुण-क्रन्दन की आवाज सुन पड़ी। बचा-बचाया बुखार उस पर उतारा गया था। पर इसी समय रमणी-हृदय पिघल उठा। ईश्वरी की स्त्री गोमती, रोती-रोती, क्या जाने किन चिन्ताओं में डूबती-उतराती, अपने पलंग पर, तकिये में मुँह गड़ा कर पड़ रही। थोड़ी देर में बेचारी लड़की भी भा पड़ी। दोनों शूखी ही सो गईं।

बाबाजी का सब सामान एकत्र करने में ईश्वरी को डेढ़ घन्टे लग गये । यह थोड़ा समय न था । अतः पेट की ज्वाला शांत करने के पहले वाक्य-ज्वाला से ईश्वरी को उन्होंने भस्म कर डाला ।

बारह बजने को हैं । ईश्वरी का सारा घर गाँजे के धुएँ से भरा हुआ है । अभी एक चिलम जल चुकी है । हिम-सदृश शुभ्र स्मभु, जटा-जूट-मण्डित गौर मुख-मण्डल नशे से लाल हो रहा है । भाँखे लहरा रही हैं; तो भी महारमा पद्मासन लगाये, मेरु ढण्ड सीधा किये सिंहवत् बैठे हैं । सामने ही घुपू बना ईश्वरी, हाथ बांधे बैठा है ।

बाबाजी को देखकर पुराकाल के सोम-प ऋषियों की याद आ जाती है । उनका भव्य मुख-मण्डल और भाकृति देख कर कोई नहीं कह सकता कि उनकी प्रकृति दुर्वासा या विश्वामित्र की सन्तति होगी । उन्होंने भाधी बचो हुई रबड़ी पीकर कहा—

✓ “देख रे, इसरीघा, हम तुझे लूटेंगे, खुरी तरह लूटेंगे । साले ! तुझे खाना-खराब करके तब कल

लेंगे । तू क्यों मुझे अपने घर में घुसने देता है ?”

“महाराज, आपके उसी लड़ने में मुझे बरकत है ।”

“हाँ-हाँ ! अच्छा बचा, यह बात याद रखना । पीछे जो जबान बदली, तो ससुरे, मैं कहीं भी हुआ तुझे खपा ही डालूँगा । साले, मैं चार खून किये बैठा हूँ ।”

“प्रभो ! आप यह क्या कहते हैं । शिव, शिव, भला आपने कभी ऐसा.....”

“अबे, बहुत बकवाद न कर; मुझे झूठ कहना नहीं आता । मैं तो गला फाड़ फाड़ कर, सुना के, तब काम करता हूँ । याद रखना, परसों के भीतर-भीतर तुझे पूरी तरह लूट कर, इस शहर से लापता हो जाऊँगा । फिर कोई मेरी परछाईं भी न देख पावेगा । मुझे एक लाख का काम है । पैंसठ हजार हो चुके हैं । बरस-भर में पैंतीस और जुटाना है । इसलिए अब मैं इस काम में देरी थोड़े ही करूँगा ।”

“बाबाजी महाराज, आप किसी तरह चोरी कीजिए भी तो । मेरे ऐसे भाग्य कहाँ ! जिस दिन.....”

“फिर जिस दिन तिस दिन करता है । अरे ! जिस दिन एक कौड़ी भी न रह जायगी, पागल हो जायगा, बे !”

ईश्वरी प्रेम-मग्न हो गया था। बाबाजी के चरण छूकर उसे दाबते दाबते बोला—“स्वामी, नाथ, जिस दिन आपकी कृपा होगी सचमुच मेरे घर में कौड़ी क्यों रहने लगी। तब तो कौड़ियों के बदले मोती ही दीख पड़ेंगे। फिर भला मैं पागल नहीं हो जाऊँगा तो क्या। उसी पागलपन के लिए तो मैं तरस रहा हूँ।”

महात्मा ने ज़ोर से दो चपत जमाकर कहा—“अबे, मोती-सोती तो नहीं, डपोरसंख तेरे हाथ जरूर लगेंगे। हट यहाँ से—बड़ा बात बनानेवाला आया।”

झापड़ खाकर वह तलमला उठा। कौन कह सकता है कि बूढ़े में इतना असीम बल होगा।

कई क्षण बाद प्रकृतिस्थ होने पर ईश्वरी बोला—“महाराज, मैं तो जब जो आप कहते हैं, वही करता हूँ। दोनानाथ, कभी तो बात नहीं काटी।”—ईश्वरी का हृदय बाँसों उछल रहा था। अब उसे निश्चय था कि काम में देर नहीं।

“अच्छा तेरा यह दावा है तो साझे जो मैं कहता हूँ, कर अभी। चल बता मुझको, तेरा माल-मता कहाँ धरा है। मैं अभी चोरी करूँगा। अभी, अभी, अभी, सुना रे!”

“प्रभो! सब जमा पूँजी तो तिजोरी में धरी है। पर उसकी ताली तो मेरे पास नहीं।”

“ताली क्या किया साले !”

“महाराज, घरनी के पास है ।”

“हम कुछ नहीं जानते । चाहे जैसे हो, उसको ले आ ।”—फिर उसके दो लप्पड़ लगे । बेचारा लटपटा कर गिर पड़ा ।

मिनट भर की मूछाँ के उपरान्त उसने कहा—
“महाराज, देखिये मैं जाता हूँ । पहले तो मुझे ही चोरी करनी होगी । पर देखिये, काम होता है कि नहीं ।”

“हम यह ‘देखिये-सोखिये’ कुछ नहीं सुनेंगे । अगर सरज, बिना ताली के भाये तो तुम्हें यहीं भून कर खा जाऊँगा । बारह बजे हैं, यही समय साधना का है । अगर नर-बलि लग गई तो क्या कहना । जैसे चार किये तैसे पाँच सही ।”

काँपता हुआ ईश्वरी फिर जनाने को चला । बेचारी गोमती तकिये में ज्यों-का-त्यों मुँह गड़ाये, गाढ़ निद्रा में निमग्न थी । उसकी गहरी साँस से मालूम होता था कि मानो, इस समय भी लम्बी साँस ले रही हो । ईश्वरी के भाग्य से करघनी में बँधी हुई ताली, एक ओर लटकी हुई थी । उसने निस्पन्द होकर उसे खोल लिया । इसी समय काँप कर गोमती ने करघट बदली । डर के मारे

ईश्वरी के हाथ से ताली छूट पड़ी। उसका हृदय इतने जोर से चलने लगा कि उसे प्राणान्त पीड़ा हो उठी। जान पड़ा कि वक्षस्थल फटा चाहता है। भाप ही भाप मुँह से एक चीख निकल पड़ी। किन्तु पीछे से किसी ने इतने जोर से मुँह बन्द कर दिया कि वह सुनाई न पड़ी। उसके हाथ-पाँव ठंडे होगये; सिर से पसीना चलने लगा और वह बेहोश हो गया।

इतनी सब घटना पलक मारते-मारते घटित हुई। मुँह बन्द करने वाला और कोई नहीं स्वयं स्वामी जी थे। उन्होंने गिरते हुए ईश्वरी को सम्हाल कर अनायास गोद में उठा लिया। ताली भी ले ली और नीचे चले भाये।

चटपट एक चौगुनी चिलम चढ़ा कर और दौ ही दम में उसे फूँक कर बाबाजी ने अपना श्रम दूर किया। तब वे मूर्छित के उपचार में लगे।

थोड़ी देर में ईश्वरी को संज्ञा हुई। बेचारा मजे में प्रकृतिस्थ भी न हुआ था कि महाराज उसे घोंटने लगे—“क्यों रे साले, जरा में डर गया। अगर हम तेरा मुँह न बन्द कर लेते तो तू सारा मण्डा ही फोड़ देता। और देख; तुझे उस वक्त न सम्हाल लेते तो तेरा सिर चकनाचूर हो जाता। समझा बे !”

“नाथ, यह आपकी कृपा है। एक तो जन्म भर ऐसा काम नहीं किया। दूसरे उसके जाग पड़ने का डर और भी मारे डालता था। देख लेती तो एक भी करम न उठा रखती।”

“छी ! छी ! भरे तू उस रँड़िया से इतना डरता है। शास्त्रों ने ठीक कहा है कि कलियुग के पुरुष, छी के दास होंगे। अच्छा, सुन ससुरे, आज मैं चोरी नहीं करूँगा। मेरा शकुन बिगड़ गया। आज सिर्फ़ इस ताली का ठप्पा ले लूँगा। दूसरी बार ताली बना कर लाऊँगा, तब तेरी हजामत करूँगा। देख, चेत जा, अब से भी, कुछ नहीं बिगड़ा है। मेरे जाते ही सब मालमता कहीं और हटा दे, नहीं तो बिलकुल लुट जायगा।” बात खतम करते ही बाबा जी ने कहीं से मोम निकाल कर उस पर ताली का ठप्पा ले लिया। फिर ताली उसके भागे फेंक कर कहने लगे—“जा इसे फिर उसी रँड़िया की कमर में बाँध भा। जा जल्दी। अबकी मैं तेरे साथ न जाऊँगा, देख डरना मत।”

आदेश का पालन हुआ।

ईश्वरी के लौटने पर बाबाजी ने कड़क कर कहा—
“ससुरे, कलजुग के कुत्ते, नीचे, पाजी, लुच्चे, तूने मुझे क्या

चोर समझा है। क्या मुझे अब यही काम बाकी रह गया है। ले अपना साँचा-फाँचा।”—मोम के टुकड़े को मसल कर गोलाकार बना के बाबा जी ने जोर से उसके सिर पर मारा। चोट कुछ मामूली न थी।

किन्तु ईश्वरी का मुँह प्रसन्नता से तमतमा उठा। उसने समझा कि मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, और पहली श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। इस बार गहरा लाभ होगा।

बाबाजी ने बचा-बचाया गाँजा फूँक कर कहा—
 “साले, भाज तेरे कारण मुझे बड़ा कष्ट हुआ—तुझे ठोना तक पड़ा ! अब तेरा मुँह नहीं देखना चाहता। जा—चला जा यहाँ से। तेरा अन्न भी पाप-मय है। उसे भी यहीं छोड़ कर अब चला जाऊँगा। तेरा मुँह और न देखूँगा। चल हट यहाँ से। अब मैं यहीं टट्टी जाऊँगा, यहीं उलटी करूँगा। फिर चला जाऊँगा। खबरदार जो कहीं छिपा रहा। जा कोठे पर। लेकिन याद रख, पन्द्रह दिन के भीतर तुझ पर चौका फेर दूँगा। चतुर होगा तो चेतवनी मान लेगा। जा यहाँ से !”—पास पड़े हुए उपले को उन्होंने जोर से उसकी छाती पर फेंका। बेचारा चोट खाकर मन-ही-मन कराहता हुआ, उठ भागा।

स्वामीजी फिर बोले—“भौर सुन, सूरज उगने के पहले यहाँ सफाई हो जाय । तेरी सुलुच्छना ने उठ कर कुछ देखा और मेरी निन्दा की तो तेरा कल्याण नहीं ।”

४

इस बार ईश्वरीप्रसाद को अच्छी रकम हाथ लगी । बाबाजी सोने की एक कामी छोड़ गये थे । वह ५००) में बिकी । उसमें से चार सौ उसने स्वयं ही, गृहलक्ष्मी के भागे रख दिये ।

गोमती ने बड़े ठंढे जी से यह भेंट स्वीकार की । उसके हृदय में भी बाबाजी की भक्ति जागृत होने लगी । ईश्वरी ने रुख पाकर प्रभु की प्रशंसा की । गोमती ने उसे सर्वथा तो नहीं माना, तो भी कभी कभी हाँ-हाँ करती रही ।

बहुत काल के बाद आज ईश्वरीप्रसाद का दिन इतनी शान्ति से बीता था ।

दस दिन बाद बाबाजी फिर भा उपस्थित हुए । इस बार कहीं से एक बड़ा-सा चीमटा भी लेते आये थे ।

इस बार गोमती ने भी उनका कुछ आदर-भाव किया । उन्होंने उसके सामने ईश्वरी की तनिक भी भर्त्सना न की । उसे नारी-धर्म का उपदेश देते रहे । उनके व्याख्यान का ढंग, बातों की लड़ी और शान्त मुद्रा बड़ी प्रभावशालिनी थी । गोमती पर उनका बड़ा असर हुआ । कौन कह सकता था कि यह उस रात के महापुरुष हैं ! अन्त में उन्होंने कहा—“माता आज कल के साधू-बैरागियों से सदा बचती रहना । इसी में कल्याण है । देखो, इस देश में बड़े-बड़े भयानक लोग रहते हैं । एक तो मैं ही बड़ा भारी पाखण्डी तुम्हारे सामने बैठा हूँ । आज तुम्हारे यहाँ चोरी करने आया हूँ, ईश्वरी को मैं बार-बार चिताता चला आया हूँ । पर यह रसायन के फेर में पड़ा है । भला सच्चा रसायनी आज तक किसी को मिला है—‘दौलत खोड़ कीमिया सीखी, रही खाक-भर मूँठी ।’ आज तुमसे भी कहता हूँ, देखो मुझे अभी यहाँ से निकाल बाहर करो या पुलिस के सपुर्द करो, नहीं तो तुम लोगों का भविष्य अंधकारमय हो जायगा । समझा बेटी । अच्छा अब जाओ, तुम्हारा कल्याण हो । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।”

गोमती को इन अन्तिम वाक्यों से बड़ा आश्चर्य हुआ । उसने कहा—“महाराज, आप यह क्या कहते हैं । कैसी

अनहोनी बात है ! फिर आप चोरी भी करेंगे तो हमारे भले ही के लिये । अच्छा जाती हूँ—डंडवत ।”

स्वामीजी के इन वाक्यों से उस पर उनका और भी आतंक छा गया था । उसने देहली के बाहर निकल कर पति से कहा—“भरे, ये तो बड़े महात्मा हैं । चोरी वगैरह सिर्फ छिपे रहने के लिये करते हैं । इसी तरह भक्तों को परखते हैं । अब हम लोगों के अच्छे दिन आये.....”

बाबाजी ने जो कहा था, वही किया । पर गोमती को यह स्पष्टतया न मालूम था कि उनका इशारा तिजोरी की ओर था । ईश्वरी को भी सारी कथा सुनाने की हिम्मत न पड़ी थी ।

अस्तु, सबेरे उठकर उसने तिजोरी खुली हुई पाई । वह इसनी साफ कर दी गई थी मानो झाड़ू लगा दिया गया हो ।

वह एक बार ‘राम’ कह कर बैठ गई । फिर आप-ही-आप बोल उठी—“मैं तो ऐसा न समझती थी, बड़ा धोखा खाया ।”

कन्या रेवती वहीं खेल रही थी । उससे उसने ईश्वरीप्रसाद को बुलवाया । आकर जब वह विस्फारित लोचन

से तिजोरी की ओर देख रहा था, तब वह बोली—“देखते क्या हो, तुम्हारी बंदौलत यह सब हुआ । घर का गया सो गया औरों की रेहन रखी चीजें भी तों थीं ।”

“तों क्या तुम समझती हो कि वह चोरी करके चले गये ? मुझे तो निश्चय है कि जितना गया है, उसका चौगुना छोड़ गये होंगे । बिना देखे कुछ न कहना । अच्छा सब मिला कर गया कितना ?”

“रेहन का हिसाब तो तुम जानो । मेरे २-३ हजार के गहने थे और थैली में ग्यारह सौ दो थे ।”

“अच्छा पहले बाबाजी की कोठरी तो झाड़ लें फिर हिसाब लगावेंगे । मुझे दृढ़ निश्चय है कि इस बार मेरे भाग्य ने पलटा खाया है ।”

“चलो मैं भी चलती हूँ ।”

चार सौ नगद पाकर, फिर बाबाजी का उपदेश सुनकर गोमती को उन पर श्रद्धा हो उठी थी । नहीं तो यह सफ़ाया देखकर न जाने उसकी क्या गति होती और न जाने पति की वह क्या गति करती ।

स्वामीजी की कोठरी पूरा नरक-कुण्ड हो रही थी । बदबू और गन्दगी के मारे पास जाना भी कठिन था । एक

ओर गन्दी फूटी चिलम पड़ी थी, पास ही गाँजे के जड़े का ढेर लगा हुआ था। उसके इधर-उधर जगह-जगह थूक-खार पड़ा हुआ था। पत्तल और दोने में पूरी-मिठाई के टुकड़ों पर मक्खी और चींटे जोर-शोर से आक्रमण कर रहे थे। पास ही उलटी फेली हुई थी। और उससे कुछ ही दूर पर, बस, अब आगे न पूछिये—

दम्पति ने किसी तरह प्रवेश करके देखा कि एक कोने में चुनकर दस-पन्द्रह उपले रक्खे हुए हैं। गोमती ने जल्दी-जल्दी उन्हें ढालना शुरू किया। ऐं! यह क्या, उनके नीचे सोने की चमकती हुई नौ कामियाँ देखकर वह अवाक् रह गई। ईश्वरी का आनन्द भी असीम था। उन्हें अपने भाँचल में समेट कर गोमती बाहर हुई। वहाँ ठहरना असम्भव था। दिमाग फटा जाता था। बाहर आँगन में वह रोती-रोती पति के पैरों पर गिर पड़ी। बोली—“नाथ, क्षमा करो। मैं बड़ी पापिन हूँ। इसी सोने के पीछे मरती थी। इसी के पीछे तुम्हें लाखों सुनाती थी। मैं जो इतनी गिरस्त बन कर और हाय-हाय करके दस बरस में न बटोर सकी, वह तुमने—जिसे मैं निखटू समझती थी—चार महीने में बटोर दिया। भगवान स्वामीजी की चोरी करने की बारी रोज-रोज आती रहे।

माहात्म्य

“अच्छा हिसाब तो लगाओ कि यह कितने का माल है और कुल दे-दिलाकर हम लोगों को कितना बचेगा ?”

बारह-सौ रहनदारों से लहना था । उनका २०००) का माल था । अतः उन्हें ८००) और देना था । संभवतः १००—२००) और देने पड़ते । ग्यारह-सौ नगद और ज्यादा-से-ज्यादा तीन हजार के गहने गये थे । इस प्रकार कोई ६०००) की हानि थी और ९०००) का सौना था । प्रत्येक कामी एक हजार की थी ।

उसी दिन तीसरे पहर ईश्वरी ने अपने कई ऋणियों से कह दिया कि एक विशेष कारण-वश मैं तुम्हारी चीजों नहीं फेर सकता; तुम हिसाब करके मुझसे रुपये ले लो । फिर वह दो कामी लेकर सर्राफे में बेंचने चला । एक सर्राफे ने उसे अच्छी तरह कस-कसा कर २२॥) तोले का दाम लगाया । पर जब तौलने की बारी आई तब उसने उन्हें अगले दिन लाने को कहा—“बाबूजी, कुल रुपया आज नहीं दे सकता, इस लिये कल आइये । आज महाजन के यहाँ जाना पड़ेगा । कल भुगतान होगा ।”

“अच्छा मैं कब आऊँ ?”

“इसी वक्त समझिये ।”

दूसरे दिन यथा समय ईश्वरी वहाँ पहुँचा । सर्राफ़ के यहाँ महाजन भी मौजूद थे । सोने की तौल हुई । पुर्जा बनाया गया । १९९७॥) का माल ठहरा । अब रूपया चुकाने की बारी आई । सर्राफ़ अपने महाजन से बोला— “सरकार, आप माल रखके इन्हें रूपया दे दीजिये; हम जैसे-जैसे काम पड़ेगा आपसे लेते जायँगे । रूपये जमा कराते जायँगे ।”

“आओ भाई इधर”—महाजन ने ईश्वरी से कहा । ईश्वरी बाबू साह्लाद सरक कर उनके पास पहुँच गये । उन्होंने कहा—“हज़रत, आप गिरफ्तार किये गये । हम पुलिस के आदमी हैं । हर्ष का विषय है कि आप चार ही दिनों के भीतर पकड़ लिये गये । आज से चार दिन पहिले ही आप लखनऊ के एक सर्राफ़ की आँख में धूल झाँक चुके हैं—इतनी जल्दी कानपुर में यह कारवाई—वाह रे हिम्मत ! लेकिन बचा, तुम छटे शातिर नहीं हो । कामी पर सोना चढ़ाने चले तो इतना पतला कि कसते ही तौँबा दीखने लगे । क्या कानपुर के लोगों को अन्धा समझ रक्खा है ? सरकारी राज में यह अन्धेर !

माहात्म्य

लखनऊ से जो हुलिया आई है वह तो तुमसे नहीं मिलती, पर तुम-जैसे बदमाश को रूप बदलते कुछ लगता है। लो अपने कड़े पहनो।”

वह छद्मवेशी जमादार बेचारे निरुपन्द ईश्वरी को हथकड़ी पहनाने लगा।

गल्प-लेखक

“अमीरों को अपने गद्दी-मसनद से फुर्सत नहीं । गरीबों को अपने पेट पालने की हाय-हाय से फुर्सत नहीं । रहे मध्यवित्त लोग, उन बेचारों की तो सबसे बुरी गत है । लाज के मारे किसी से कुछ कह नहीं सकते, सो उन्हें मुँह बन्द किये-किये मरने से फुर्सत नहीं । अब काम करे तो कौन ? हमारा साहित्य पिछड़ा चला जा रहा है ! देखो कल कल के साहित्य उन्नत हुए चले जाते हैं । हमारी हिन्दी पचासों बरस पिछड़ी है । इतनी बड़ी भाषा में गल्प की एक पुस्तक नहीं । लज्जा की बात है ! लज्जा नहीं, धिक्कार की बात है ! !”

कृपाशंकर अपनी बैठक में छोटी-सी गाव-तकिये के सहारे लेटे हुए जब मुश्की खमीरे के कश से कमरे को सुवासित करने लगते, तब यही बिचारा करते । कह नहीं सकते कि इन उच्च विचारों की जननी तम्बाकू की उत्तेजना थी वा उनकी प्रतिभा की स्फूर्ति । जो हो, वे यहीं न सकते—

“अच्छा, यह कमी पूरी की जायगी । मैं हिन्दी का यकता गल्प-लेखक होऊँगा । मेरे पास, न कम न ज्यादा, यथोचित धन है । मुफ्त का समय है, और काफ़ी योग्यता है । मेरी स्थिति वालों में से कितने एम० ए० तक पढ़े हैं—मेरी समझ में तो इने ही गिने मिलेंगे । निःसन्देह भगवान को मेरे हाथों यह काम कराना है, तभी तो हृदय में यह भावना उत्पन्न हुई है । अच्छा, शुभस्यशीत्रं । आज ही काम शुरू कर देना चाहिये । अभी तुरन्त । किन्तु टकही लेखनी से काम नहीं चलेगा । चाहे जन्म-भर में एक ही गल्प लिखी जाय, पर वह ऐसी हो कि मैं ही नहीं मेरे साथ हिन्दी-साहित्य का नाम भी अमर हो जाय । भविष्य में यदि उसका सब कुछ नष्ट होजाय और एक यही आख्यायिका बच रहे तो उसके पढ़ने के लिए लोग हिन्दी सीखें । दुनिया-भर की भाषाओं में उसके अनुवाद निकले । यही नहीं यदि किसी दिन और ग्रह मण्डलों से सम्बन्ध होजाय तो यहाँ के निवासी वहाँ वालों के लिये इसे वैदिक तोहफ़ा (Intellectual present) बना कर भेजें । यह असम्भव नहीं है । कितने ही चित्रकार एक चित्र के कारण जगत्-प्रसिद्ध हो गये हैं । कितने कवि एक दोहा लिख कर स्वर्ग में अनन्त काल लों

विहार करेंगे । मनुष्य क्या नहीं कर सकता । परन्तु यह बात सहज नहीं । बहुत श्रम साध्य है । फिर नहीं तो क्या, तपश्चर्या के बाद सिद्धि मिलती है । तब ? परिश्रम होना चाहिये । आज ही से इस काम में जी-जान से लगना चाहिये । अच्छा, काम का ढंग क्या हो, पहले तो देशी-विदेशी तमाम साहित्यों के सर्वोच्च गल्पों का संग्रह । उनका अध्ययन और मनन । तब उनकी खूबियाँ एक कापी पर नोट करना । इन सब खूबियों को एकत्र करके अपनी एक नई शैली निकालना । इसके लिये विविध भाषा ज्ञान होना आवश्यक है । साथ ही प्लॉट का इंतजाम भी अभी से होना चाहिये । बिल्कुल अलूता प्लॉट होना चाहिये । घटना साधारण न हों, खूब पेचीली हों, ऐसी हो कि आज तक किसी लेखक की कल्पना में न आई हो । इतने पर भी यदि सच्ची हो तो क्या बात । घटना देशी हो, अपने प्रान्त—अपने नगर की हो तो और भी अच्छा । प्रत्येक साहित्यिक अपने समाज का चित्र अङ्कित करने में सबसे ज्यादा सफल होता है । इसी नगर की बात न मिल सके तो प्रान्त ही की सही । इसके लिये अखबारों की फाइल उलटनी होगी । उनमें से बाते टाकने के लिये भी एक अलग कापी चाहिये । एक

नहीं तो कई घटनायें मिलाकर एक नई घटना की कल्पना कर ली जायगी। साथ-ही-साथ टोले-महल्ले के बड़े-बूढ़ों से मदद लेनी चाहिये। मित्रों की सहायता भी आवश्यक है। इन लोगों से घटना सुन कर उन्हें भी नोट करूँगा। अच्छा तो यह होता कि पत्रों में विज्ञापन भी दे देता। तो, मज्जमून क्या हो? आजकल रुपये का जमाना है, पहिली लाइन में लिखा रहे—‘इनाम ! १००) इनाम ! !’ तब,—‘जो महाशय मेरे पास एक छोटी-सी गल्प लिखने के लिये सर्वोत्तम सच्चा प्लट भेजेंगे, उन्हें यह इनाम दिया जायगा। उत्तमता की जाँच विज्ञापनदाता के हाथ में रहेगी। विचार ३० मार्च को होगा, अतः घटनायें रजिस्ट्री से मेरे पास २५ मार्च तक पहुँच जानी चाहिये। जो घटनायें इसके बाद आयेंगी उन पर विचार न किया जायगा।’ अच्छा, यह विज्ञापन कितने दिनों तक किन पत्रों में छपना चाहिये। भला कम से कम दो सप्ताह तक तो, और, प्रान्त-भर के सभी पत्रों में। लेकिन इसमें तो बड़े रुपये विलट जायँगे। नहीं, एक उपाय है। प्रेरित पत्र क्यों न भेजें। मुझे कोई रोज़गार थोड़े करना है, जो विज्ञापन दूँ। सब खुशी से वह पत्र छाप देंगे। यदि किसी ने लौटाया तो,…………। तब देखा जायगा, उसके

पत्र में विज्ञापन रूप में छाप देंगे । यह सब तो ठीक है ।
 ……अरे, इस उधड़-धुन में मेरी तम्बाकू ही जल गई ।
 हटाओ जी, कहीं के चर्खें में मैं पड़ा हुआ हूँ । कौन लिखता
 है ।”—सटक पटक कर कृपाशंकर फर्श पर लम्बे हो गये ।

२

दूसरे दिन फिर यथासमय वे ही विचार उपस्थित
 हुए । महीनों जब यही सिलसिला रहा, तब उन्होंने
 सोचा कि, ये बिना कार्यरूप में परिणत हुए मेरा पीछा
 न छोड़ेंगे । अतएव अब एक स्कीम बना कर काम शुरू ही
 कर देना चाहिये और इसमें तो अपनी ही भलाई है ।
 ‘कीर्तिर्यस्य स जीवति ।’ किसी मित्र से पूछ लेना चाहिये;
 ‘सात पाँच मिल कीजे काज, हारे जीते कछु नहिं लाज ।’
 “तो पहले स्कीम बना कर तब उस पर वाद-विवाद
 करना वा पहले ही कुछ आभास देकर बहस की रेत से उसे
 माँज कर तब स्कीम बनाना ? देखा जायगा जी,—आज
 का तमाशा यहीं खत्म हुआ ।

अब पन्द्रह दिन बाद देखते हैं तो स्कीम की
 पांडुलिपि तैयार है । धड़ाधड़ पुस्तकों के आर्डर जा रहे
 हैं, और उनके आने की बाट बड़ी उत्सुकता से देखी जा

रही है। डाक के समय के घण्टों पहले कृपाशंकर बेकल हो जाते, बार-बार आइट लेते, जँगलेदार दरवाजे से झाँकते, और कभी-कभी बेचैनी के मारे कमरे में टहलने लगते। क्रमशः वी० पी० आने लगे। अक्सर मित्र-मण्डली से परामर्श हुआ करता है। बँगला, गुजराती, मराठी सीखी जा रही है। योरोप की भाषायें सीखने की ज़रूरत न पड़ेगी क्योंकि The Library of the world Fiction (अर्थात्—संसार-गल्प का भण्डार) नामक ग्रन्थमालिका १५०) में आगई है। इसमें सब चाँछित सामग्री मिल जायगी।

रजिस्टर भी बन गये। उनमें खूबियों का और छोटों का आनुक्रमिक संग्रह होने लगा। इसके सिवाय एक नोट बुक भी थी, वह सबसे महत्त्व की थी क्योंकि उसमें इन दोनों का निचोड़ लिखा जाता। भावी साहित्य उसी में से अंकुरित होगा। इन कामों की नफ़ासत में वे वर्तमान तरीकों से भी एक पग आगे बढ़ गये थे।

एक दिन विचारों ने कृपाशंकर को लगातार इतना सताया कि उन्हें मालूम हुआ, अब पागल होने में देर नहीं। उसी के दूसरे दिन उन्होंने सोचा कि अब लिखना प्रारम्भ करने का समय आ गया। जो विशेषतायें मैं चाहता

था, मुझमें उत्पन्न हो चुकी हैं। नहीं तो विचारों की यह लहर न आती। अब प्लेट मिलने की देर है। प्रेरित पत्र भेजे गये, और नगर में विज्ञापन बाँटा गया। कई मित्रों ने डिंडोरा पिटवाने की सलाह दी, पर कृपाशंकर ने यह निश्चय किया कि यदि विज्ञापनों से काम न हुआ तो वह भी किया जायगा। जान-पहचान वालों और भड़ोसी-पड़ोसियों से भी आग्रह-पूर्वक कहना वे न भूले थे।

सप्ताह के भीतर ही प्रेरित पत्र प्रकाशित हो गये। एक भी ऐसा सामयिक पत्र न था, जिसने उसे स्थान न दिया हो। और इसके दो ही चार दिन बाद उनके पास डाक-द्वारा अनेक घटनाये भी आने लगीं। कितने ही जान-पहचानी तथा नगर के अपरिचित लोग आ आ कर भी घटनाये लिखा जाने लगे। लेकिन अफसोस आज तक उन्हें ऐसी कोई बात न मिली थी, जिस पर वे अपनी शक्ति आजमाते।

इसके कई दिन बाद उनके डाक के पुलिन्दे में एक ऐसा पत्र आया, जिसकी लिपि पहचानने पर भी वे न पहचान सकते थे। मालूम होता था कि लिखने वाले ने जान-बूझ कर अक्षर बिगाड़े हैं। पर इतने ही बिगाड़े

हैं कि कृपाशंकर उसे जान न सकें, तो भी यह जान लें कि उनके किसी परिचित की ही लिखावट है ।

उसने शुरू में आपके उत्साह, अध्यवसाय तथा इस बिलकुल नये एवं समयोचित काम उठाने की भूरि-भूरि प्रशंसा करके लिखा था—

‘लीजिए मैं आपको एक बहुत अच्छा प्लान बताता हूँ । आप जो जो विशेषतायेँ चाहते हैं, वे सब इसमें हई हैं, साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि घटना बिलकुल टटकी है । कल, आज वा अभी की ही नहीं है, बल्कि ऐसी है कि जिस समय आप यह पत्र पढ़ रहे हैं, वह घटित हो रही है । यदि आप अभी अपनी प्रतिभा-पूर्ण लेखनी उठा कर उसे साहित्यिक रूप देंगे तो निस्सन्देह आपको वह विमल और अचल कीर्ति मिलेगी, जिसका मनोरम स्वप्न आपका मन देख रहा है ।’—इतना पढ़ कर आनन्द के मारे उनका हृदय जोरों में उछलने लगा । आगे लिखा था—

‘लीजिये, सुनिये और साथ ही अपनी क़लम उठा कर साहित्यकार बनिये । नन्दन-कानन में कालिदास, शेक्सपियर इत्यादि-इत्यादि के साथ बिहार कीजिये ।’ प्रभूत साहित्यकारों के नाम की एक लम्बी तालिका दी

गई थी। इसके बाद लाल रोशनाई से घटना का शीर्षक देकर पत्र-लेखक ने जो कुछ लिखा था, उसे न लिखने की इच्छा होने पर भी, वाध्य होकर हमें यहाँ लिखना ही पड़ता है—

‘लेखक-प्रवर, मैं घटना को बहुत विस्तार से लिख कर न तो आपकी कल्पना का कुछ अंश हड़पना चाहता हूँ, और न आपके कलम उठाने में देर कराने का पाप-भागी बनना चाहता हूँ, इसलिए सूत्ररूप में उसे सुन लीजिये—एक नगर में एक मध्यवित्त आदमी रहते हैं। पढ़े-लिखे हैं, सुप्त का समय है। काम कुछ नहीं करते, अतः शैतान ने उन पर आधिपत्य जमाया। शैतान हमेशा योग्य पात्र खोजता है। उनके मन में उसने लेखक बनने की भावना उत्पन्न की। वे चक्कर में आ गये। गल्प-लेखक बनने के पीछे करीब-करीब पागलों जैसे काम करने लगे। सैकड़ों रुपये सामग्री-संग्रह करने में फूँक दिये। कथानक के लिए लालायित हो उठे। जिनका मुँह नहीं देखना, उनकी जूती तक उठाने को खैयार हुए। उनकी यह दशा देख एक मित्र को दया आई। उसने समझा कि अपने गल्प के लिये सबसे अच्छे और करुणा-जनक पात्र वे ही हो सकते हैं। पत्र-

द्वारा उन्हें इसकी सूचना दी। पर शैतान उन्हें यह राह की बात मानने देता तब तो ! वे इस नेक सलाह से जल-भुन कर कबाब हो उठे। उनका जो हाल हुआ, वह मैं क्या लिखूँ, आप उसे स्वयं श्रेल रहे हैं। उठाइये कलम। बस, राम राम।'

कृपाशंकर के खयाली पोलाव की हाँडी फूट गई। मारे क्रोध के वे काँपने लगे; दाँत पीसने लगे। उन्हें जिन त्रिवारों ने सता सता कर आज उनकी यह दुर्गति कराई थी, यदि वे कहीं मिल जाते तो मारे बोंतों के उनका धुरा निकाल डालते। उनका खून कर डालते। गला घोट घोट कर उन्हें मारते। और यदि इस पत्र के लेखक को पाते तो कम-से-कम उसके सारे मुँह पर रोशनाई अवश्य पोत देते, और वे अपने मुँह पर हाथ फेर उठे। साथ ही उन्हें ठंडा-ठंडा मालूम हुआ, कहीं तब उन्हें ज्ञान हुआ कि क्रोध से पागल होने के साथ ही अन्धे भी होकर उन्होंने दावात से रोशनाई निकाल कर अपने ही मुँह पर पोत ली थी !

इसी समय उस कमरे में आने के लिये कई आदमियों के सीढ़ी चढ़ने की आवाज़ सुन पड़ी।

दिनों का फिर

कई माँझी गीले जाल ओढ़े, सिर पर, गीली धोती की गेंडुरी के ऊपर मछलियों की झाँपी रखे, अपने-अपने घर लौट रहे थे। यद्यपि वे हिंसा करके आ रहे थे तो भी स्नान की पवित्रता उन पर झलक रही थी।

खटोक अपने खाली टोकरे सिर पर औँधाये, कान में एक फालतू पैसा खोंसे सट्टी से फिरे आ रहे थे। कुछ मज़दूर काम से छुट्टी पाकर धूलिया राक्षस से आदमी बनने की फिक्र में नदी की ओर चले जा रहे थे।

दोपहरी का सन्नाटा फैला हुआ था। ऐसा जान पड़ता था कि सूर्य का रथ विश्राम कर रहा है। प्राचीनों की यह कल्पना कितनी मार्मिक है। चाहे विज्ञान की आधिभौतिक दृष्टि में इस कल्पना की आत्मा देखने की शक्ति न हो तो भी इसकी यथार्थता पर संदेह नहीं किया जा सकता।

इस सन्नाटे को कौवे का कर्कश-रव बीच-बीच में अंग कर देता था। सड़क पर दो दरिद्र चले जा रहे थे।

दिनों का फेर

वे पति-पत्नी जान पड़ते थे। आगे-आगे एक बूढ़ा आदमी था। अन्न-बिना उसकी देह जर्जरित हो रही थी और विश्राम के बिना तथा चिन्ता के मारे उसके आत्मा की व्याकुलता उसके मुँह पर झलक रही थी। उसके वस्त्र और झोली, मैलेपन में बढ़ी-चढ़ी थी या थैगलियों में, यह निर्णय करना कठिन काम है। इसके पीछे एक बुढ़िया थी। वह भन्धी थी और बूढ़े के कन्धे का सहारा लेकर चल रही थी। उसके वस्त्र पुरानेपन से ज्यादा फटे थे वा मैले से, यह भी एक कठिन समस्या है। उसके मुँह पर अजब हसरत छाई हुई थी। किसी समय दोनों बड़े सुन्दर रहे होंगे। धूप और धूल से विवर्ण गेहुँआ रँग, उन्नत ललाट, नाक की उठी हड्डियाँ इस बात के साक्षी थे। किन्तु आज ?—अवस्था ने उन पर उतना अत्याचार नहीं किया है जितना उनकी आपदाओं ने।

कुल ही दूरी पर, सड़क के किनारे, धरकारों के कई कच्चे घर थे। वे लोग घर के आगे बैठे आधा काम कर रहे थे, आधा विश्राम। एक तम्बाकू पी रहा था। अकिञ्चन ने वहाँ पहुँचकर दीनता से उससे कहा—“बाबा, ज़रा तम्बाकू पिला दे।”

“आभो साईं, बैठ जाओ”—निमंत्रण में आग्रह था।

दीनों बैठ गये । धरकार ने बूढ़े के हाथ में चिलम दे दी, वही उसे पीता हुआ सुस्ताने लगा ।

अंधी ने पूछा—“कहाँ पहुँचे ?”

“नये बाज़ार ।”

“अच्छा, कहीं फिर चौहट्टे न चले चलना ।”

धरकार ने उत्सुकता से पूछा—“माई, ऐसा क्यों ?”

“बेटा, पूछकर क्या करेगा ।” अंधी मानों दरिद्र का मुँह देख रही थी ।

“साईं, बताने लायक हो तो बताइये न ।”

“बेटा, अब लाज काहे की । लेकिन बड़ा बखत लगेगा । तुम कारीगर भादमी ठहरे, तुम्हारा समय खराब होगा ।”

“तहीं बाबा, आज हम लोगों के पास गाँहक का कोई काम नहीं है । खाली बैठे की बेगार कर रहे हैं ।”

“अच्छा बेटा, तो सुना देंगे ।” दीन ने लम्बी साँस लेकर कहा ।

एक दूसरे धरकार ने कहा—“आज साईं जी को यहीं टिका ले । इनकी सेवा टहल का इन्तजाम करो हो, जगबन्धन ।”

आतिथ्य भारतीय सभ्यता की एक प्रधान विशेषता है । साईं के लिये सामान होने लगा । एक फटी सी दूरी

दिनों का फेर

बिछा दी गई । एक आदमी हाथ-पाँव धोने को पानी ले आया । दो स्त्रियाँ अहरा लगाने का प्रबंध करने-लगीं । जब तक भोजन नहीं बनता, तब तक जलपान के लिए एक युवती थोड़े माड़ के भुने चने ले आई । बूढ़ा बूढ़ी स्वाद से उन्हें चवाने लगे । जब पानी पी चुके, पुरुष को जगबन्धन ने चिलम दी । बूढ़ा देर तक उसे पीता रहा ।

“दूसरी भर दें ?”—उस चिलम के जल जाने पर सोमारू ने पूछा ।

“अच्छा, बेटा ।”

दूसरी चिलम साफ़ करके बूढ़ा बोला—“अब जी ठिकाने हुआ ।” इस वाक्य से कृतज्ञता छलकी पड़ती थी । बूढ़ी लेटी हुई थी ।

“अच्छा साईं, अब सुनाओगे ?”

बूढ़ा चुप रहा । सब लोग उसके चारों ओर जुट गये । जिस प्रकार रात को लड़के नानी की कहानी सुनने के लिये उसको चारों ओर से घेर लते हैं, उसी तरह ।

उपले निर्धूम हो चुके थे । उन पर दाल चढ़ा कर और बाटियाँ लगाकर स्त्रियाँ भी वहीं आ जमीं । कुछ दूर कुछ बालक खेल रहे थे । उन्हें इस समाज, खास कर बुढ़े

छुड़ी के रूप को देखकर कुतूहल तो अवश्य होता था, वे इस ओर इंगित करके जोर से हँस भी रहे थे, पर यह किससा सुनने की उनकी रुचि न थी।

सब श्रोताओं के एकत्र होने पर कतवारू ने कहा—“हाँ, साईं जी।”

साईं ने एक दीर्घ निःश्वास-पूर्वक कहा—“बेटा, चौहट्टे में पत्थर की हवेली जानते हो न?”

सभों ने कहा—“हाँ बाबा, भला सहर में ऐसा कौन है जो उसे न जानता हो।”

“साईं, अभी तो कल ही मैं वहाँ कई-ठो मोंडे बँच आया हूँ। एक-ठो बड़ा अमीर-दिल बाबू उसमें रहता है। वही कोठी न, जिसके भीतर नीम का बड़ा-सा पेड़ है?”—जगबन्धन ने पूछा।

“हाँ, बेटा, वही कोठी। एक दिन……”

अचानक लेटी हुई खुदिया बैठकर दीनता से बिलखने लगी। उसने बार-बार ज़मीन पर सिर रखकर करुणा-पूर्वक उस समाज से याचना की—

“मैं तुम लोगों से यही भीख माँगती हूँ कि इसके आगे न पूछो।”

भय का भूत

१

बिना दीप का कच्चा घर था । एक दूटी खाट थी ।
और ?—दो व्यक्ति और थे । एक मृत और दूसरा शोक से
मृत-तुल्य ।

शव खाट पर पड़ा था । रोनेवाली उसकी चाची
थी । मृतक का नाम रामगोपाल था । उसने अभी पन्द्रहवें
वर्ष में पदार्पण किया था । तीन दिन इन्फ्लुएंजा भोगकर
बिना कोई दवा पाये उसने कष्ट से मुक्ति पाई थी; अपनी
चाची सुखरानी के कातर-नयनों के सामने प्राण त्यागे थे ।

सुखरानी किसी तरह उसकी नाक के पास हाथ ले
गई, पर साँस न चलती थी । पलक खोलकर देखा, पुतली
निश्चल थी, निःप्रभ थी । छाती पर हाथ रक्खा, वहाँ भी
धड़कन न थी । देह ठंडी हो चुकी थी ।

चारों ओर अंधकार था । आकाश पर मेघ की खोल
चढ़ी थी । सुखरानी रोती थी । उसका रोना क्षिप्पली और
मेंढकों के रव में विलीन हो जाता था । घर का द्वार खुला
था, उसमें से बौछार आती थी । कभी-कभी बिजली

चमकने पर एक क्षण के लिए वह अपने प्रिय भतीजे का मुँह देख लेती और पछाड़ खाकर पृथ्वी पर धड़ाम से गिर पड़ती ।

धीरे-धीरे उसके सामने उसके जेठ-जिठानी, पति, एकलौते पुत्र, सबों की मृत्यु के दृश्य बायस्कोप की भाँति घूमने लगे । शोक भय में परिवर्तित होने लगा । उसे जान पड़ने लगा कि सब रामगोपाल के चारों ओर बैठे हुए उससे बातें कर रहे हैं । वह काँप उठी ।

उस अंधकार में भी उसे दीख पड़ने लगा और डर कर उसने आँखें बन्द कर लीं । इसी समय किसी ने कहा—“उँः” बिजली चमक उठी । शव ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था । घर में कोई न था । सुखरानी फिर रोने लगी । फिर किसी ने कहा—“उँः” निश्चय वह ध्वनि शव के मुँह से निकली थी । उसमें बड़ी पीड़ा भरी थी । सुखरानी को जान पड़ा कि उसके मृतक कुटुम्बी रामगोपाल को पकड़ कर अपनी-अपनी ओर खींच रहे हैं और रामगोपाल अपने को छुड़ा रहा है ।

सुखरानी चीख मार कर बेहोश हो गई । थोड़ी देर में उसे होश हुआ । शीतल पुरवा हवा उसके मुँह पर पंखा झल रही थी । उसका चित्त शान्त हो गया था । इसी समय फिर बिजली चमकी ।

भय का भूत

चाची ने शव को फिर से देखा । अरे ! उसने तो करवट ले ली थी ! वह इस समय इसी की ओर मुँह किये हुए था । सुखरानी को मालूम हुआ कि उसकी आँखों से ज्वाला निकल रही है और उसी की ओर तेज़ी से आ रही है । वह फिर जोर से चिल्ला कर गिर पड़ी । वह मूर्छित होने लगी, साथ ही उसने सुना कि रामगोपाल पानी माँग रहा है ।

फिर कुछ देर में मूर्छा दूर हुई । तब उसे साफ-साफ मालूम हुआ कि भतीजा पानी माँग रहा है । उसने कातर स्वर से कहा—“चाची, जल्दी पानी दे, मैं इतनी देर तक न जाने क्या-क्या स्वप्न देख रहा था ! डर के मारे बुरी गत थी । गले में काँटे पड़ गये हैं, ला दे पानी ।”—आवाज़ बहुत क्षीण थी ।

२

जिन लोगों में मृतक के फिर से जी उठने की कामना रहती है उनमें से बहुत कम लोग ऐसे निकलेंगे, जो यदि कहीं शव जी उठे तो आनन्दित हों । ज्यादातर तो ऐसे ही होंगे जो भूत जान कर भाग खड़े होंगे । एकाध तो शायद मर भी जायँ । जो हो । सुखरानी में कदाचित् ऐसी कोई कामना न थी । क्योंकि वह पीहर और

ससुराल के कितनों ही को मरते—और सदा के लिए मरते—
देख चुकी थी। अनेक बार ऐसी कामनाएँ व्यर्थ हो चुकी
थीं। अतः उसे न तो ऐसी कामना थी, न आशा ही।

शायद इसी से भतीजे की बातें सुन कर एक बार
उसका डर भाग गया और उसमें पानी पिलाने की
हिम्मत हो उठी। हाथ से टटोलते-टटोलते वह मिट्टी के
घड़े के पास पहुँची और फूटे लोटे में पानी लाकर उसने
रोगी के मुँह से लगाकर कहा—“बच्चा, पानी पी लो।”
अनेक भावों के सम्मेलन से उसका हाथ काँप रहा
था।

रोगी ने कष्ट से एक घूँट पानी गले में उतारा। एक
तो अन्धकार, दूसरे क्षीणता, तीसरे सूखा गला, चौथे
सुखरानी के कंप से लोटे की अस्थिरता, फिर रामगोपाल को
कष्ट क्यों न होता।

तो भी इतने कंठ-सिञ्चन के उपरान्त उसने कुछ
स्पष्ट स्वर से पूछा—“चाची, काँपती क्यों हूँ?”

दूसरे क्षण उसने चाची का हाथ पकड़ कर आग्रह-
पूर्वक कहा—“चाची, बोलो।” इसी समय बिजली चमकी।
सुखरानी ने देखा कि उसका रामगोपाल ज्यों का त्यों मरा
पड़ा है, और उसके मुँह से पानी बह रहा है।

भय का भूत

क्षणिक प्रकाश के बाद अन्धकार हो उठा। सुखरानी को मालूम हुआ कि उसकी कलाई फौलादी पंजे में पड़ी है जो उसे जोर से दबा रही है।

“अरे, खा लिया !”

इसके बाद उस अँधेरे घर में एक धमाका हुआ फिर बिलकुल नीरवता। झिल्ली और दादुर-रव में दूनी कर्कशता जान पड़ने लगी।

३

दूसरे दिन गाँव वालों ने उस घर में सुखरानी और रामगोपाल दोनों का शव पाया।

चाची पलंग के नीचे पड़ी हुई थी। उसकी आँखों के ढेंदर पलकों के बाहर निकल आये थे। नीचे की दन्ता-वली ऊपर के दाँतों पर चढ़ी हुई थी। ओठ खुले हुए थे। उसकी दाहिनी मुट्ठी में मृत रामगोपाल की कलाई थी ! और बायें हाथ के बड़े नाखून कच्ची ज़मीन में धँसे हुए थे। मुँह से खून बहा था, ज़मीन पर उसका थक्का जम गया था।

नर-राक्षस

१

“लगाओ इस... ..को पचास जूते । पूरे पचास । एक ऊपर भले ही हो जाय, कम न हो ।”

“दोहाई साहब कऽ । मर जाब । राम दोहाई, हम ई करम नाहीं कैली ? ।”

“कल्लवेग ! मुँह क्या देखते हो । घड़काओ ।”

जूते पड़ने लगे । बेचारा निहोर पासी दो ही चार जूते खाकर तिलमिला उठा । दोहाई तिहाई देता हुआ, ढाढ़े मार-मार कर रोने लगा । बीस-पच्चीस पहुँचते-पहुँचते उसका सिर लहूलुहान हो उठा । और वह बिलबिला कर ज़मीन पर लुढ़क पड़ा ।

दारोगा मुनवर अहमद, अपने थाने के आगे दरबार जमाये हुए गुड़गुड़ी पी रहे थे । उनके मुखमण्डल पर यह सब देखते हुए भी ज़रा शिकन न आई थी । यह तो

१—दोहाई साहब की । मर जाऊंगा । राम की शपथ, हमने यह काम नहीं किया ।

नित्य कर्म था । पास बैठे हुए साफ़ा बाँधे हुए एक अर्ध-देहाती वेशधारी व्यक्ति से बोले—

“ठाकुर साहब, अब आप जाइये । मैं इससे कुबूल करा लूँगा । ज़रूर इसी का काम है । मैं तो सूरत ही से ताड़ गया था ।”

ठाकुर साहब ने हाथ बाँधकर कहा—“जो, होजूर का होकुम” और फर्शीं सलाम करके चलते हुए । उनके कई हाली मवाली भी सलाम कर-करके उनके संग लगे । दारोगा जी का दरबार विरल होगया ।

ठाकुर साहब सेमना के बड़े भारी ज़मीदार हैं । यह थाना उन्हीं की ज़मीदारी में है । पुरानो धाक अभी तक चली आती है, पर वही—धोदी, काछी, चमार, पासियों पर । तथापि वह ठाकुर साहब की प्रिय वस्तु है । इस बदलते हुए ज़माने में भी उसे खोना नहीं चाहते । अनुचित अधिकार कोई स्वयं नहीं छोड़ता । अधिकृत लोगों ने ही अधिकारियों को किसी दिन उसका भागी बनाया था । वे ही फिर से उसे छीनें तो छीनें । पराये की वस्तु पर क़ब्ज़ा-मुख़ालिफ़ाना कौन नहीं करना चाहता ।

ठाकुर साहब दरबारियों सहित ओझल होगये । तब दारोगा की ज़बान खुली—“कल्लूबेग, मुँह क्या देख

रहे हों। बेचारे के सिर से तर तर खून बह रहा है। पन-कपड़ा तो बाँध दो। किसी हिन्दू से कह दो, पानी पिला दे और तुम इसे पंखा कर दो।”

बेचारा निहोर क्षीण स्वर से कराह रहा था। दारोगा की बातें उसके लिए बिलकुल अतर्कित थीं। वह सोचने लगा कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ। किन्तु जब आदमी इतना सोच सकता है तब वह स्वप्न नहीं देखता। उपचार होने पर जब वह स्वस्थ हुआ तब दारोगा जी सहानुभूति-पूर्वक कहने लगे—“देख वे, निहोरवा, मैं खूब अच्छी तरह जानता हूँ कि तू मुलजिम नहीं है। पन्द्रह बरस से थानेदारी करते करते क्या बदमाश और असराफ़, पहिचानने की निगाह भी न होगी। लेकिन, तुझे पर मामला संगीन है। ठाकुर के भागे तुझे गवाह कहाँ मिल सकते हैं। वह ‘मौके के’ पचास गवाह दे देगा।”

“बाबू से तो समझतथई।^१”

“अरे भई, समझता है तो जान बचाने की फिक्र कर। देख उसी वक्त ठाकुर तेरे संग आगये, इससे लाचार

१—बाबू (=मालिक) से तो समझता हूँ।

होकर तुझे पिटवाना पड़ा। मैं बे-कुसूरों को पिटवाना बड़ा आज़ाब समझता हूँ और उनके आह की आँच से हमेशा डरता हूँ। पर करता क्या। इसी तरह अगर वह बराबर पैरवी करता रहा तो मेरा कुछ न चलेगा। जानता है, साहब सूबा, कलक्टर, कमिश्नर, सब जगह उसकी पहुँच है। ज़रा-सा भाग लगा दे तो मैं नौकरी से भी हाथ धोऊँ।”

“से मालिक, का करीं। हमार गोहार तऽ भगवानँ सुनी। ओही बचाई। हमरे भवर कवन बल बा ?”

दारोगा साहब जरा गर्म पड़े—“अबे, यहाँ भगवान-सगवान की कुछ नहीं चलती। पहिले तो बरस-छः महीने को लद जायगा। खेत-बारी टूट जायँगे। घर-बैल नीलाम हो जायँगे। तेरे परानी^२ कौड़ी के तीन हो जायँगे। तब कहीं भगवान तेरा इंसफ़ करेँगे। देख, दुनियाँ के एक रोएँ बराबर इस ज़िले में मुकदमों को निबटते तो बरसों लग जाते हैं। फिर जिसके इजलास में एक नहीं लाखों दुनियाँ के माल, दीवानी, फ़ौजदारी, सभी तरह के मुकदमे हैं, उसके यहाँ क्या काम एक दो दिन में हो सकता है ?”

१—तो मालिक क्या करूं। हमारी पुकार तो भगवान ही सुनेगा। वही बचावेगा। हमें और कौन बल है। २—कुटुम्बी

निहोर ने एक लम्बी साँस ली। सर्वस्वान्त का भयानक चित्र उसके सामने अतिरञ्जित रूप में खड़ा होगया।

दारोगा ने भी आनन्दोच्छ्वास लिया। उसके सामने भी एक चित्र खिंच गया।

“दोहाई साहब कऽ। अब तोहई बचावऽ तऽ बचीं ?” —निहोर रोता-रोता बार-बार उनके आगे की रज माथे चढ़ाने लगा।

“अबे, हम न बचाना चाहते तो यह सब कहते क्यों ? हम भी तो बाल-बच्चे वाले हैं। हमें भी तो अपनी खैर मनानी है और मालिक के भागे जवाब देना है। लेकिन ठाकुर को मनाना सहल काम नहीं है। उसके पीछे कई दिन खराब करना होगा। दूसरे, इत्तिला तो रामरूप तिवारी के नाम से है। वह साला एक पाजी है। कहेगा, बुराई लेने को तो हम थे, अब हमको क्या फायदा होता है। ये चपरासी भी तो ऐसे मौकों की आस लगाये बैठे रहते हैं। देख, बेचारों ने कैसी खिदमत की है।”

बलिहारी इस खिदमत की !

१—दोहाई साहब की। अब तुम्हीं बचाओ तो बचूं।

दारोगाजी ने एक क्षण विभ्राम करके, उन बातों को निहोर के दिल में घर कर लेने का अवसर देते हुए फिर शुरू किया—

“सुन बे, मैंने सब बातें सोच-समझ कर यह तय किया है कि तू ११०) लाकर यहाँ रख। बस, तुझे साफ़ बचा लेना मेरा काम है। यह रकम तेरी हैसियत के मुवाफ़िक़ है। जा, अभी जा, ले भा; आज ही तुझे छोड़ दूँ। तुझे रिहा कराने का सबाब लेकर तब सोने जाऊँ।”

“हाय बाप रे ! भरे सरकार, पचीस ठे तो जुदाय नहीं सकली। ठाकुर घोड़ी लेवे के बदे गाँव भरे पर चन्दा लगउले रहलै, ओही के पीछे ई दुख भोगत हई। जौन बाप दादन पर दोख नहीं लगल, तेकरे पीछे हम बाँधल गइली। से ११०) कहाँ से जुटाईं। सात जनमों में तऽ नहीं जुट सकत। कौनों महाजनौ तो न देई। दोहाई बाबू कऽ ! मर जाब ! ! दोहाई साहब कऽ ! ! !”

१.....पचीस ठे तो जुटा नहीं सका। ठाकुर ने घोड़ी लेने के लिये गाँव भर पर चंदा लगाया था उसी के पीछे यह दुःख भोग रहा हूँ। जो बाप-दादों को दोष नहीं लगा, तिसके पीछे हमें बाँधा गया। तो ११०) कहाँ से

“तो साले, मर । कल्लूबेग टूँस दो साले को हप्स-कोठरी में । इन हरामियों पर रहम करने का भी कोई नतीजा है ? साला ११०) के बदले खुशीसे २२०) खर्च करेगा और जेल की सैर भी करेगा । लेकिन अभी नहीं सूझती.....को । ले जाओ, एक दम ।”

भू-नमित निहोर खींच कर खड़ा किया गया । उसने रुक कर कुछ कहना चाहा कि इस ज़ोर की गरदनियाँ लगी कि वह मुँह-बल कुछ दूर पर जा गिरा । दाँतों की जड़े झल्ला उठीं, उन्होंने खून फेंक दिया ।

२

ठाकुर साहब ने घोड़ी के नाम से हजारों काट कर घर में रख लिये । मसल है—लड़के के भाग से लड़-कोरी जीती है । २५०) की घोड़ी आई । ११००) की वृद्धि खजाने में हुई ! सब गाँवों में चन्दा हुआ था । सब लोगों ने कुछ न कुछ दिया था । इने गिने लोग बच रहे थे । कुछ असमर्थता के कारण । कुछ अन्य कारण-वश । निहोर इसी दूसरी श्रेणी में था ।

जुटाऊँ । सात जनम में भी तो नहीं जुट सकता । कोई महाजन भी तो न देगा ।.....

ठाकुर साहब ने निहोर पर २५) तसखीना किये थे । उसके बहुत कहने-सुनने पर भी एक पैसा भी कम न किया था । वह ७) तक देने को तैयार था । इतना भी उसके बित्त के बाहर था । परन्तु असल में पृथ्वीनाथ की निगाह उसके खेत पर थी । उनकी यही अभिलाषा थी कि साला एक बार कर्जा की खूनी डाढ़ों में फँसे तो । एक बार इन्दुल-तलब लिखाने का मौका तो मिले । खेद है कि यह नौबत न आई । निहोर को 'जी से बढ़ कर जीविका' का खयाल था ।

किन्तु ठाकुर साहब को इन्दुलतलब लिखाने से भी अच्छा अवसर मिला । लोगों से कहने लगे कि साले ने मेरी बड़ी बदरोबी की है । २५) मैं बहुत ठीक माँगता था, वह ५०) दे सकता है । न देकर उसने बड़ी बदरोबी की है । आज एक ने ऐसा किया, कल देवादेवी और भी करेंगे । बस, बाप-दादों की बनाई सब बात ही एक दिन मिट्टी में मिल जायगी । कोई हम लोगों को पूछेगा भी नहीं । एक दिन नीच जाति के लोग हम ऊँचों को भाँख दिखाते लगेगे । इनको दबाना होगा । चाटुकार हों में हों करके जलती भाग में घी की आहुति देने लगे ।

भारतवर्ष, तनिक बंता तो तेरी जन्म-कुंडली में कौन ऐसे ग्रह पड़े हैं कि तेरे निवासियों में जितने देखिए 'धाक'

के पीछे मरा जाता है। जो चार दिन को जनता-सेवक (Public Servant) बनकर भाता है वह भी इस संक्रामक रोग से नहीं बच पाता !

एक दिन सब ठीक करके प्रकृत मामला खड़ा किया गया—

रामरूप तिवारी के, सँध लगा कर निहोर पासि ने ३-४००) की चोरी की है। जब वह निकल भागना चाहता था, घर में जाग पड़ गई। वह पकड़ लिया गया। हो-हबले के कारण कई पड़ोसी भी वहाँ आ पहुँचे थे। उन लोगों के सामने ही वह गिरिफ्तार हुआ है। सब गवाही देंगे। एक विचित्र बात और हुई है—कोई डेढ़ बरस पहले रामरतन के यहाँ एक और चोरी हुई थी; उस बार कोई १००) की जमा गई थी। किसी पर शक न होने के कारण पुलिस में उसकी इत्तला भी न हुई थी। उन, चोरी गई हुई चीजों, में से एक मुहर निहोर गले में पहिने हुए था। निश्चय था कि खाना-तलाशी पर उसके यहाँ पहली चोरी की और चीजें बरामद होंगी।

काररवाई इस सफाई से की गई थी कि इने गिने लोगों के सिवा किसी को कानों-कान खबर न थी। स्वयं निहोर को नहीं मालूम था कि तिवारी जी उसे किस वास्ते

लिये जाते हैं । उससे यही कहा गया था कि एक काम है, खेत पर चलना, फिर थोड़ी देर में चले आना । उसने समझा कि कोई चूहे की बिल^१ खोदनी होगी ।

सारे कुचक्री गाँव से अलग अलग निकले थे । बस्ती के बाहर खेतों पर मिलने का सङ्केत था । वहाँ से एकत्र होकर लोग थाने पर गये । स्वयं ग्राम-देवता भू-स्वामी ने अपने श्रीमुख से, वहाँ निहोर के अपराध (!) की घोषणा की थी ।

दारोगा ने निहोर से जो बातें कही थीं वह सब ठाकुर साहब से राय करके । ठाकुर साहब स्वयं इतना ही चाहते थे कि निहोर पर आर्थिक आपत्ति आ पड़े और वह दब भी जाय ।

३

संध्या की धूसरता क्षितिज से धीरे-धीरे आकाश में ऊपर चढ़ने लगी । सूर्य की अन्तिम किरण आकाश को चूम कर बिदा हुई । प्रकृति निस्तब्ध हुई । पत्तों तक ने

१—पासी जाति चूहे आदि की बिल खोदने का काम भी करती है, क्योंकि चूहे, साही, गोह आदि उसके भक्ष्य हैं ।

हिलना डोलना बन्द किया । प्रकाश के वियोग से पुष्करिणियों ने अपने मुँह पर कालिख पोत ली । सारा दृश्य नींद के बोझ से दबती हुई पलकों में अधमुँदी आँखों से दीख पड़ने वाले दृश्यों के सदृश, धुँधला हो उठा । विहग-कुल एक बार संध्या-प्रार्थना-सदृश कलकल करके धृश्यों पर विश्रान्त हुआ । गाय बैल सानी खा खाकर भानन्द से बैठ जुगाली करने लगे । जहाँ दिन था वहाँ रात हो गई ।

यहाँ वहाँ खेलते हुए लड़कों के झुण्ड क्रमशः घर लौटने लगे, और गाँव पर धुँएँ का आदोष फैल गया । आज से ७-८००० वर्ष पहिले जिस प्रकार हमारे पुरखे आग के चारों ओर बैठकर उसका सेवन करते थे उसी प्रकार उस गाँव में आज भी लोग तपनी ताप रहे हैं । तब सोमपान होता था, आज धूम्रपान हो रहा है । तब सामगान होते थे, आज तमाम दुनियाँ का पचड़ा गाया जाता है । अग्नि चट् चट् शब्द करके धधक रही है, उसकी शिखा से निकल कर चिनगारियाँ जुगनू की तरह अन्तरिक्ष में उड़ती हैं और एक ही क्षण में अन्तर्हित हो जाती हैं ।

इसी समाज में निहोर की हिरासत का हाल पहिले पहल प्रकाशित हुआ । तो भी उसकी सत्यता पर लोगों को सन्देह होने लगा । क्योंकि न तो निहोर ऐसा भादमी ही

था, न उसे गिरिपत्तार होते किसी ने देखा था। अतः मण्डली के कई व्यक्तियों ने नौदर काछी से कहा—“तनी, जाऽत हो भोकर जोह तऽ ले आवऽ, ई बात सच्च बा कि नहीं।”

निहोर की स्त्री महीनों से बुखार में पड़ी थी। उसे इसकी कुछ खबर ही नहीं। जब नौदर ने उससे पूछा तब जिस प्रकार कच्ची नींद से जगाये जाने पर उठने वाले को एक क्षण तक कोई ज्ञान नहीं रहता, ठसी प्रकार यह प्रश्न सुन लेने पर भी, वह समझ न सकी। पीछे उसे ठाकुर के कोप का ध्यान आया।

“भैया हम तऽ बेजार हईं। महिन्नन से जर पीछा नहीं छोड़त। घरे से निकस नहीं सकित। ससुरे से बिदीवा भाइल तो घरे चुल्हवौ बर जाला, नहीं तऽ हमरे मलिकवै के मरै पड़त। भाज तिस्सरे पहर तक तऽ घरे रहल, फिर जे गयल से नहीं लउटल। रामै जानै का भयल। तूँ तऽ जनतै बाटऽ की ठकुरा भाज कल कोपल बा। ले भैया, कहाँ से रुपैया जुदावल जाय।

१—तनिक जाओ तो उसकी जोह तो ले आओ, यह बात सच है कि नहीं।

आज कल समय—काल कैसन खराब आयल हौ । से ऊ किछ फौरेब ठड़ा कैले होय तऽ होय । नाहीं तऽ तूँ जान लऽ हमार जने कैसन बाटै । राम ! अब्बर के बदे सबै जबर होला । अब बुधनिया के भेज के खबर मँगाई ला न ।^१”

“कहाँ भेजवू ?^२”

१—भैय्या ! हम तो बीमार हैं । महीनों से ज्वर पीछा नहीं छोड़ता । घर से निकल नहीं सकती । ससुराल से बिटिया आई तो घर में चूल्हा भी जल जाता है, नहीं तो हमारे पति को मरना पड़ता । आज तीसरे पहर तक वह घर में था फिर जो गया सो नहीं लौटा । राम जाने क्या हुआ । तुम तो जानते ही हो कि ठाकुर आज कल उस पर कुपित है । हे भैय्या, कहाँ से रुपया जुटाया जाय । आज कल दिन कैसा खराब आया है । सो उसने कुछ अभियोग खड़ा किया हो तो हो । नहीं तो तुम जानते हो हमारा आदमी (पति) कैसा है । राम ! कमजोर के लिये सभी जबरदस्त होता है । अब बुधनिया को भेज कर खबर मँगाती हूँ न ।

२—कहाँ भेजोगी ?

“ठकुरे किहाँ ।^१”

“ऊ बतावै वाला हौ ।^२”

“तब का करीं, भैय्या ?^३”

“अरे ओके थनवा पर भेजऽ । हुँअई^४ से पक्का हाल मिली । ऊ डरै तौ ओकरे संगे हम चलल जाई^५ ।”

बुधनी भी वहाँ भा गई थी । उसने घबरा कर पूछा—“का भैल, माई ।^५” यद्यपि वह युवती हो चुकी है किन्तु उसमें बालिका-सहज सरलता अभी बनी है ।

“बचवा तोहरे बाबू पर सुनत हई, थाना फउज-दारी लगल बा । बिना कहले सुनले गइलै, अब हीं तक आवै कऽ नाम नाहीं, एसे हमरो माथा ठनकत बा । बचवा हम त मरत हई, तनी तुहई^६ जायके ओकर हाल लऽ । ई ठाकुर चण्डलवा न जानी काहें हमरे मारै पर लगल

१—ठाकुर के यहाँ ।

२—वह बताने वाला है !

३—तब क्या करूँ भैय्या ?

४—अरे, उसको थाने पर भेजो । वहाँ से पक्का हाल मिलेगा । वह डरे तो उसके संग मैं चला जाऊँ ।

५—क्या हुआ, भैय्या ?

बा । बचवा, थनवा जाए के होई, डरबी तऽ नाहीं । नाहीं त नौदर भैय्या तोहरे संगे जाए के बदे तयार बाटै ।”^१

“नाहीं माई डरब काहें हम अबहीं जाई ला । नौदर चच्चा तूँ केहसे सुनलऽ ।”^२

“हमके ठीक नाहीं खियाल बा । अरे ई बतिया त गौंभाँ भरे में फैलल बाटै । कहि नाहीं सकित कि कहाँ तलुक ठीक हौ ।”^३

१—बच्ची ! तेरे बाबू (पिता) पर सुनती हूँ, थाना-फौजदारी लगी है । बिना कहे-सुने गये, अभी तक आने का नाम नहीं, इससे मेरा माथा भी ठनकता है । बच्ची, हम तो मरती हैं, तनिक तू ही जाकर उनका हाल ला । ठाकुर चाण्डाल न जाने क्यों हमें मारने पर लगा है । बच्ची, थाना पर जाना होगा, डरेगी तो नहीं ? नहीं तो नौदर भैय्या तेरे संग जाने के लिये तैयार हैं ।

२—नहीं माँ ! डरूंगी क्यों, मैं अभी जाती हूँ । नौदर चाचा, तुमने किससे सुना ?

३—हमें ठीक ख्याल नहीं है । अरे, यह बात तो गाँव भर में फैली हुई है । कह नहीं सकते, कहाँ तक ठीक है ।

“चच्चा, ऊ ठीकै होई । हम सब रंग देखत न हई । अच्छा चच्चा, तू जा, हम डरब नाहीं । हमहूँ धावलै जाब । अब जिव नाहीं मानत ।”^१

नौदर तपनी की ओर चला और बुधनी तेजी से थाने की तरफ बढ़ी । दोनों के जाने पर, जैसे नींद शिशुओं की आँखों पर हठात् पलकें ढाल देती है उसी तरह करुणा उस दुखिया की आँखों से हठात् आँसू बहाने लगी ।

४

“दोहाई बाबू कऽ । बताय द, हमार बाबू हियाँ बाटै ?”^२

“जरा भी खैन नहीं । आँख लगते न लगते ससुरी ने जगा दिया । जब देखो कोई न कोई चला आता है । पुलिस होने पर तो यह हाल है, पुलिस न रह जाय तो दुनियाँ में न जाने क्या हो जाय । शायद भादमी को भादमी

१ — चाचा, वह ठीक ही होगा । मैं सब रंग देख रही हूँ न । अच्छा चाचा, तुम जाओ, मैं डरूंगी नहीं । मैं भी दौड़ती जाऊँगी । अब जी नहीं मानता ।

२—दुहाई बाबू की ! बता दे, मेरे पिता यहाँ हैं ?

कच्चा खा ले।” दिलेरखी का यह पहरा था। पर वह बेच पर लेट कर ऊँघ रहा था। “अब यह कहाँ की बला आई। बोल सुभर की बच्ची क्या कहती है ?”

“दुहाई साहब कऽ। तनी, बताय द जे हमरे बाबू इहाँ बाटे।” १

“धुत्....., तमाम दुनिया का बाप तो मैं बैठा हूँ। यहाँ तेरे बाप साँप नहीं। भाग नहीं तो मारे लातों के कमर तोड़ दूँगा।”

बुधनी रोने लगी।

“रन्डी कहीं की, अब यह नखरा फैलाया। का नाम है तेरे बाप का ?”

“दारोगा जी, भोकर नाँव निहोरबा।” २

“अरे वह निहोरवा ससुरा, देस भर का पाजी—तू उसी की लड़की है ? तभी तो ये चोचले करती है। यहाँ वह कहाँ ! वह तो काल-कोठरी में बन्द है।”

१—दुहाई साहब की ! तनिक बता दो कि मेरे पिता यहाँ हैं ?

२—दारोगा जी ! उसका नाम निहोर है।

“दोहाई साहब कऽ । ओके छोड़ देईं । नाहीं तऽ मर जाई ।”^१ बेचारी रोते-रोते विकल हो उठी थी । हिचकियाँ बँध गई थीं ।

“छिनाल कहीं की । इस चाल से वह नहीं छूटता । कुछ माल-ताल निकाल तब काम चले ।”

“साहब, ले हमरे माल होत तो ईं दुरगत काहें होत ।”^२

“साली, हम यह कुछ नहीं जानते । माल तो तेरे पास बहुत है । चल दरोगा साहब से कह । वही तुझे सब कुछ बतावेंगे । उन्हीं को राजी कर तब निहोरवा साला छूटेगा ।”

बेचारी के मन में आशा का सञ्चार हुआ इसी से कहते हैं कि बुधनी में बालिका-सहज भोलापन बना हुआ था ।

तारकाभों से आने वाले मन्द प्रकाश की भाँति,—

१—दुहाई साहब की ! उसको छोड़ दीजिये, नहीं तो मर जायगा ।

२—साहब ! यदि हमारे माल होता तो यह दुर्गति क्यों होती !

बुधनी की पुकार निहोर की बन्द कोठरी तक पहुँची थी । पहले तो निहोर को स्वप्न का भ्रम हुआ । पर जब बार-बार उक्त वार्त्तालाप की अस्पष्ट ध्वनि वहाँ पहुँचने लगी, तो वह तड़फड़ा उठा ।

बुधनी का सम्बाद एक आदमी और सुन रहे थे । वह थे स्वयं दारोगा जी । वे कोठे पर से बड़े ध्यान-पूर्वक कान ही नहीं लगाये हुए थे बल्कि झाँक भी रहे थे ।

दिलेरख़ाँ ने बुधनी को उनके कमरे के सामने ला खड़ा किया—“जा, भीतर दारोगा जी बैठे हैं । वही सबके मालिक हैं । उन्हीं को राज़ी करले तो निहोरवा छूट जाय ।”

वह रोती हुई उनके खरणों पर लोटने लगी । इस पर ध्यान देने के पहले दारोगा जी ने अपने कमरे के क़िवाड़े बन्द कर लिये ।

निहोर को ऐसा मालूम हुआ कि अपनी एक मात्र कन्या का आर्त्तनाद सुन रहा हो । उसका मस्तिष्क

नर-राक्षस

इतना उत्तेजित हो उठा था कि वह न समझ सका कि वह पागल है वा सचेत । उसकी आँखों तले न जाने क्या क्या इन्द्रजाल हो रहे थे ।

भूखे सिंह की तरह वह उस रुद्ध कीठरी में कावे काटने लगा ।

गहूला

उत्तरी भारत के हूण अधिपति तोमारल के राज्य में मन्दसोर एक प्रधान प्रान्त था। हेमनाभ वहाँ का क्षत्रप था। वह साल में दो बार अधिपति की सेवा में कर देने उपस्थित होता। हूण साम्राज्य की राजधानी उस समय मथुरा थी।

हेमनाभ वहाँ एक महीना बिता कर घर लौटता। मन्दसोर में मथुरा-जैसी चहल पहल थोड़े ही थी। फिर, वहाँ के बाज़ार में देश-देशान्तर की चीज़ें आतीं—चीन के कौशेय, सिंहल के छपे कपड़े और मोती, पारस के घोड़े, यवन दास-दासियाँ—जो चाहे एक ही स्थान पर ले ली। मथुरा उन दिनों की कलकत्ता, बम्बई समझिये। क्षत्रप अपने लिये, मित्रों के लिये और व्यवसाय के लिये हज़ारों का माल लेता। उस समय के हज़ार का मोल आज कल के लाख के बराबर है।

राजधानी के सभी उच्चपदस्थ कर्मचारियों से उसका खूब मेल जोल था। कुछ पद के कारण नहीं—अपने स्वभाव

के कारण भी । वह बड़ा ही मिलनसार था । अकसर अपने इन मित्रों के संग वह आपानकों, गोष्ठियों और यात्राओं के सुख लट्टता । किन्तु कदम्ब और तमाल के झुरमुटों में जब शराब का बाज़ार गर्म हो उठता तब क्या जाने क्यों उसका हृदय उदास हो जाता । नशे से उत्तेजित मस्तिष्क उन कुर्जों में कृष्ण-क्रीड़ा के दृश्य उसके सामने खड़े करता और साथ ही उसकी नशीली मनोवृत्ति उसे थपेड़े लगाने लगती कि आज उन्हीं कुर्जों में हूण आनन्द कर रहे हैं और तुम, चन्द्रवंश की सन्तान भी, उन्हीं के पीछे लगे-लगे मुर्दों की तरह यह दशा देख रहे हैं ।

फिर, मन्दिरों की चहल-पहल,—हीनयान, महायान आदि अनेक बौद्ध सम्प्रदाय और हिन्दू दोनों ही धर्मों के मन्दिरों में उसे भिन्न-भिन्न दृश्य दिखाई पड़ते । जैन-मन्दिरों का वातावरण इन दोनों से भिन्न था । देव-कुलों की चहल-पहल कुछ निराली ही थी । अजातशत्रु से लेकर उस समय तक के सम्राटों की प्रतिकृतियाँ देख-देख कर उसके हृदय में विलक्षण-विलक्षण भाव जागृत होते ।

मठों और विहारों में जाना भी वह न भूलता । और फिर, पुक्रान्त में बैठ कर वह, सद्धर्म से लेकर आज के महायान और उसके अवान्तर यानों तक के क्रम विकास

पर विचार करता । भगवान् तथागत के धर्म का यह नया उपरूप उसे न जँचता । स्थविरों की करतूतों से उसे बौद्ध-धर्म के हास का निश्चय था । फिर, वह यह भी देखता कि किस प्रकार एक ओर इन उत्कट सिद्धान्तों को हिन्दू कौल अपना रहे हैं, दूसरी ओर सद्धर्म की सभी अच्छी बातें कट छूट कर भागवत धर्म में विलीन हो रही हैं ।

प्रबन्ध के क्षंश्यों से साल में दो बार अलग होकर, इन सब बातों के निरीक्षण और समझने में उसे बड़ा आनन्द मिलता । उसकी कुण्ठित वृत्तियाँ पुनरुज्जीवित हो उठतीं और अपनी नगरी में लौट कर वह नये उत्साह से अपना कार्य-भार वहन करता ।

इन सबसे बढ़ कर उस राजधानी में एक और आकर्षण था—राजकुमारी गहूला विशेष भाग्रह से हेमनाभ को राजधानी में रुकने कहती ।

एकोनविंशति वर्षीया राजकन्या अकसर उसे अपने उपवन में बुलाती और माधवी निकुञ्ज में उसे अपने सामने बिठा कर मन्दसोर के बारे में अनेक बातें पूछती—

“सुनती हूँ वहाँ सौन्दर्य की खान है । क्षत्रप, तुम एक बार तो मुझे वहाँ की सुन्दरियों से मिलाओ, मैं

उनसे मैत्री करूँगी। राजकन्या-जैसा बर्ताव न करूँगी।
बोलो, सुखे कब वहाँ की यात्रा कराओगे ?”

“देवि, जब आपकी आज्ञा हो”—प्रति बार हेमनाभ का यही उत्तर होता; और राजकुमारी कभी कोई समझ नियत न करती। साथ ही, उससे उक्त बात कहना भी न भूलती। भकसर इसके संग उलाहना भी क्षणिकित होता—

“उस बार तो खूब ले गये ! देखना है, इस बार ले चलते हौ कि नहीं। क्या तुम्हें वहाँ की सुन्दरता पर इतना ममत्व है कि संसार को उससे वञ्चित रखना चाहते हौ। सुखे तो इसी का भस्वरज है कि उस पर तुम्हें इतना मोह है तब भी तुम वगारे क्यों बने हौ !”

“भवति, मोह से क्या, प्रेम जो चाहिये।” इस उत्तर के संग उसके मुँह से एक ठंडी साँस भी निकल जाती।

घड़ियों बाते होतीं। मोतिया और फरास के पेड़ मर्मर किया करते और राजकुमारी अपने एकटक अबल नयनों से हेमनाभ को सींचती हुई उसकी बाते सुना करती। अपने हाथों स्फटिक पात्र से द्राक्षासब ढाक

कर रत्न-चषक से उसे पिलाती और उसकी आँखों में राग दौड़ते देखती ।

कभी उसे अपने मयूरों का नृत्य भी दिखलाती और पूछती कि कहीं ऐसे सुन्दर मयूर तुमने देखे हैं ?

“श्रीमती, चाहे आप मेरा विश्वास करें वा नहीं— ब्रज-जैसी सुन्दरता मैंने कहीं नहीं देखी । एक, मयूरों पर ही क्या !”

“किन्तु एक बात तुम भूलते हो । एक मुझे छोड़ कर !!”—राजकुमारी की बड़ी बड़ी आँखें हेमनाभ का मन टटोलने लगतीं और बिना उसके मुँह से कुछ कहलाये हुए भी अभिलषित साथ ही सच्चा उत्तर पाकर तब कल पार्ती । इस बीच में हेमनाभ सिर नीचा ही किये रहता । जब राजकुमारी के नेत्र हट जाते तब एक ही निमेष में, आँख भर के, उसका मुँह देख कर वह राजकुमारी से आज्ञा लेता ।

क्या जाने क्यों पीठ फेरते ही उसके मुँह से एक दीर्घ निश्वास निकल पड़ता । इसी के संग उसे किसी और के निश्वास की आहट भी मिलती ।

जब बिदा का समय आता, गहूला उसे अपना लीला-कमल देती और सहेजती—“देखो अपने कार्ण में

प्रमत्त न होना।” हेमनाभ उस कमल तथा आदेश को सिर चढ़ा कर बिदा होता। किन्तु, एकांत पाते ही उस कमल को अपनी छाती से लगाता। संभवतः इसके साथ ही वह आदेश भी उसके हृदय पर अंकित हो जाता रहा हो।

उस लीला-कमल को वह फेंक न देता। एक सुगंधित रेशमी ढुक्ड़े में लपेट कर उसे सौवर्ण सूत्र से बाँध के एक सुन्दर मंजूषा में रखता जाता। प्रत्येक पर स्वर्ण की एक मुद्रा भी बनवा कर ग्रथित कर देता। इन मुद्राओं पर पाने की तिथि और संबन्ध अङ्कित होते। अक्सर उन्हें देख कर वह अतीत के स्वप्न देखता।

२

एक साल मन्दसौर में वर्षा न हुई। अयानक काल उपस्थित हुआ। उस समय रेल न थी कि अन्न कहीं बाहर जाता। पर वहाँ तो अन्न जाने का कोई प्रश्न ही न था। एक दाना भो तो न उपजा था। चारों ओर हाहाकार मच गया। लोग देश छोड़ छोड़ कर भागने लगे। हेमनाभ ने पीड़ितों की सहायता के लिए कई सागर आदि बनवाना आरम्भ किया। पर यह सब ताड़ में तिल बराबर था।

राजस्व वसूल होने की कोई सम्भावना न थी। हेमनाभ के लाख सिर मारने पर भी कोई फल न हुआ।

जब कर लेकर मथुरा में उपस्थित होने का समय बीत गया तब उसने सब हाल सत्राट तोमारल के पास लिख भेजा । और अपने प्रांत को उस वर्ष के लिये कर-मुक्त करने की सम्मति दी । किन्तु हूण-शासन विचारमूलक न था । उसका मूल मंत्र था—तलवार का जोर, भयंकर रक्तपात, प्रलयंकर उत्पात, निर्दयता की पराकाष्ठा ।

आदेश हुआ, 'तलवार से कर वसूल करो । जो गाँव भूखे मर रहे हों उन्हें जला दो । ऐसों के मरने ही में उनको और साम्राज्य दोनों को सुख है । सहायता का काम बन्द कर दो । रिक्त राज्य-कोष को और रिक्त न करो । नगर में मुनादी करा दो कि तीन दिन में लोग प्रांत-भर के लिये कर खुका दें नहीं तो तलवार के जोर से कर वसूल किया जायगा; महीपति की आज्ञा शिरोधार्य न करने वालों के रक्त से उत्तम मही सींषी जायगी ।'

हमनाभ काँप उठा । इससे जघन्य और क्या आज्ञा हो सकती थी । वह अपने पद और अपने को कोसने लगा । किन्तु राजाज्ञा माननीय थी । क्या इसी दिन के लिये गहूला उसे प्रति बार अपने कार्य से प्रमत्त न होने के लिये चिताया करती ? गहूला ! राजकुमारी ! क्या वास्तव में तुम हूण-रमणी हो ?

गहूला

चाहे आज हम लोगों को इस बात का आश्चर्य हो कि एक आदमी का, जिसके किसी पूर्वज ने बाहुबल से राज्यस्थापना की हो, लोग क्यों कर मंत्र मुग्ध सर्प की भौंति—बीसवीं सदी के यंत्रों की भौंति—बिना कुछ कहे बुने, आदेश, चाहे वह वैसा ही क्यों न हो, पालन कर सकते थे। लेकिन जिस जमाने में बुद्धि की परतंत्रता थी और आज भी जहाँ बुद्धि की परतंत्रता है, वहाँ के लोगों को अपनी इस हीनता का ज्ञान नहीं। बुद्धि, तुझे परतंत्र बनाने में जन्म से ही रुढ़ियों की शिक्षा का कितना हाथ है, इसका उत्तर तू ही दे।

हेमनाभ के लिये कोई मार्ग न था। उसने स्वर्ण राजनगर में जाकर सब बातें तै क्यों न कीं। संभव था कि वह मंदसौर को इस कठिन आज्ञा से बचा लेता। वह अपने को धिक्कारने लगा। अब आज्ञा-परिवर्तन असम्भव था। भला हूणराज के मुँह से जो बात निकल गई वह बदली जा सकती है? सेना से भी वह, आज्ञापालन मात्र के लिये—विवेक और दयापूर्वक—आज्ञापालन को नहीं कह सकता। क्योंकि हूणों ने अपना राज्य स्थिर रखने के लिये और, अपनी नीति न बदली जाने के लिये, सेना-विभाग नीचे से ऊपर तक, अपने ही लोगों के हाथ में रक्खा था।

लाचार होकर उसने अपने प्रांत के सेनापति देहधारी मरक, खरुतुन को सघ्राट की आज्ञा सुना दी। फिर क्या था। मानों बहुत दिनों की बँधी नदी का बाँध तोड़ दिया गया हो। उस नर-राक्षस के भानन्द की सीमा न रही। गाँव, गाँव, अश्वारोही हूणों के घोड़ों की टाप से खाली घड़े की तरह प्रतिध्वनित होने लगे। अनेक दीन जनों को कवलित कर करके क्रव्याद अपने दोनों अर्थों को सार्थ करने लगा। आकाश मण्डल चिराइन मड़क से भर उठा।

इधर मन्दसोर नगर में पटह-घोषणा होने लगी—

“सुनो नागरिको, मन्दसोर के आबाल-वृद्ध-वनिता जागरिको, परम भट्टारक परमेश्वर, सर्व-शत्रुविजयी, सर्व-समर्थ, श्रीमान् महाराजाधिराज, दिगंत-व्यापमान-कीर्ति-सितातपत्र-रवितेज-अहर्निश-प्रकाशित-त्रैलोक्य, हरि-सदृश श्री-सेवित, पाद-पद्म, अखण्ड चक्रवर्ती हूणेश्वर तोमारल देव का आदेश सुनो—इस घड़ी से तीन दिन के भीतर अपने प्रांत की कर-मुद्रा, यदि राजकोष में न पहुँचा दोगे तो शस्त्रबल से सेनापति राजस्व इकट्ठा करेंगे और सदैव को तुम्हारा कलंकित नाम राजद्रोहियों में गिना जायगा।

क्षत्रप हेमनाभ की आज्ञा से यह राज-आदेश घोषित किया जाता है।”

घोषणा से नगर में बड़ी अव्यवस्था फैल उठी । कितनों ही ने दुःख सह कर मरने से एकबारही तलवार से कट जाना अच्छा समझा । कितनों ने प्रतिष्ठा के विचार से बिष खा लिया । कितने डर के मारे, मरने से दुःसह कष्ट भोगने लगे । कामुक अपने इन्द्रिय-सुख और कृपण अपने धन से बिलग होने के सोच से विकल हुए जाते हैं । माता अपने पुत्रों के लिये और पत्नियाँ अपने पतियों की चिन्ता में मरी जाती हैं । कुछ धूर्तों ने नगर से भाग कर जान बचाने की सोची । पर हूण मूर्ख न थे । नगर चारों ओर से घिरा हुआ था ।

तीन दिन बीतने पर हैं, पर कोष में कर का षष्टांश भी नहीं पहुँचा । भाज “नव पत्रिका” का उत्सव दिन है, जहाँ नगर पर आनन्द की घटा छाई रहती, भाज वहीं आपत्ति के काले मेघ घिर आये हैं । ऐसे समय में कुछ जिन्दादिल लोगों ने विचार किया कि जब मरना ही है तब उत्सव-भूमि में एकत्र होकर उसी का स्मरण करते-करते प्राण देंगे । अशोक वनिका में भीड़ होने लगी । धीरे धीरे बहुत से लोग जुट गये ।

तीन दिन पूरे हुए । विपत्ति-मेघ, जनता पर खड्ग की बिजली गिराने लगे ।

स्वयं, खरुतुन ने वनिका घेर ली। ज्यों ही वह शस्त्रपात की आज्ञा देने को था कि हेमनाभ घोड़ा फेंकता हुआ आ पहुँचा। उसने जोर से पुकार कर कहा—“सुनो खरुतुन, मैंने सेवक-धर्म का पालन कर दिया। अब नागरिक धर्म का पालन करने आया हूँ। तुम सम्हल जाओ।”

सारी भीड़ और सेना एक बार निस्तब्ध हो गई। हेमनाभ ने भीड़ को उत्तेजित करने के लिये दो ही चार वाक्य कहे किन्तु उनका असर मंत्र-जैसा हुआ। उसका यही कहना था कि जब मृत्यु सम्मुख ही है, तब प्रेतलोक क्यों जाते हो; वीरगति से स्वर्गलाभ करो।

भीड़ में जाने कहाँ की शक्ति आ गई। हेमनाभ खरुतुन पर टूट पड़ा और भीड़ सैनिकों से गुथ उठी। जिनके पास शस्त्र न थे, उन्हें भी सैनिकों से—हूण सैनिकों से—शस्त्र छीनने का बल आ गया।

खरुतुन मन्द पड़ता जाता था। किन्तु ज्यों ही हेमनाभ उस पर अंतिम वार करे, पीछे से एक हूण ने उछल कर उसकी गरदन उतार ली। फिर क्या होना था। जिस लकड़ी के सहारे उस समूह का जर्जरित गात्र खड़ा था, जब वही टूट गई तब वह कैसे सम्हलता? थोड़ी देर में, यज्ञ में मारे गये पशु की भाँति, जिसके मुँह से शब्द

तक नहीं निकलने दिया जाता, वह भीड़ वहीं डेर हो गई। कोई भी वनिका के बाहर न जाने पाया। रक्ताशोक रक्त से तर हो उठे। हूणों की तलवारें जो बरसों से प्यासी थीं और मारे क्रोध के आपे से अपने को ही—जंग लगा कर—खाये जाती थीं, भाज निरीहों का रक्त आकण्ठ पान करके मृत हुईं। किसी षड़े भारी पञ्च के लिये इतनी बलियाँ खर्च गईं।

३

विशाल पट-मण्डप में उपहार की सभी वस्तु एकत्र हैं। सेनापति खरुतुन मन्दसोर से जो लूट का माक काया है, उसे सजा कर रखवा रहा है। हूण-सम्राट के आने की देर है। षड़े गर्व से वह अपनी भोंड़ी मूछों को ओठों से चबाता हुआ, अपनी चौड़ी और चिपटी तलवार के सहारे खड़ा है।

भारतीय प्रथा से, वन्दीगणों ने हूणेश के आगमन की सूचना दी। दर्शकों पर उसका विलक्षण प्रभाव पड़ा। भीषण विजय के घोष में भयानक हूण शरीर, सज्जित मद्रासन के सहारे टिक रहा। वह रुधिर-द्विग्ध उपहारों को लोलुप दृष्टि से देखने लगा। खरुतुन ने अपनी नृशंसता की वर्णना बड़े आतंक से की और हूण-सम्राट ने अपना

मुँड़ा सिर हिला कर उस कुन्काण्ड का समर्थन किया । वह भयानक प्रसन्नता हूणों की विलास वस्तु है । वे फिर आनन्द से चीत्कार कर उठे । इसी समय युवती राजकुमारी गहूला मन्दगति से उस मण्डप में पहुँची । पुनर्वाँ चीत्कार हुआ, यह उसका स्वागत था । संस्कृत कवियों ने सम्भवतः उसे ही देख कर कहा है—

“हूण-रमणी चिबुक प्रतिस्पर्धिनारंगकम्”

वही स्वाभाविक लाली उपहारों को देख कर हँसने में और भी बढ़ी जाती थी । उसने स्नेह दिखाते हुए पिता की बाँह पकड़ ली और बगल के मंच पर बैठ गई । उन वस्तुओं में से भारतीय कला का एक उच्च आदर्श, सुन्दर सोने के पुष्पों से सजी, चन्दन की एक मञ्जूषा जिसमें रत्न भी लगे हुए थे उठा कर खलतुन, गहूला के सामने ले गया । राजकन्या के लिये ऐसा ही सुन्दर उपहार उपयुक्त था । सम्राट भी प्रसन्न हुए । गहूला ने सम्राट पर कृतज्ञता की दृष्टि डाली । किन्तु खलतुन उससे पुलकित हो उठा ।

उपहार-वितरण अभी बाकी था । तोमारल और सामन्तगण उसी में लग गये । गहूला ने धीरे-धीरे वह मञ्जूषा खोली । देखा—कई सूखे हुए कमल स्वर्ण-मुद्रा प्रथित रेशमी कपड़े में लिपटे हैं । उसने मुद्राओं पर के

गहूला

लेख पढ़े । एक क्षण में अतीत के अनेक दृश्य उसके नेत्रों के आगे घूम गये । वह पीली पड़ गई, मन्च के सहारे टिक गई । उसके हूण-रक्त ने ही उसे मूर्छित होने से बचा लिया ।

तोमारल ने अकारण उस ओर देखा । किसी जादू टोने का ध्यान करके उसका उपचार होने लगा । क्षण-भर में बड़े बड़े हूण गुणी भा जुड़े । उपहार-वितरण की सभा वहीं भंग हुई ।

४

गहूला की आँखों का वह रस न जाने कहाँ चला गया । उसका मुख निष्प्रभ हो उठा है । उसके हृदय में उच्छ्वास लेने की शक्ति नहीं रह गई है । अब उसका हाथ लीला-कमल बिना सूना रहता है ।

भाज वह स्फटिक भासव-पात्र टूटा पड़ा है । उसके भासव-वट कब के सूख गये हैं और रत्नचषक यमुना में डुबा दिया गया है । उसका माधवी कुञ्ज अब उजड़ा पड़ा है और उसके मयूर ताल पर नाचना भूल गये हैं ।

इनाम

१

दिन के सब क्षणों से निवृत्त होकर, रात के सजाटे में मैं अपने प्राचीन चित्रों के संग्रह से मग बहलाता ।

आज ही मुझे एक नया चित्र हाथ लगा था । यह चित्र ऐसा वैसा नहीं, दिल्ली की कलम का एक बड़ा ही उत्कृष्ट, नहीं, अलभ्य नमूना है । मेरे पास एक-से-एक अच्छे सैकड़ों चित्र हैं । और लोगों के अमूल्य संग्रह भी मैं देख चुका हूँ । लेकिन इतनी ऊँची कारीगरी की चीजें बहुत ही कम नज़रों तले गुजरी हैं ।

कैसे आ गया ? सोच कर मुझे भी आश्चर्य होता है । सच है—‘जाकर जापर सत्य सनेह । सो तेहि मिलै न कछु सन्देह ॥’ जब से मैं चित्र संग्रह करने लगा हूँ, अनायास चीजें मिल जाना कोई अचम्भे की बात नहीं । तो भी ऐसी बढ़िया चीज़ का आप-से-आप आ जाना केवल भाग्य की बात है ।

सुबह मैं दीवानखाने में बैठा हुआ था। एक दरबान ने आकर इत्तला की कि एक मिर्चा जी तसवीर दिखाना चाहते हैं। मैंने जी में कहा—भाज सबेरे ही अच्छा शकून हुआ। उन्हें बुलाया। फ़र्शी आदाब करके बैठने पर वे कहने लगे—“जनाब, गरज़ बावली होंती है, नहीं तो मैं भला घर से निकलने वाला हूँ। फ़ीरोज़-शाह के खान्दान में मैं तनहा बच रहा हूँ। पर क्या करूँ शाही आदते ! वसीके, जागीर, ज़मींदारी जवाहिरात क्या नहीं बिक गये। लेकिन अब भी कुछ कमी नहीं। जब ज़रूरत होती है एक-आध चीज़ भलाहदा करके,—बड़ों के अक़्वाल से,—काम चलाता ही हूँ। मेवाफ़रोश का महीनों का हिसाब हो चुका। वह कमबख़्त अब सर खाता है कि फलों की फसल बीत गई, देपारियों का हिसाब चुकाना है। इसलिये मैं आपको तकलीफ़ देने हाज़िर हुआ हूँ। देखिये, अगर आपको यह तसवीर पसन्द हो तो……” वे ज़रा रुके। मैं मन-ही-मन इस लम्बी-चौड़ी भूमिका पर उन्हें कोस रहा था। चित्र देखने को जी लोटपोट था।

मैंने कहा—“हाँ, कहिये न। आपको कितना दरकार है।”

“ज़्यादा नहीं, ३००) से मेरा काम निकल जायगा। इससे अगर एक पाई भी कम हुई तो नहीं।”

मैंने चित्र उठा लिया था। उनका रूमाल, जिसमें वह लिपटा हुआ था, हटा कर मैंने जो देखा, उसकी प्रसन्नता रोकने के लिये पूरा भात्मबल लगाना पड़ा था। शाहज़ादा साहब तीन सौ के बदले तीस सौ माँगते तो मैं खुशी से दे देता। जल्दी रुपया दिला कर मैंने उन्हें बिदा किया। और उनसे, जब ऐसी कोई चीज़ निकालना हो तब अपने ही पास लाने का आग्रह किया।

अब तक वह चित्र मेरे आगे लापरवाई से पड़ा हुआ था। शाहज़ादे के पीठ फेरते ही मैंने उसे अभिलाषपूर्वक उठा लिया। देखते ही हृदय में बिजली-सी दौड़ गई। उस सुख की समानता शायद अज्ञानन्द ही कर सके।

देर तक मैं उसे देखता रहा। बीच बीच में, सम्भवतः मेरे हृदय के भाव मुँह से भी निकल पड़े हों। न जाने और कितनी देर तक मैं उसे देखने में लगा रहता। पर बाला-खाने से एक मधुर स्वर आया—“अकेले-ही-अकेले; मुझे न दिखाइयेगा न!” झरोखे की चिक जरा-सा टाल कर मेरी हृदयेश्वरी झॉक रही थी। उख छटा से यह स्वप्न भङ्ग हुआ। मैं चित्र लेकर ऊपर गया।

२

हम दोनों मिल कर उस चित्र की खूबियाँ देखने लगे—क्या भाव, क्या कलम, क्या रंग, क्या सोना, क्या सजावट, क्या सबका सन्दर्भ; बस, कारीगर ने कहीं भी कोई बात उठा न रखी थी। न कहीं से जान ही खुराई थी ! जिस उत्साह से काम शुरू किया था, उसके दूने उत्साह से कलम को विश्राम दिया था। कहीं से कोई भी बात बेमेल न होने पाई थी। न कोई कमी ही थी। कमी थी तो केवल इतनी कि हमें आलोचना के लिये कोई बात न मिली। जितना जितना उसे देखते जाते, उतना उतना, जी और खुश होता जाता। नई-नई बारीकियाँ मिलती जातीं।

चित्र के चारों ओर कोई पाँच इंच चौड़ा हाशिया था। इसकी जमीन सन्दली रंग की थी, जिस पर खोने के ढन्डे और मुर्रियों का जाल बनाया गया था। इन जालों के बीच में रुपहली बूटियाँ थीं। इन बूटियों के भिन्न भिन्न अंशों पर भिन्न भिन्न रंग दौड़ाये गये थे, जिनसे एक चाँदी कई रंगों की छान पड़ती थी। इसने ही से कारीगर का संतोष न हुआ था। उसने सुई से इन पर परदाज किया था, जिससे बूटियाँ बुनावटी जान पड़ती

थीं । सारा हाशिया बहुत ही उत्कृष्ट कमखाब का टुकड़ा-
जैसा जँचता था । इसके भीतर जरा-सी जगह छोड़ कर
खतों की बहार थी । बँटे हुए रंगों के महीन-से-महीन
फिर क्रमशः मोटे अनेक खतों के बाद बेलकारी का नम्बर
था । सोने की दो मोटी तहरीरों के भीतर नील के दो
महीन खत थे । इनकी भीतरी सरहद भी सोने के बारीक
खतों-सी की गई थी । इनके बीच में, कोई पौन इंच
चौड़ी जगह में, चित्र के चारों गिर्द वह बेल बनी थी कि
बढ़ियाँ-से-बढ़ियाँ मीने का काम उसके आगे झख मारता ।
सफेद जमीन, उसके ऊपर लपेटदार बेल का क्या कहना ।
जान पड़ता था कि कारीगर ने अपनी विशद कल्पना से
भी बढ़ कर काम किया हो । कहीं से जरा टूट नहीं,
क्या जमा हुआ हाथ; कलम में क्या तेजी थी !

अहा ! इसके भीतर तसवीर थी उसकी जमीन
बिलकुल स्याह । बीच में एक ही छवि थी । एक खड़ी
हुई सुन्दरी दहिने हाथ पर मोती की लड़ धरे बाएँ हाथ
से उसका कुछ अंश उठा कर देख रही थी । एक-चश्मी
चेहरा था । हाय, हाय, इस पर कारीगर ने क्या काम
किया था ! भाव और सौन्दर्य फिसले पड़ते । रंगों की
तरावट से आँखें शीतल हो जातीं । तार-जैसा स्याह क्लम

इनाम

सजीवता के मारे स्पन्दित हो रहा था और परदाज़ हुबाब-जैसे हल्के थे। कारीगर का हाथ कैसा पुष्ट और तैय्यार था। उसने अपनी कोई कला उठा न रखी थी। इतना अच्छा चित्र और कैसी अच्छी हालत में ! हाशिये के छोरों पर कीड़े के दो-चार छेद रहे हों तो रहे हों नहीं तो जान पड़ता था कि चित्रकार अभी तैय्यार करके उठा हो। ऐसा लाभ बड़े ही आग्य से होता है।

चित्रस्थ सुन्दरी सिर पर गुलेऽनार पगड़ी दिये हुए थी। इस पर कलंगी झूम रही थी। देह पर ढाके की जामदानी का पैरहन और लाजवर्दी कमखाब का पायजामा था। इन कपड़ों पर तथा आभूषणों पर भी कारीगर ने जो बारीकी खर्च की थी उसे देख कर आश्चर्य होता था। पैर में जरी के सुन्दर जोड़े थे, जिन्हें देख कर सच्चे जोड़े का अम होता था। सबके ऊपर सुन्दरी हल्के और धूमिल कासनी रङ्ग का बोरका ओढ़े हुए थी, जो इस समय चेहरे पर से हटा दिया गया था, किन्तु जिससे नीचे से ऊपर तक देह का आधा हिस्सा ढका हुआ था। इसमें से खुली हुई आनितम्ब केशराशि का जो अंश दीख पड़ता था उसका बाल-बाल गिन लीजिये। धन्य परिश्रम !

सबसे बड़ी बात तो यह थी कि चित्रकार ने इस ढंग से चित्र के सब अंशों का संयोजन किया था कि हर तरफ से खिंच कर और टकरा कर निगाह चेहरे ही पर जाय । मन्द रंग का बाहरी हाशिया, फिर सफेद जमीन पर बेलकारी, उसके बाद ही काले रंग की जमीन, तब धूमिल रंग का बोरका और इन सबके भीतर गुलाब-जैसा प्रफुल्ल भावपूर्ण वदन । आप ही कहिये, सब ओर से सिमट कर दृष्टि उस सुन्दर मुख पर भा अटकती है या नहीं । ये बारीकियाँ भारतीय चित्रकारों ही के हिससे पड़ी हैं ।

३

हाँ, रात को मैं फिर बैठ कर इसी चित्र को देख रहा था । देखे बिना जी ही न मानता था । न उसे रख देने का मन होता था । देखते-देखते मैं तबलीन हो गया ।

अब मुझे एक नई खूबी मिली । चित्रकार ने उसमें न जाने कौन-सा अस्तर दिया था कि सब जगह से एक विलक्षण प्रभा निकलती थी । मैं देर तक इसका कारण विचारता रहा । पर कुछ समझ में न आया । यह बात आज तक किसी चित्र में न देखी थी । अन्य चित्रों की

इनाम

क्या खर्चा। अब तरु, न जाने क्यों, इसी में न देखी थी। जब हम पति-पत्नी इसको घण्टों देखते रहे थे तब बिना यह विशेषता देखे ही केवल इसकी विलक्षण कारीगरी पर ध्यान देते हुए हम लोगों ने निश्चय किया था कि यह फर्मागिशी काम है और कारीगर को इसका भारी इनाम मिला होगा। लेकिन अब यह खूबी देख कर तो मैं दंग रह गया। मैंने आपसे कहा कि ऐसी बेजोड़ विशेषता ने तो मुसब्विर को न जाने क्या इनाम दिलाया होगा। बेशक उस जमाने के अमीरदिल-गाँइक ने उसे मालामाल कर दिया होगा। मैंने बहुत सोचा पर कुछ अटकल न लगा। मेरा दिमाग चकराने लगा। अन्त को वह चित्र अपने आगे ही रख दिया।

निगाह उठाई तो देखता हूँ कि सामने एक आदमी बैठा हुआ है। मैं सिहर गया। न तो वह मेरा परिचित ही था, न उसकी इत्तला ही हुई थी। फिर वह क्यों और कैसे आया। लेकिन उसकी मूर्ति इतनी शांत और गम्भीर थी कि पलक मारते मेरा भय भाग गया।

वह बृद्ध आदमी था। भग्न मुख पर चुरियाँ पड़ी हुई थीं। सखसी डाढ़ी के शायद दो-चार बाल काले रह गये होंगे। उसकी आँखें निष्प्रभ हो गई थीं। उन पर एक धूमिल आवरण-सा दौड़ गया था और उनमें से

फ़हर टपका पड़ता था । सिर पर सफ़ेद पगड़ी थी और तन पर सफ़ेद जामा । कमर में शाल का पटका बंधा हुआ था और एक बड़े जामेवार के भीतर उसके वक्ष और हाथ लीन-से हो रहे थे । वृद्ध को देख कर श्रद्धा उत्पन्न होती थी । और साथ ही एक प्रकार की करुणा और ममता भी ।

आँखें मिलने पर उसने उठ कर, बिना जामेवार से हाथ निकाले ही, झुक कर दोनों हाथों से बन्दगी की । बुढ़ापे में जाड़े की रातों में, गर्म कपड़ों से हाथ निकालना ज़रा टेढ़ी खीर है ।

मैंने सलाम लेकर उनसे बैठने को कहा । पूछा—
“आप कौन हैं, यहाँ आ कैसे पाये ? क्या ड्योदी पर कोई नहीं ?”

“जी, होने को तो सभी हैं पर जब मैं अन्दर आ रहा था तो सभी की आँख लग गई थी । मैंने दया से उन्हें जगाया नहीं । अगर बिना हुक्म के, आकर मैंने वैभदधी की हो तो चला जाऊँ ।”

“नहीं-हीं । मैं इन कम्बख्त नौकरों को कहता हूँ । जब देखिये सोया ही करते हैं ।”

“लेकिन हुज़ूर, अब तो रात के बारह बज चुके हैं ।”

“खैर; आपने मेरे पहले सवाल का तो जवाब ही न दिया। आप हैं कौन ?”

“जी, मैं इसी तसवीर का कारीगर हूँ। आपने खयाल किया होगा कि उसमें एक तरफ लिखा है— ‘अमल-ए-जनार्दन’^१। खादिम वही जनार्दन है।”

यह जान कर मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा—
“बड़े भाग ! मैं तो अभी आपको याद ही कर रहा था।”

“तभी तो बन्दा हाज़िर भी हुआ।”

बहुत समय शिष्टाचार में न गँवा कर मैंने काम की बातें शुरू कीं। मुझे यह जानने की चटपटी लगी हुई थी कि इस चित्रकार ने और कितने चित्र बनाये और वे कहाँ प्राप्त हो सकते हैं—“क्यों साहब, आपने किस उम्र में यह तसवीर बनाई थी ?”

“उस वक्त मैं कोई ३३ बरस का था—” उन्होंने एक क्षण सोच कर कहा।

१—याने जनार्दन की कृति। दिल्ली-कलम की तसवीरों में अक्सर कारीगर इस प्रकार अपना नाम लिख देते थे। अमल का अर्थ है—काम, कृति।

“तब तो आपने इसके बाद बहुतेरी तसवीरे बनाई होंगी। शायद अब भी थोड़ा घना शगल जारी हो।”

“जी वह जिन्दगी के साथ है। लेकिन मेरी और किसी तसवीर में आपको यह खूबी न मिलेगी। मेरी ही पर क्या; इस तसवीर के सिवा तमाम दुनियाँ में यह जमीन न मिलेगी। मैंने एक ख़ास अपनी तरकीब से इसमें यह बात पैदा की थी। फिर किसी और तसवीर में इसकी नौबत न भाई।”

“तब तो आपको इसके लिए इनाम भी बहुत कुछ मिला होगा।”

“जी हाँ।”

“यही तो मैं भी समझता था। अच्छा अगर नामुनासिब न समझिये तो बता दीजिये कि आपने क्या पाया था। मैं इस तसवीर का बयान एक पर्चे में लिखने वाला हूँ। किसमत से आप ही मिल गये।”

“बेशक बताऊँगा। देखिये, मैंने यह ख़िलभत पाई थी।”

“बस ! इसी को आप बड़ा इनाम कहते हैं ? इतना तो मामूली मुसव्विर पाया करते थे।”

“जी नहीं, ५०० मुहरे भी मिली थीं।”

“सुसन्वित्रों को २००० मुहरे तक मिलने की बात तो मैंने खुद पढ़ी है। तिस पर यह तो ला-जवाब काम है।”

“जी एक हाथी भी पाया था।”

“खैर, वह भी इस काम के लिये कोई चीज नहीं। और कुछ?”

“जी हुजूर, एक छोटी-सी जागीर भी मिली थी।”

“बस! अजी इस काम के लिये तो इतना देना चाहिये था कि जो कहावत हो जाती।”

“घबराते क्यों हैं, वह भी मिला है, सब बताता हूँ।”

“तो बताते क्यों नहीं! बुढ़ापे से आपका जेहन कुछ कुन्द तो नहीं हो गया?”—मुझे जल्दी सब बात न बताई जाने के कारण कुछ क्रोध आ चला था।

जनार्दन ने ठन्ढक के साथ कहा—“हुजूर गर्म न हों। बताने से क्या फायदा। दिखाये ही देता हूँ।”

बूढ़ा चित्रकार जामेवार में से अपने हाथ निकालने लगा। मुझे दुःख हुआ कि उसे जाड़े में मेरे कारण यह कष्ट करना पड़ा।

“देखिये—और यह इनाम मिला था।”

“हूँ !”—कह कर मैं चौंक पड़ा। कलाई तक उसके दोनों हाथ कटे हुए थे। किन्तु उसके मुख पर कोई रेखा न थी—“चौंकिये मत। हैरतनाक बात तो अब आती है। आपने भामतौर पर कारीगरों के हाथ कलम किये जाने की कहावत सुनी होगी। मेरा हाथ उसी तौर पर न कटा था। इसका एक बड़ा अजीब किस्सा है। लेकिन उसे सुनाने के पेशतर उसका हाल सुनाना ज़रूरी है जिसकी वह शबीह है।”

“मैं तो आप, यह सब जानना चाहता हूँ।”

अकाण्ड में यह काण्ड समाप्त हुआ। अँगड़ाई बेटे हुए मैंने देखा कि वह तसवीर, क्या जाने कबकी मेरे हाथ से छूट कर, मेरे सामने पड़ी हुई है। शमादान की बत्ती समाप्त होने पर है और मेरा ख्वास, हरचरन पाँव दबा कर मुझे जगा चुका है। मुझे उस पर बड़ा क्रोध आया।

उस दिन से आज तक अनेकों स्वप्न देख डाले। उनसे मुझे कितना आनन्द मिला है सो उस मयूर से पूछिये

इनाम

जो प्रतिक्षण परिवर्तनशीला वर्षा दृश्यपटी को देख देख कर नये नये नाच नाचा करता है । पर; उस स्वप्न-सा कोई स्वप्न न दीख पड़ा ।

यह भी सम्भव है कि मैंने उससे बढ़ कर स्वप्न देखे हों । पर न जाने क्यों मेरा मन वही देखने को लालायित हो रहा है ।

आज भी वह उपसंहार सुनने की इच्छा ज्यों-की-त्यों नहीं बनी है ? ज्यों-की-त्यों क्या, दिन-दिन बलवती होती जाती है ।

कल्पना

१

मैं कल्पना करने लगा—

“कोई डेढ़-सौ वर्ष पहले एक संश्रनाता इक्का शिवपुर के आगे वाले तालाब पर रुका । मेरे वर्तमान जन्म से चार जन्म पहले की बात है—उस पर एक मित्र के संग मैं सवार था । उस समय शिवपुर एक गाँव था । भाजरुल-जैसी चहल-पहल की, कहीं पर, परछाईं भी नसीब न थी । तो भी वह कोई जंगल न था । गाँव के चारों ओर दूर दूर तक अमराइयाँ फैली हुई थीं । कई पक्के तालाब भी थे । पर काशी के लोगों को यही तालाब बहुत प्रिय था । हम दोनों वहाँ हवा खाने गये थे, और भी कितने ही इक्के खुले हुए थे ।

“सड़क से कोई सौ क़दम पर वह सुन्दर पक्का तालाब था जिसकी प्रेतात्मा का दर्शन आज

भी आप वहाँ कर सकते हैं। उसके चारों ओर सौ-दो-सौ क़दम तक मैदान था। वहाँ गाये चरा करतीं। बाद, दीलों पर सुन्दर भमराइयाँ थीं। तालाब के पूर्व किनारे पर, जहाँ से सीढ़ियों की लम्बी दौड़ पानी की ओर चलती थी, एक सुन्दर शिव-मन्दिर था। यह अब भूमिसात् होकर अपना अस्तित्व पृथ्वी के भाँचल में खड़ा रहा है। और इस पर का वह सुन्दर घटवृक्ष, जिसकी शोभा देखने में मैं घण्टों बिता देता था और जो उस मंदिर के मुकुट पर नीलातपत्र का काम देता था, आज सिर पर हाथ रखे रोते हुए बूढ़े-जैसा दीख रहा है।

“पास ही एक ढुँआ था। अब वह महार हो गया है। काल के विकराल डाढ़ों के अनेक चिन्ह उस पर लगे हुए हैं। वहाँ हम लोगों की भंग बुटने लगी। इस सबसे निवृत्त होकर हम लोग तालाब-किनारे पहुँचे। वहाँ अच्छा जमबट था। कोई नहा रहे थे, कोई यस्त्र को पछाड़ते हुए बार-बार उठा कर उसकी सफ़ाई देख रहे थे, कोई स्नानादि से निश्चिन्त होकर बैठे थे। किसी की

स्नान की तैयारी थी, पर चुप कोई न था । सब गप्पाष्टक कर रहे थे । प्रधान चर्चा अन्न की गिरानी की थी । काशी में पहली बार ५७ सेर का गोहूँ बिका था । भाव में एक दम १३ सेर की कमी कोई साधारण बात न थी । इसी प्रसंग में अनेक कथा, उपकथा, क्षेपक, परिशिष्ट लग रहे थे । उन दिनों साह नवलदास काशी के नगर-सेठ और परम दाता थे । बीच बीच में उनकी उदारता की प्रशंसा और किसी किसी के मुँह से निन्दा भी सुनी जाती थी । काशी का यह बुढ़िया-पुराण, समय के बदल जाने पर भी, आज भी ज्यों-का-त्यों बना है, बल्कि कुछ विकसित ही हुआ है ।

“हम लोगों का उस मण्डली ने भानंद-पूर्वक स्वागत किया । सभी जान-पहचान के थे । तालाब का पन्ने-जैसा पानी अपने तटस्थ वट की हरियाली से होड़ कर रहा था । हृदय में भानन्द से होने वाली गुदगुदी की तरह उसमें मन्द लहरियाँ उठ रही थीं ।
हम लोग अपनी धोतियों पर ‘साफ़’^१”

१—धोती या अँगोछे को किसी साफ़ चिकने

कल्पना

देने लगे । संध्या के प्रवेश के साथ पानी की नीलिमा बढ़ने लगी । सामने के गऊघाट पर पानी पीने को उतरती गायों के खुरों की खटखट से तालाब प्रतिध्वनित होने लगा । किन्तु जब तक सन्ध्या की उदासी फैले-फैले तब तक पूर्व से निशानाथ निकल आये । शारदीय पूर्णिमा थी । आज की चन्द्र-श्री अपूर्व होती है । कोई अचरज नहीं जो कृष्ण ने—

दृष्ट्वा कुमुद्वन्तमखण्डमण्डलं

रमाननाभनवकुङ्कुमारुणम् ।

वनञ्चतत्कोमलगोमिरञ्जित

जगौकलंवामदशाम्नोहरम् ॥

“थोड़ो ही देर में, तालाब में चाँदी लहराने लगी । हम लोगों की धोती सूख चली थी । अब नहाने की बारी आई । मैं पास के खुले बुर्ज से धड़ाम् से पानी में कूद पड़ा । मेरे मित्र-सीदियों

पत्थर पर, सफ़ाई के लिये देर तक पछाड़ने को ‘साफ़ा देना’ या ‘पुट लगाना’ कहते हैं । जो ऐसा करे वह पुट-वा साफ़ेबाज़ ।

से उतरे थे, वे भी तैर कर मेरे पास आ गये । हम दोनों देर तक जल-झीड़ा करते रहे, फिर बाहर निकलने की तैयारी हुई । मैं पानी में की एक सीढ़ी पर चढ़ा था कि मेरे बाएँ पैर की नली में जोर से ठोकर लगी; सीढ़ी पर कोई चीज पड़ी थी । वहाँ कन्धे तक पानी था । ठोकर जोर की लगी थी क्योंकि मैं तेजी से ऊपर आ रहा था । मैंने कहा—भरे ! यहाँ बड़े बड़े 'साफ़ेवाज़' आते हैं किन्तु कोई यह ठोकर नहीं हटाता । क्या क्या भइदी लोग हैं !

“अपने मित्र को मैंने ठोकर का हाल बतलाया ।

“घाट पर से एक साहब बोल उठे—‘का, साहेब, साफ़ावाजन में तू नहीं हौ । काहे अउरन के बदनाम कर थी ?’

१—बनारस के पक्के मुहत्तलों की बोली । हिन्दी में—‘क्या साहब, साफ़ेवाज़ों में तुम नहीं हौ । क्यों औरों को बदनाम करते हौ ।’

करूपना

‘बदनाम ए वस्ते करी थे कि सब एके निकसते काहें नाहीं ! आज एके निकासना है^१ ।’

‘मैने पैर से टटोल कर देखा कि वह पत्थर का एक चिकना ढोंका था ।

‘तब मैने उपस्थित मण्डली से कहा—‘जरा आप लोग मदत करो तो एके^२ निकासना जाय । बड़ा चिकना पत्थर है, पुट^३ देवै काबिल है । तीन-चार-ठे रस्सी मिलाय के एमें^४ बाँधी जाय तो सहज में ऊपर खिच आवै ।’

‘उस पत्थर को ‘पुट देवै काबिल’ जान सब अपने अपने लोटों की रस्सियाँ जुटाने लगे । वे एक में बटी गईं और मैने गोता लगा कर उस काम-चलाऊ रस्से को पत्थर में बाँधा । कई जन ऊपर से उसे खींचने लगे और हम दोनों डुबकी लगाकर उसे ठेलने । पाँच मिनट के भीतर ही वह कमर-

१—हिन्दी में—‘बदनाम इस वास्ते करते हैं कि इसको निकालते क्यों नहीं । आज इसे निकालना है ।’

२—इसको । ३—देखिये १२४ वें पृष्ठ का नोट नंबर १ ।

४—इसमें ।

भर पानी में आ गया । तब हम दोनों सहज ही में उसे उठा कर ऊपर लाये । उस समय नगर में बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो कसरत-कुश्ती न करते रहे हों । बाहर देखने पर मालूम हुआ कि वह शिला कोई मूर्ति है, जो पानी में उलटी पड़ी थी । हम लोगों ने उसे सीधा रख कर धोना प्रारम्भ किया ।

“थोड़ी देर में जब उसकी मिट्टी-कॉचड़ साफ हो गई और पानी से धुली हुई और तर मूर्ति के मुख पर चन्द्र-ज्योत्स्ना खेलने लगी तब उसकी शोभा देख कर सारी मण्डली अवाक् रह गई ।

“शारदा की क्या दिव्य मूर्ति थी । सब मुग्ध हो गये । कई ने कहा कि उसे बट के नीचे रख देना चाहिये ।

“मैंने कहा कि पागल तो नहीं हो गये हौं । भला, उन खण्डित मूर्तियों और टूटे-फूटे पत्थरों में माता की जगह है । आज शरद के दिन शारदा जी ने स्वयं दर्शन दिया है, उस मौलसरी के नीचे इनकी प्रतिष्ठा होगी ।

“तालाब के पश्चिमी घाट पर वकुल के जोड़े लगे थे ।

“मन्दिर बन गया और प्रतिष्ठा भी हो गई । मेरा वहाँ तीसरे पहर जाना भी होने लगा । घर के लोग भी वहाँ प्रति पूर्णिमा जाया करते । श्रद्धा से पूजा होती । जब से यह मन्दिर बना था, मेरी सब प्रकार उन्नति थी ।

“मेरी पत्नी सुभद्रा, घण्टों तक भगवती का मुँह निहार करती और बार-बार यही उलहना देती कि इन्हें घर क्यों न पधराया ।”

२

मैं अपने बारामदे में भाराम-कुसी पर लेटा था । मेरे सामने ही खम्भों के सहारे वह मूर्ति धरी थी । गुलदाउदी के फूल उसे चारों ओर से घेरे हुए थे । मैं बिना रुके हुए कहता गया—

“अब डेढ़-सौ वर्ष बाद मैंने उस मन्दिर को खँडहर पाया । तुमने फिर पृथ्वी में अपना मुँह छिपा लिया था । हरी घास तुम्हारे लिये चादर बनी हुई थी । मैंने एक बार फिर तुम्हारा उद्धार

किया । इस बार मेरी पत्नी को तुम्हें घर से दूर रखने का उलाहना न देना पड़ेगा । उस बार तुमने मन्दिर में बैठ कर मेरा कल्याण किया था, इस बार इन सुन्दर फूलों के तले से ‘‘.....’’

मैंने एक बार साभिलाष नयन से उस मुख-धरी की ओर देखा । हृदय हरा हो उठा । मुझे ऐसा मालूम हुआ कि उस मूर्ति का सहज सस्मित मुख और भी मुसकरा रहा है । उससे एक दिव्य प्रभा भालोकित हो रही है । और यद्यपि उसने मुँह नहीं खोला था, तो भी वह मुझसे पूछ रही थी—

“परन्तु तुम इसे अपनी कल्पना क्यों मान बैठे हो ?”

समदुःखिनी

उद्दीपन

सीधी रेखाओं में नर्तकियाँ हट बढ़ रही थीं। अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए अपने सुख का बलिदान कर रही थीं। कितना परिश्रम उठा रही थीं। किन्तु एक नर्तकी की न जाने किस चेष्टा पर उसकी संगिनी ने कनखियों से मुसकरा दिया। इस मुसकराहट में वासना कूट कूट कर भरी थी।

नृत्य बन्द हुआ। मद्य विघूर्णित सम्राट को परिचारकों ने शयनागार में पहुँचा दिया। इतने बड़े सम्राट मदिरा का ग्रास बने अपने पलंग पर पड़े हुए थे।

राजमहिषी ने आकर उन्हें जगाया, बार बार जगाया, पर कौन सुनता है।

“हा, नाथ ! आज फिर वही दृश्य ! अब मुझे कोई आशा नहीं—” पलंग की पाटी में सिर गड़ा कर वह जोर जोर से रोने लगीं। थोड़ी देर में उन्हें निद्रा ने सुला दिया।

द्वी आँच

✓ जो नर्तकियाँ अपनी कला से स्वर्ग-सुख का अनुभव कराती हैं, एक अलौकिक प्रान्तर में ला खड़ा करती हैं, उनका जीवन देखिये—रहन सहन देखिये तो कैसा नारकीय है । वह संसार ही अलग है ।

सारे विश्व से अलग ऊँची ऊँची दीवारों से घिरे हुए स्थानों में सम्राट ने उन्हें, मानों स्वर्ग में रक्खा है । पर उनके हृदय में तो नरकाग्नि भड़क रही है । वह उस अवरोध में और भी प्रवलता धारण करती है । क्या ऊधम सभी ने मचा रक्खा है । हे राम ! मनुष्य थोड़े-से सुख के लिए कितनों का जीवन केन्द्र-च्युत कर देता है । भगवन् ! वह स्वतन्त्रता किसी को न दो जो दूसरों की परतन्त्रता का कारण हो ।

तरला ने सरला से पूछा—“तू क्या हँसी थी ? रे !”

“पगली, मैं हँसी थी ?”

“तब नहीं तो क्या !”

“अरी तू सरला नहीं गरला है ।”

फिर वही हँसी । तरला के हृदय में बिजली-सी दौड़ गई । उन्मुक्त पवन के लिये तबीयत तड़प उठी । पुराने दिन याद आगये । वासना की आँच बढ़ी तेजी से,

धू-धू करके जल उठी । जल क्या उठी, जलती तो धी
ही—बहुत वेगवती हो उठी । सम्मुख स्वतन्त्र जीवन के
चित्र खिच उठे—

दृश्य-दृश्यान्तर

एक छोटी-सी टेकरी पर एक किसान की कन्या बैठी
गाएँ चराया करती । उस टेकरी पर एक ही वृक्ष था, उसे
किसी ने लगाया न था । न जाने कहाँ से उड़ता उड़ाता
एक मन्दार-बीज वहाँ आ पड़ा था । वही धीरे धीरे
छतनार वृक्ष हो उठा था । समय समय पर फूलों से लह
जाया करता । स्वतन्त्रता की पेंगे मारता । अपने हृदय-
गीत गुनगुनाया करता । किसान-बालिका भी उसके संग
अपने भौंले भाले गीत गाती । कोई चिन्ता न थी । आधे
दिन चर के गाएँ उस वृक्ष की छाँह में जुगाली करतीं । वह
भी उन्हीं का आश्रय लेकर सो जाया करती । हिमालय-
पवन आता—उसके बालों से, वस्त्र से खेलता, उसकी त्वचा
पर लाली दौड़ाता, पर निर्बोध बालिका कुछ और ही स्वप्न
देखा करती । धीरे धीरे यह परदा उठने लगा । उसके पीछे
एक दूसरी दृश्यपटी का कुछ अंश दिखाई पड़ने लगा ।
अभी उस दृश्य पर इस उठते हुए परदे को छाया पड़ रही

थी, इससे उसमें अपूर्व शीतलता और स्निग्धता जान पड़ती थी। पर ज्यों ज्यों, यह दृश्य ऊपर उठता गया, ज्यों ज्यों, ऊषा के आलोक को सूर्य्य दबाता गया, त्यों त्यों, उसकी प्रखर रश्मियों से वह कुमारी विकल हो उठी। किन्तु दोपहर का ताप भी न रह गया। तीसरा पहर आया। निर्बोध आलिका ने समझा कि फिर पहले के दृश्य आ पहुँचे। संध्या की पटी ज्यों ज्यों उस दृश्य के भागे लटकने लगी त्यों त्यों वह यही समझने लगी कि वह फिर अपने अरुण लोक में पहुँचा चाहती है। पर उसे यह बोध न था कि जिस तरह एक दिन उस परदे ने उठकर प्रखर ताप उपस्थित किया था उसी प्रकार यह परदा गिर कर और भी रौद्रकाल उपस्थित करेगा। रात आई। उसने अपनी काली ढाढ़ों के भीतर उस अबला को दबा लिया। परन्तु उन विकट ढाढ़ों के लिये यह इतना छोटा प्रास था कि वह इसे कवलित न कर सका। धीरे धीरे यह उसके उदरस्थ हुई।

वहीं, अवरोधों के भीतर, आज वह अपने जीवन का सिंहावलोकन कर रही है।

प्रवेश

“छोकरि ! मैं इस मंदार के फूल लोढ़ सकता हूँ ?”

बेचारी तरला घबरा उठी । पेड़ पर उसका कौन अधिकार ! वहाँ वह बे रोक टोक बैठने पाती है, यही बड़ी बात है । फिर, ऐसा सुभ्र वसन सुन्दर युवा उसकी आज्ञा चाहता है । यह तो कोई राजा जान पड़ता है । इसे आज्ञा की कौन आवश्यकता है ।

“प्रभु, आप मुझसे क्या पूछते हैं ? मुझे तो इस पेड़ पर केवल यही अधिकार है कि मैं इसकी छाया में बे रोक टोक बैठ सकती हूँ ।”

“ठीक है । मैं तो केवल यही जानना चाहता था कि मुझे कोई रोकेगा तो नहीं ।”

“महाराज ! भला आपको कौन रोकने वाला है ।”

अश्वारोही थोड़े से फूल लेकर चलता हुआ । तरला अश्रुण्ण नयनों से उसका मुँह देख रही थी । फिर घोड़े की चाल देखती रही । थोड़ी देर में वह भी ओझल हो गया ।

दूसरे दिन फिर उसी समय वह युवक आया । आज उसने एक अंजली फूल लिये । फूल अंजली के बाहर गिरने लगे । उसने तरला से कहा—

“सखि ! तनिक इन फूलों को अंजली में तो रख दो ।”

तरला ने वैसा ही किया। जब तरला फूल रख रही थी, युवक ने उससे चार-आँखें करके कहा—“तुम्हारे हाथ तो बड़े गोरे हैं। देखो मेरे हाथ से वे कितने स्वच्छ हैं।” तरला जरा-सा कॉप उठी; फूल रख कर फिर सरल दृष्टि से वह मुख देखने लगी।

“तुम यहाँ की देवी हो। ये फूल तुम्हें ही अर्पित हैं।” युवक ने फूलों की अञ्जली उसी पर बरसा दी और मुसकराता हुआ चल दिया। तरला को बड़ा कुतूहल हुआ।

घात-प्रतिघात

तीसरे दिन युवक फिर आया। घोड़े ही पर से सालहाद पुकार उठा—“मन्दारतलवासिनी, भगवती, प्रणाम !”

तरला को बड़ी लज्जा आई। उसने सिर नीचा कर लिया। अभी उसने सिर ऊँचा न किया था कि भश्मारोही उसके पास पहुँच गया। उसके आगे हाथ बाँधे घुटनों के बल बैठ कर उसने कहा—“कुमारी, सिर ऊँचा करो। तुम्हें यह नहीं मालूम कि तुम कितनी सुन्दरी हो। बिना तुम्हारा मुँह देखे मैं बेचैन हो रहा हूँ।” तरला लज्जा से गढ़ गई। युवक ने उसके चिबुक पर हाथ रख

कर, उसका मुँह ऊँचा किया। तरला के रोम खड़े हो गये। उसका रक्त तेज़ी से दौड़ने लगा।

“सुन्दरी, क्या तुम मेरी बात झूठ समझती हो ?”

तरला की आँखें नीची ही थीं।

“न एतवार हो तो अपनी प्रतिकृति मेरी पुतलियों में देख लो” तरला ने कुछ ध्यान न दिया, किन्तु युवक उससे गिड़गिड़ा कर विनय करने लगा। तरला ने जी कड़ा करके एक निगाह, युवा की पुतलियों में, अपनी छाया देख ली।

किसान-कन्या ने हजारों बार जलाशयों में अपना मुँह देखा है। लेकिन पहले कभी, उसने अपने में ऐसा रूप न पाया था। यही नहीं, युवक भी उसे अतुल रूप वाला जान पड़ा—उससे कहीं अधिक रूपशाली। उसे धोखा हुआ कि यह कोई देवता तो नहीं। उसकी देह-यष्टि काँप उठी।

युवक ने कहा—“सुन्दरी, मैं इतने सुन्दर गुलाब को चूमे बिना नहीं रह सकता।” उत्तर की प्रतीक्षा न करके, युवक ने अपने होठ उसके ओठों पर रख दिये। तरला के अधर भी आप से आप, उनके स्वागत के लिये आगे बढ़ आये थे।

युवती पसीने पसीने हो उठी। उसे मालूम हुआ कि उसने कोई गहिरा मादक पी लिया हो। वह मूर्छित-सी हो पड़ी। प्रकृतिस्थ होने पर उसने युवक का कोई पता न पाया। अब तरला को चारों ओर सूना जान पड़ने लगा।

उस चुम्बन ने, उस एक चुम्बन ने—कुमारी को ऐसा प्रतीत हुआ—उसका सर्वनाश कर डाला। उसने अपने को धो बहाया। उसे चारों ओर प्रलय के दृश्य दीखने लगे—आकाश एक बड़ी भारी भट्टी-सा प्रतीत हुआ। मन्दार वृक्ष काँटों की झाड़ी बन गया। पृथ्वी किसी विशाल राक्षसी का उदर थी। उसके बीच में उसने अपने को असहाय पाया। उसे यही मालूम होता कि अब उसके लिये संसार में कोई स्थान नहीं। अब वह किसी को मुँह दिखाने योग्य नहीं। उसने आपही अपने को मिट्टी में मिला दिया—धूल में फेंक दिया। किसी भारी आँधी में एक पत्ती की तरह वह उड़ती पुड़ती चली जा रही है।

वह रोने लगी। उसका आर्त्तनाद सुन कर गायें अपने अर्घ कवलित प्रास छोड़ कर उसकी ओर देखने लगीं। थोड़ी देर में वह सो गई। यदि ब्रह्माण्ड में सहानुभूति कोई वस्तु है तो निद्रे ! वह तू है।

स्वप्न

धीरे धीरे तरला के सामने एक नया जगत् प्रस्फुटित होने लगा—

वह एक पथिक है । नारी नहीं नर । एक जंगल में कहीं से चली आ रही है । जंगल गद्गिन है, हरा है । वृक्ष सब सुन्दर हैं, कहीं कँटीली झाड़ियाँ नहीं । वृक्षों के आश्रय में तरह तरह के क्षुप आनन्द कर रहे हैं । कहीं कहीं वन्य पक्षी चुँग रहे हैं । वे इसकी आहट पाते ही, जरा-सा रव करके उड़ जाते हैं । बीच में पगडन्डी है । वह ऐसी साफ़ है कि अभी छुहारी गयी हो । कहीं कहीं तनिक ऊँचे भूमिखण्ड हैं, उन पर शायद वनदेवता क्रीड़ा करते हों । सामने ही एक ऐसा प्राकृतिक चबूतरा था । तरला उस पर विश्राम के लिये बैठ गई । पास ही एक वृक्ष था । वह ऊँचा न गया था । जड़ से ही उसकी डालें छतनार होकर, दूर दूर तक पृथ्वी से सट कर ही फैली थीं । उसी पर उसने अपनी गठरी रख दी; वहीं घास पर बैठ गई । कैसी स्वच्छ घास थी । प्रकृति रोज़ उसे सँवारती होगी । बीच बीच में पीली मिट्टी की ज़मीन भी दीख पड़ती थी । तरला निरुद्देश उन भूमि खण्डों को देखने लगी ।

थोड़ी देर में उसने जाना कि वह मिट्टी नहीं सोना है। अपनी यात्रा भूल कर वह उसे बटोरने लगी। उसमें असौम्य बल आ गया। वहाँ का सब सोना थोड़ी देर में उसने बटोर लिया। अब वह उसी उच्च भूमि पर भागे बढ़ी। बराबर सोना मिलता जाता था और वह बटोरती जाती थी। इस तरह कोसों चली गई तब उसे कुछ बोझ मालूम हुआ और बोध भी हुआ कि वह रास्ता भूल गई। अन्धकार होने ही को था। वह कुछ घबरा उठी। पीछे फिर कर देखा तो सूर्य अस्त हो रहे हैं। उनका रक्तिम तेज सारे वन पर फैला हुआ है। सब वन सोने का-सा जान पड़ा। क्रमशः तेज बढ़ चला और वह स्थान वास्तव में बिलकुल सोने का हो उठा। अरे ! वह तो बड़ा भारी स्वर्ण-प्रासाद है। तरला बल्कि यों कहिए कि तरलकुमार उसकी सीढ़ियों पर खड़े हैं। सीढ़ियों के नीचे एक बड़ा रम्य पुष्प-वन है। उसमें चारों ओर भलसी फूली हुई है। सिवा भलसी के फूल के और कुछ नहीं दीख पड़ता। हाँ कहीं कहीं अशोक भी लाल चादर में मुँह ढाँपे खड़े हैं।

वे अखित्यार जी चाहते कि चलिए इस पुष्पवाटिका की सैर कीजिए। वह धीरे धीरे सीढ़ियों उतरने लगी। अन्तिम सीढ़ी से मिला हुआ एक सरोवर था। तरला को

प्यास मालूम हुई । वह पानी के लिये झुकी । इसमें, उसने अपना प्रतिविम्ब देखा । अरे ! वह तो और कोई नहीं, वही तीन दिन से आने वाला अश्वारोही है । फिर वह अपने को क्यों इतना धिक्कार रही थी—उसने स्वयं अपने ही को चूमा था । तरला ने फिर अपने प्रतिविम्ब को पानी में चूम लिया । तब खिलखिला कर हँसती हुई वह पुष्पवन में चली । जैसे पहले उसने सोना बटोरा था, इस बार फूल बटोरने लगी । क्रमशः उसकी झोली भर गई । संध्या भी होने लगी । अलसी के फूल अलकसाने लगे । उसके देखते देखते सब फूल सम्पुटित हो चले । उसने मन में सोचा कि इनमें से एक पुष्प में बन्द होकर देखना चाहिये कि किस लोक की सैर होती है । वह बैठ गई । थोड़ी देर में, पुष्प बन्द होने पर चारों ओर अन्धकार हो उठा । तरला ने डर से आँखें मूँद लीं । कई क्षणों में उसे यह जान पड़ा कि कोई उसकी पलके खोल रहा है । उसने आँखें खोल दीं । उसकी पलक खोलनेवाला और कोई नहीं, तरला ही थी, क्योंकि इस स्वप्न-संसार में, प्रकृत तरला तो अश्वारोही का अभिनय कर रही थी ।

सामने एक विशाल वटवृक्ष था । एक वेगवती नदी उमड़ कर बह रही थी । वट अपनी कर शाखायें उसी

प्रवाह में हिलोर रहा था। तरला ने अश्वारोही से कहा—“सखे ! चलो ज़रा इसकी डाल पर बैठें । इस समय वहाँ से प्रभात-श्री देखें ।” दोनों हँसते कूदते वट पर चढ़े । वट की एक डाल प्रवलगामिनी स्रोतस्विनी के ऊपर ही थी उस पर दोनों बैठ गये । वहाँ से पैर लटकाने पर, पानी छू जाता था । दोनों पानी में पैर हिलाने लगे, खेलने लगे, चुम्बन लेने देने लगे । बाल सूर्य की किरणें उस पानी में, उनके पैरों के चारो ओर हजार हजार कावे काटने लगीं । प्रभात-पवन उनके उत्तरीय नचाने लगा—बातें करने लगा—थपकियाँ देने लगा । सूर्य और ऊपर उठा, रक्तिम से उज्ज्वल हुआ । उज्ज्वल से प्रकाशहीन होकर क्रमशः शरदघन बन गया । ज़ोर ज़ोर से पवन चलने लगा । उसने उसे खण्ड खण्ड करके आकाश भर में फैला दिया । आकाश की नीलिमा मिल जाने से, वह बहुत काला घटाटोप हो गया, प्रलयंकर वर्षा होने लगी । नदी की तरंगें इनके घुटने चूमने लगीं । तरला चिबला कर मूर्छित हो गई और इस अश्वारोही की गोद में गिर पड़ी । इतना अन्धकार हो गया कि आँख को हाथ न सूझता था ।

किन्तु इतने अन्धकार में भी नदी में से किसी अदृश्य रमणी का एक सुन्दर हाथ निकला, जिसकी हीरे

की चूड़ियों की आभा से वहाँ एक दीप-सा बलने लगा । वह हाथ अश्वारोही की ओर बढ़ रहा था । उसने भी उसका स्वागत करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया । किन्तु, ज्योंही यह हाथ उसके पास पहुँचा त्योंही वह मगर का भयंकर मुँह हो उठा । उसके विकट डाढ़ चमक रहे थे । अश्वारोही सिहर उठा । उसने गोदी में पड़ी मूर्छित तरला पर दृष्टि डाली । पर वहाँ तरला कहीं ! अरे ! यह क्या !! अब तो—स्वयं वही तरला है ।

मगर ज्यों का त्यों मुँह खोले हुए उसे निगलने को उचक रहा है । चारों ओर विकट अन्धकार है । तरला को उस वक्त जल्दी में यही सूझ पड़ा कि ऊपर की डाल पकड़ के उस पर जाकर प्राण बचाना । उसे टटोलने के लिये उसने हाथ ऊँचा किया तो डाल के बदले कोई नरम चिकनी चीज़ मिली । जो उसने सिर ऊपर किया तो डाल के बदले एक विषधर सर्प लटक रहा है । उसकी भंगारे-जैसी लाल आँखें उसका हृदय जलाने लगीं । असमंजस में पड़ कर तरला ने पीछे भागना चाहा । पर विकट विपत्ति ! पीछे एक बाघ अपनी उल्का-जैसी आँखों से उसे घूर रहा है । उसने इसे देखते ही गुराँता शुरू किया । तरला अब अपने को न समहाल सकी । मारे भय के उसके

माण उड़ गये, पैर लड़खड़ा उठे । उसके हृदय से एक चीख निकली पर कण्ठ के बाहर श्लुष्कता-वशा निर्गत न हो सकी । इसी समय मगर ने उचक कर उसका अञ्जल पकड़ लिया और वह सट् से उसके मुँह में चली गई ।

यहीं, तरला की आँख खुली । उसने कई घण्टे तक यह दुःस्वप्न देखा था । अब दिन का तीसरा पहर था । गाये चर कर लौट आई थीं । उनमें से एक उसका वस्त्र मुँह से खींच रही थी । उस प्रशस्त दिन के प्रकाश में भी, वह अब तक डर के मारे काँप रही थी । वे ही दृश्य उसके आगे घूम रहे थे । उसे प्रकृतिस्थ होने में कुछ समय लगा । तब सिर नीचा किये हुए, क्या जाने किन किन विचारों में डूबती उतराती, वह घर पहुँची । उसका मुँह बिलकुल पीला पड़ गया था ।

आज तरला बिना खाये ही सो रही ।

तदनन्तर

तीसरे दिन इतना बुरा अनुभव होने पर भी चौथे दिन जब युवक के आने का समय हुआ तब तरला का हृदय वंचल होने लगा । वह सब कुछ भूल चली । पथ की ओर

समदुःखिनी

उसकी टकटकी बँध गई । पर समय बीत चला । भाने वाला न भाया । तरला तड़फड़ा कर टहलने लगी । जब समय बिलकुल ही बीत गया, तब वह रोने लगी । संध्या को घर लौटने तक उसका रोना न रुका । घर में उसने बड़ी कठिनता से रोना रोक पाया ।

आज से तरला के सारे आत्मिक बल का उपयोग अपने भावों को छिपाने में होने लगा ।

पाँचवें दिन अपने कर-पुट पर मुँह रख कर तरला फिर मार्ग देखने लगी । उसकी भाँखें लाल हो रही थीं । मुँह झाँवरा । आज उसका भाग्योदय हुआ । भ्रष्टाचार के आ जाने पर, वह अपने को, यह पूछने से न रोक सकी—

“कल क्यों नहीं भाये ?”

क्रमशः तरला के जीवन में यह दिन उपस्थित हो गया । वही सरला बालिका आज कैसी जघन्य-हृदया, परम विदग्धा नर्तकी हो उठी है । आत्मभाव गोपन के योग में वह आज सिद्ध हो चुकी है । किस असूर्य लोक में वह घूमती है ! उन लोगों का एक भलग ही संसार है ।

तो भी उसकी आत्मा उन दिनों के लिये तड़फड़ाती है,
पिंजड़े में टकराती है ।

प्रबोधन

“आह, प्रिये, तुम यहाँ क्यों सोई हो !”

जिस, उतरती रात के शीतल पवन द्वारा अपनी यक्षिणी को जगाने का भादेश मेघदूत के विरही यक्ष ने मेघ को किया था, उसी पवन ने सम्राट् का नशा उतारा । वे अपने पलंग पर तकिये के सहारे जग्हाई और अँगड़ाई लेने लगे । उनकी निगाह पाँचते पड़ी हुई महिषी पर पड़ी । तब वे उक्त वाक्य कह कर उन्हें जगाने लगे । मारे देह-पीड़ा और भालस्य के उनसे झुका न जाता था ।

महिषी ने भाँखे खोलीं । प्राणेश की यह दशा देख कर उनकी भृकुटी चढ़ गई । उन्होंने रुखाई से कहा—
“हाय नाथ ! क्या आप इस राँड़ को न छोड़ेंगे । हाथ ! इसने हमारे आपके बीच कितनी दूरी डाल दी है । महाराज, तनिक अपनी दशा तो देखिये । मद्रिरा विलास की सामग्री भवश्य है; वह हमारे राज-पेश्वर्यों में है । किन्तु कब तक ? जब तक वह स्वयं भोक्ता न बन जाय—

वह अपने भास्वादन करने वाले को अपना क्रीड़ा-मृग न बना ले। भाहू नाथ ! इसे छोड़ने में ही हमारा कल्याण है। भाः ! सपत्नी ! !”

“महिषी ! ऐसे कटु-वाक्य न कहो !”

महिषी तन कर खड़ी होगईं । जान पड़ने लगा कि वह शासिका है । राजाधिराज उसके क्रीतदास ।

“प्राणोपमे ! तुम्हारी यह अदा जान लिये लेती है । लाभो, इन्हीं हाथों से मुझे एक घूँट पिला दो ।”

“महाराज, इस दासी से ऐसी आशा न कीजिए । एक दिन वह था जब मैं आपको पिलाती थी, आप मुझे । किन्तु उस समय यह हमारे विलास का उद्दीपन थी । इसके द्वारा मेरा आसन न छीना गया था । आप इसी के न हो गये थे । देख लीजिएगा, यदि आपने इसे न छोड़ा तो मैं एक न एक दिन आपको सदा के लिये छोड़ कर चल दूँगी ।” बिना उत्तर की प्रतीक्षा किये, पैर पटकती हुई वह वेग से उस कमरे से चली गई ।

एक चैटी पान-पात्र लिए ऊँघ रही थी । वह ये बातें सुन कर सजग हो गई थी । सम्राट् किञ्चित् धिरेक हो उठे थे । “कोकिले”—उन्होंने हृद् कण्ठ से कहा—

“श्रीघ्न इस अमृत से मेरा हृदय सींच । इन विषाक्त वाक्य-
वाणों के चोट की दवा कर ।”

प्याला भर कर, इठलाती हुई कोकिला उनके सामने
उपस्थित हुई । सम्राट् ने उसका हाथ पकड़ लिया—
“कोकिले, मुझे तुझ-जैसा और कोई भी प्रिय नहीं ।
अमदे ! तू मेरे हृदय की पटरानी है ।”

“देव, ये बातें रहने दीजिए ।” उसने इतरा कर कहा ।
उह अपना हाथ छुड़ाने लगी । मणि-चषक खाली
करके मत्त सम्राट् उस पर भूरि भूरि अपनी प्रेम-वर्षा करने
लगे ।

मुक्ति

भाज फिर यथा समय राग-रंग का समाज जुड़ा ।
पहले गायक ताल-स्वर के साथ महाराज की बिरुदा-
पत्नी आलापने लगे । उन गीतों में अपने को त्रिलोकाधीश
की पदवी पाते सुन, सम्राट् उसी तरह फूल रहे थे जैसे
कोई साधारण धनिक ‘राजा’ कहे जाने पर गर्वित हो
उठता है । क्या संसार की लीला है ! क्या अहंकार का
खेळ !

गाने के बाद नृत्य शुरु हुआ । शराब का दौर भी

जारी था। सम्राट् बार बार महिषी के झुँह के पास पान-पात्र ले जाते, पर वह भौं चढ़ा कर झुँह फेर लेतीं।

नाचते नाचते तरला अपने दल से भागे बड़ कर अकेली ही सम्राट् के पास आकर अपनी कला दिखाने लगी। सब उसका कौशल देख कर दंग रह गये। सारी सभा चित्रलिली-सी हो गई। सम्राट् ने अपना हाथ बढ़ा दिया, तरला ने निर्भीकता से उसे पकड़ लिया।

सम्राट् ने उल्लास से कहा—“तरले, तू धन्य है। आ, मेरे गले से लग जा।”

सम्राट् की छाती से वह चिमट गई। उन पर कटाक्षपात करने लगी। इसके साथ ही एक तीक्ष्ण कटार भी उनकी छाती वेध उठा। “कादं—” इतना ही कह पाये थे कि उनके हृदय से रक्त का फौवारा छूटने लगा। वे सिंहासन से गिर पड़े।

इतने बड़े साम्राज्य का अधिकारी, भूमि पर निःसहाय छटपटाता हुआ दूटे फूटे वाक्यों में कहने लगा—
“हा-य-त्त-र-ला-य-ह-क्या—”

सारा मण्डप तलवारों की खनक से झंकारित हो उठा। तरला निश्चल निडर खड़ी थी। उसके सिर पर कितनी ही तलवारें चमक रही थीं।

महारानी ने तन कर हाथ भागे बढ़ा के कहा—
 “झबरदार, जो तरला का बाल भी बाँका हुआ—तरले,
 तू मेरी बहिन है देख—” पागलों की भाँति लाल लाल,
 आँखें निकाल कर, स्फटिक का मद्याधार अपने हाथ में
 लिये हुए महिषी कहने लगीं—

“देख । यह मदिरा मेरे सुख की, मेरे सुदिन की,
 भेरे प्रेम की, मेरी स्वतन्त्रता की, बाधक थी । इसने मेरे
 हाथ को मुझसे कितनी दूर बिलगा दिया था । इसे मैं
 कितनी बार तोड़ फोड़ चुकी हूँ । इसी तरह सम्राट् भी
 तेरे सुख, तेरे सुदिन, तेरे प्रेम और तेरी स्वतन्त्रता के
 बाधक थे । उन्होंने तुझे तेरे प्रकृत जीवन से कितना
 बिलगा दिया था । फिर यदि तू ने उनका हृदय छेद
 डाला तो क्या बुरा किया ! हम, तू बहिनें हैं, संगिनी
 हैं, समदुःखिनी हैं । आ, हम तू नाचें ।”

एक ओर एक हाथ में मद्यपात्र ऊँचा किये सम्राज्ञी,
 दूसरी ओर रक्त-सिक्त कटार उठाये तरला, हाथ मिला कर
 उन्मत्त-नृत्य नाचने लगीं । लोग अवाक् थे, काँप रहे थे ।
 जान पड़ता था कि साक्षात् काली और चण्डिका ही जगती-
 तल पर उतर आई हों । सम्राट् ठंडे हो चुके थे ।

नाचते नाचते सम्राज्ञी ने स्फटिक की सुराही जोर

समदुःखिनी

से अपनी छाती पर दे मारी । वह हार के जड़ाऊ टिकरे से टकरा कर चूर चूर होगई । सारी मदिरा सम्राट् के शव पर फैल गई । केवल सुराही की गरदन महिषी के हाथ में रह गई । तब वह अट्टहास करके कहने लगी—
“ले, आज तुझे सदा के लिये तोड़ती हूँ ।”

तरला भी विकट हास्य हँसने लगी । वह भी बोली—“ले, रे कटार, आज तुझे सदा के लिये कोष में रखती हूँ !”

तरला ने जोर से उसे अपनी छाती में भोंक लिया । महिषी ने भक् से सुराही का मुँहकड़ अपनी गरदन में धँसा लिया ।

हाथ पकड़े हुए दोनों संग ही धड़ाम से सम्राट् पर गिर पड़ीं ।

वसन्त का स्वप्न

नदी का किनारा पतझड़ में गिरी हुई पीली पत्तियों से ढका था। वृक्षों की डालें नंगी थीं।

नदी एकरस बह रही थी। उस पार कटे हुए खेत पड़े थे।

कहीं से घूमता हुआ एक वृक्ष भाकर एक पेड़ तले बैठ गया। ज़मीन पर पड़ी सूखी पत्तियाँ खड़खड़ा उठीं।

वह युवक था—उसका साँवला शरीर ठिगना, गठीला और सुडौल था। उसके रूखे किन्तु घुँघराले बालों की कढ़ी लटें उसके कन्धों पर झूम रही थीं। हाथ में एक बंसी थी।

युवक ने उसे बजाना चाहा पर उसी समय पांशुल पवन का एक झोंका उसके कान के बगल से सन् सन् करता हुआ निकल गया। उसका जी उदास हो उठा। उसने बंसी रख दी और नदी की ओर देखने लगा। वायु से उड़ कर पत्तियाँ नदी में गिरती थीं, फिर इधर से उधर भ्रान्दोलित होकर धार में पड़ के जाने कहाँ बह जाती थीं।

उसका मन न लगा, वह निरुद्देश-सा होकर लेट गया;

वसन्त का स्वप्न

सो गया । ऐसे समय में नींद ही प्राणी का भाग्य होती है ।

युवक अँगड़ाई लेकर आँख मलता हुआ उठ बैठा ।
क्योंकि उसके कान में बंसी के मीठे सुर प्रविष्ट हुए
थे जिन्होंने उसे निद्रा की गोद से हटा लिया था ।

उसने देखा कि चारों ओर वसन्तविभा फैली हुई
है—प्रभात का सजीव और सुहावना समय है ।

सारा कानन चित्र विचित्र कुसुम और पल्लवों से
सज उठा है । हुलसी भ्रमरावली फूल-डोल पर पेंगें ले
रही है । सुमन उसके कपोलों पर पराग का गुलाल पोत
रहे हैं, मधु पिला रहे हैं, वह छक कर मौज के गीत गा
रही है । पल्लव करताल दे रहे हैं ।

भावुक चपल पवन लतिकाओं से छेड़छाड़ कर
रहा है, उन्हें गुदगुदा रहा है, झकझोर रहा है । वे
खिलकर हँस के फूलों की झड़ी लगा रही हैं । और,
कँटीले गुलाब की कलियाँ उनकी चुटकी ले रही हैं । एक
नई तबीयत का जोश चारों ओर हिलोरे मार रहा है ।
ऐसे रम्य समय में युवक के सामने एक सुन्दरी बैठी है
जो उसी की बंसी बजा रही है । भावों के उद्रेक से उसका
कण्ठ और उँगलियाँ दोनों काँप रहे थे, भतः वह जो

कुल बजा रही थी वह पवन-विक्षिप्त मेघमाला की तरह कुल का कुल रूप धारण कर रहा था ।

वह उसकी ओर कुतूहल से देखने लगा, क्योंकि पूर्व जन्म की भूली हुई बात की तरह उसके हृदय पर उस सुकुमारी की छाया तो थी किन्तु वह उसे जान न सकता था ।

रमणी माया की तरह रहस्य-मय, कुटुक की तरह चमत्कार-पूर्ण, शिशु-हृदय की तरह सरल, चन्द्रिका की तरह निर्मल, कला की तरह मंजुल और प्रकृति की तरह अकृत्रिम थी । किन्तु आतप की सरसी की तरह वह सूख गई थी । उसका मुँह प्रभात-चन्द्र की तरह पाण्डु पड़ रहा था । उसकी आँखें मरुस्थल की तरह सूखी एवं उजाड़ गाँव की तरह सूनी थीं और उसके केश में स्नेह के बिना लटे पड़ गई थीं । उसका हृदय कवि की अपूर्ण कल्पना की तरह था और उसके शरीर पर आभूषणों का पता न था । इस सब से यद्यपि उसकी सुन्दरता में कोई कमी न पड़ती थी, किन्तु ये उस चमन के उजड़ जाने का हाल अवश्य सुनाते थे ।

युवक एकटक उसकी ओर देख रहा था । वह गोरखधंधे में पड़ गया था । अन्त को वह अपने को न रोक सका । उसने पूछा ही तो—

“सुन्दरी तुम कौन हो ?” प्रश्न में याचना थी ।

“अच्छे रहे, इतनी जल्दी भूल गये” उत्तर मिला ।
 उसका गला भर आया था, आँख से दो बूँद आँसू
 भी कपोलों पर ढल आये थे । “तुम्हें याद नहीं । मैं याद
 दिलाती हूँ—अभी कल, जब शरद में चन्द्रकला समुदित
 होकर कमल से कहती थी कि ‘दो सौन्दर्य एक ठौर नहीं
 रह सकते, तुम अपना मुँह छिपाओ । तुम्हारी यह सामर्थ्य
 कि मेरी होड़ करो’, और कमल कहता कि ‘सुन्दरी, मेरी और
 तुम्हारी कौन तुलना । पर मुझे अपना सौन्दर्य तो निरख
 लेने दो ।’ इस पर चन्द्रकला कुपित हो उठती—‘कदापि
 नहीं । जल्दी अपनी आँख मूँद लो ।’ अब कमल गम्भीर
 मुद्रा बना कर यह उत्तर देता हुआ कि ‘लो, आँखें तो बन्द
 किये लेता हूँ किन्तु इसमें जो तुम्हारी एक किरण लुराये
 लेता हूँ उसे कैसे छीनोगी ?’ अपने नेत्र मीच लेता । उस
 समय हम तुम ठीक इसी जगह आकर इसी नदी की
 शोभा देखा करते क्योंकि मेरा जीवन लुराफे की तरह
 तुम्हारे जीवन से मिला था । बीच बीच में जब तुम मधुर
 दृष्टि से मेरी ओर देखते तब मैं प्रसन्नता के मारे मुसकरा देती
 और तुम मेरा हाथ दबाकर कहते—‘क्यों चाँदनी को फोकी
 किये डालती हो—जो छिटकी चाँदनी नदी पर फिसल रही है

इन दाँतों की आभा से लजा कर कहीं इसी में डूब न जाय ।’

“चाँदनी चाहे लजाती रही हो धान रही हो, किन्तु मैं लज्जा से गड़ जाती और तब तुम झुक कर अपने इन्हीं बड़े बड़े रतनारे नयनों से मुझ पर प्रेमामृत बरसाने लगते और मैं कृतकृत्य हो जाती । आज ठीक उसी स्थान पर तुम, मुझसे ऐसी बात पूछ रहे हो ।

“बधिक से भी कहीं बढ़ कर कठोरता पूर्वक तुमने मेरा त्याग किया, फिर ऐसे भोले भाले अजान बन कर बातें गढ़ते हो ।”

चकोर, चन्द्रचिम्ब को देखता हुआ भी चेष्टा करने पर उस तक नहीं पहुँच सकता । युवक के हृदय की वही दशा थी, अतीत के दृश्यों को सामने देखते हुए भी वहाँ तक न पहुँच सकने से व्याकुल हो रहा था । तिस पर भी उसे अनुभव हो रहा था कि यह सब कोई इन्द्रजाल है ।

सुन्दरी अपना ओठ चबा रही थी उसने एक लंबी सांस ली और बोली—“तुमने भरे वसन्त में मुझे छोड़ा है । जब पहले पहल तुमने विदेश जाने का प्रस्ताव किया तब मैंने समझा कि यह भी एक चोड़ है । किन्तु मुझे शीघ्र ही मालूम हो गया कि तुमने जो कुछ कहा था उसे करने

पर उतारू थे—धीरे धीरे तुम अपना सामान लगा रहे थे ।

“एक दिन तुमने अपनी तैयारी कर ही तो दी ।

“जब तुम्हारे बिछोह का समय आया मैं सिहर उठी ।

“—‘‘च्यारे मुझे अकेली छोड़ कर तुम विदेश न जाओ ।’

किसी तरह हृदय कड़ा कर के काँपते काँपते, तुम्हारे चरण छूकर मैंने इतनी भीख माँगी । पर, तुमने मुझे ढाढ़स तक न दिया । हाय, तुम ऐसे निडुर, ऐसे निर्दयी, ऐसे बेपीर !

“मैं बिलबिला कर पतझड़ की पीली पत्ती की तरह ज़मीन पर गिर पड़ी । मेरे मुँह से औचक ‘हाय’ निकल पड़ा । उस सूने घर ने भी मेरे साथ हाय की प्रतिध्वनि की ।

“मैं मूर्छित हो गई ।

“मैंने आँख खोल कर देखा कि मेरा सिर तुम्हारी गोद में है । तुम मेरा मस्तक गुलाब से शीतल कर रहे हो । मैंने फिर ‘हाय’ किया और आँखें बन्द कर लीं, क्योंकि मुझे स्वप्न का धोखा हुआ था । पर आँख मूँदने पर वह धोखा जाता रहा । तब मैंने आँख खोल कर करुण नयनों से, रोती आँखों तुम्हारी ओर निहारा । तुमने कुछ खिसियाने-से होकर, कुछ मुसकरा कर कहा—‘यदि मैं यह परिणाम

पहले से जान सकता तो ऐसी हँसी न करता ।’

“अब मुझसे न सहा गया । मैंने एक बार नयन तरेर कर तुम्हें देखा और भाँखे’ बन्द करलीं तथा अपना सिर तुम्हारी गोद से हटा लिया । मुझे मान आ गया; तुम भौंचक-से रह गये ।

“तुमने गिड़गिड़ा के कहा — ‘प्रिये, वसन्त में ऐसा मान !’

“मैंने जी में कहा, ‘स्नेह में ऐसी रूखी हँसी’ मेरी मृकुटी चढ़ी थी; भाँखे’ जमीन पर गड़ी थीं । तुमने मेरी ओर देखा, मैंने मुँह फेर लिया ।

“आखिर न तुम्हीं मना सके, न मैं ही मानी ।

“तुमने कहा, ‘मैं ऋतुराज की साक्षी देकर कहता हूँ—मेरा हृदय टूक टूक हुआ जाता है । अब मैं अधिक नहीं सह सकता । लो, अब मैं सचमुच चला ।’ तुम्हारी आवाज़ में निश्चय था, दृढ़ता थी, पर मैं न समझी !

“तुम उठ कर सामने के कुसुमित कानन की ओर चल पड़े । मेरा छैलाया हुआ मन एक क्षण में ठिकाने आ गया । मैं अप्रतिभ-सी एकटक देखने लगी । सूना हृदय धड़ धड़ धड़कने लगा । मैंने चिह्लाकर कहा ‘ठहरो, ठहरो,

मैं मान गई, हा, हा, खाती हूँ, एक बात तो सुन लो' पर तुमने पीछे फिर कर देखा तक नहीं; उलटे और डग बढ़ा दिया। मैं तुम्हारे पीछे दौड़ी। तुम्हारी चरण-धूलि मेरे ऊपर छा गई। मैं पुलकित हो उठी।

“संध्या हो रही थी। कुसुमित कानन में कहीं अंधकार और कहीं लालिमा आगे पीछे हट रहे थे। पंछियों के झुन्ड के झुन्ड संध्या की विश्रामदायिनी तानें छेते हुए बसेरा ले रहे थे और सारा दिन वसन्तामोद से छक कर कानन भर में भटपटी चाल से डोलने वाला पवन अब विभोर और निस्तब्ध हो रहा था। कुसुम अलसा रहे थे। और अमर-भीर सुमन-शैथ्या पर शयन करने के लिए झुक रही थी।

“किन्तु मैं तुम्हें न पा सकी। सांध्य-अरुणिमा की मूर्ति तुम भी जाने कहाँ छिप गये। मैं पागल होकर इधर उधर टक्कर मारने लगी।

“आकाश ने रात्रि की रहस्यमयी चादर ओढ़ ली। मैं तारकाओं के अस्फुट भालोक में पुष्पों को जगाने लगी। मैंने उनसे कहा कि मेरे लिए एक बूंद, बस एक बूंद आँसू डाल दो, पर उन्होंने न सुना; तब मुझे विरक्ति हो उठी।

“मैंने ढेर का ढेर फूल बटोर डाला ।

“अब मैं एक फूले अर्जुन तले बैठ गई । मन में तरंग उठी कि इनके आभूषण बना कर अपने को खूब साज लूँ । तब शायद इस हाव पर तुम रीझ उठो और प्रकट हो जाओ । क्योंकि मुझे ऐसा जान पड़ने लगा था कि तुम छिपे छिपे मेरे पीछे घूम रहे हो । और, मेरी खोजने की मूर्खता की इस प्रकार अवहेला एवं नीरव ठठोली कर रहे हो ।

“मैं नखसिख से सजी । तब उठ कर इधर उधर टहलने लगी । मेरा हृदय बांसों उछल रहा था कि तुम अब आये अब आये । किन्तु सब व्यर्थ । तब मैंने सोचा कि मेरी सजावट में अब भी कोई कसर है । किन्तु कोई दर्पण न था । लाचार बैठ कर आँखें बन्द करके मैं अपने शृङ्गार पर विचार करने लगी । इसी अवस्था में नटिनी निद्रा ने अपना जादू मेरे ऊपर चला दिया ।

“जब मेरी आँख खुली, तब रंगीली उषा अपने अभि-
सार की नीली ओढ़नी धीरे धीरे खसका कर किसी का आगमन देख रही थी । किन्तु आश्चर्य यह था कि तुम वहीं थे । मैं ललक कर उठ बैठी । पर हाय, वह तो मेरी ही छाया थी । मैं अपने ही से छली गई ।

“मैं विलाप करने लगी । प्रभात का टटका समीर मेरे दर्द की कहानी संवहन करने में भागा पीछा करने लगा । मैं उठकर गिरती पड़ती वन वन घूमने लगी । तुम न जाने कहाँ छाये थे । मैं सर्वत्र घूम आई किन्तु तुम कहाँ न मिले ।

“तब निराशा ने मेरे कान में कहा—“क्यों दर दर मारी फिरती है । यदि तेरे भाग में संयोग लिखा होता तो वे तुझे छोड़कर क्यों चल देते । अब तो तेरे लिए इसी में मंगल है कि तू यह पवित्र सृष्टि हृदय में रखे हुए, इस सरिता की गोद में शीतल समाधि ले ले ।”

“मैंने उसे गुरु मान कर यह मन्त्र ग्रहण किया किन्तु इसकी सिद्धि में भी तुम बाधक हुए । मेरा, मर कर चैन पाने का, विचार भी तुम्हें खला !

“यहाँ पहुँच कर मैं देखती हूँ कि तुम गाढ़ निद्रा में सो रहे हो । अपने कष्टों का स्मरण करके एक बार मेरा मान जागृत हो उठा किन्तु जब मैंने तुम्हारे मुख की ओर देखा तब मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जिस प्रकार मैं तुम्हें खोजते खोजते हार गई थी उसी प्रकार तुम भी मुझे खोजते खोजते थक कर सो गये हो ।

“अब मेरी सहानुभूति जाग उठी और पुरातन प्रीति ने कस के मेरा पल्ला पकड़ लिया । जिस तुम्हारी ही वंसी

को बजाकर पहले अनेकों बार तुम्हें ही मन्त्र-मुरघ किया जा, आज मैं उसे एक बार फिर बजा उठी। तबीयत ही ती है, न मानी, मचल पड़ी।”

“हाय प्रिये, तुम्हें मुलावा देने में मैं स्वयं भूल गया। अब सब याद आ गया, किन्तु आभो अब हम उन स्मृतियों को विस्मृत कर दें।” युवक के हृदय में एक भूकम्प आ गया था। उसने यह बात गद्गद और आविष्ट स्वर में कही थी। साथ ही उसे छाती से लगाने के लिए उसने हाथ फैलाये किन्तु वह रमणी ज्ञानी के लिये माया की तरह, पार्थिव चक्षु के लिये अमरावती की तरह और सूर्य के लिये उषा की तरह जाने कहीं अदृश्य हो गई।

तब मूढ़ होकर, हतबुद्धि होकर, अप्रतिभ होकर और व्याकुल होकर वह अपनी सूनी आँखों से चारों ओर देखने लगा और उसने पाया कि पतझड़ में सोकर, अचानक उठने पर जो वसन्त का स्वप्न वह अभी तक देख रहा था उसका कहीं पता भी नहीं। अब तो विश्व में निद्राघ का अटल राज्य है।

और—उसके हृदय में भी झुलसा देने वाली दक, धू, धू, करके चल उठी है।